

Srimad Bhagavad Gita

By <http://bhagavad-gita-pdf.blogspot.com>

Hindi Translation

श्रीमद् भगवद् गीता

By <http://bhagavad-gita-pdf.blogspot.com>

हिंदी अनुवाद

Chapter 1 Verse 1

Chapter Name -Observing the Armies on the Battlefield of Kuruksetra

Sanskrit English
dhrtarastra uvaca
dharma-ksetre kuru-ksetre
samaveta yuyutsavah
mamakah pandavas caiva
kim akurvata sanjaya

Simple Interpretation

Dhrtarastra said: O Sanjaya, after assembling in the place of pilgrimage at Kuruksetra, what did my sons and the sons of Pandu do, being desirous to fight?

Hindi Interpretation

Dhrtarastra ने कहा: हे संजय, इच्छुक किया जा रहा से लड़ने के लिए है मेरे बेटे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया Kuruksetra पर तीर्थयात्रा की जगह है, मैं कोडांतरण के बाद?

Chapter 1 Verse 2

Chapter Name -Observing the Armies on the Battlefield of Kuruksetra

Sanskrit English
sanjaya uvaca
drstva tu pandavanikam
vyudham duryodhanas tada
acaryam upasangamya
raja vacanam abravat

Simple Interpretation

Sanjaya said: O King, after looking over the army gathered by the sons of Pandu, King Duryodhana went to his teacher and began to speak the following words:

Hindi Interpretation

संजय ने कहा, हे राजा, पांडु के पुत्रों द्वारा इकट्ठा सेना पर देखने के बाद, राजा दुर्योधन अपने शिक्षक के पास गया और निम्नलिखित शब्दों को बोलना शुरू किया:

Chapter 1 Verse 3

Chapter Name -Observing the Armies on the Battlefield of Kuruksetra

Sanskrit English
pasyaitam pandu-putranam
acarya mahatim camum
vyudham drupada-putrena
tava sisyaena dhimata

Simple Interpretation

O my teacher, behold the great army of the sons of Pandu, so expertly arranged by your intelligent disciple, the son of Drupada.

Hindi Interpretation

हे मेरे शिक्षक है, तो expertly आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र द्वारा व्यवस्था पांडु के पुत्रों के महान सेना, निहारना।

Chapter 1 Verse 4

Chapter Name -Observing the Armies on the Battlefield of Kuruksetra

Sanskrit English
atra sura mahesvasa
bhimarjuna-sama yudhi
yuyudhano viratas ca
drupadas ca maha-rathah

Simple Interpretation

Here in this army there are many heroic bowmen equal in fighting to Bhima and Arjuna; there are also great fighters like Yuyudhana, Virata and Drupada.

Hindi Interpretation

यहाँ इस सेना में भीम और अर्जुन के लिए लड़ में बराबर कई वीर bowmen कर रहे हैं; युयुधन, विराट और द्रुपद जैसे महान सेनानियों भी कर रहे हैं।

Chapter 1 Verse 5

Chapter Name -Observing the Armies on the Battlefield of Kuruksetra

Sanskrit English
dhrstaketus cekitanah
kasirajas ca viryavan
puruji kuntibhojas ca

saibyas ca nara-pungavah

Simple Interpretation

There are also great, heroic, powerful fighters like Dhrstaketu, Cekitana, Kasiraja, Purujit, Kuntibhoja and Saibya.

Hindi Interpretation

Dhrstaketu, Cekitana, Kasiraja, पुरुजित, कुन्तिभोज और Saibya जैसे महान, वीर, शक्तिशाली लड़ाकू विमानों भी कर रहे हैं।

Chapter 1 Verse 6

Chapter Name -Observing the Armies on the Battlefield of Kuruksetra

Sanskrit English

yudhamanyus ca vikranta
uttamaujas ca viryavan
saubhadro draupadeyas ca
sarva eva maha-rathah

Simple Interpretation

There are the mighty Yudhamanyu, the very powerful Uttamauja, the son of Subhadra and the sons of Draupadi.
All these warriors are great chariot fighters.

Hindi Interpretation

पराक्रमी युधामन्यु, बहुत शक्तिशाली Uttamauja, सुभद्रा के पुत्र और द्रौपदी के बेटों के होते हैं। इन सभी योद्धाओं महान रथ सेनानियों रहे हैं।

Chapter 1 Verse 7

Chapter Name -Observing the Armies on the Battlefield of Kuruksetra

Sanskrit English

asmakam tu visista ye
tan nibodha dvijottama
nayaka mama sainyasya
samjnartham tan bravimi te

Simple Interpretation

O best of the brahmanas, for your information, let me tell you about the captains who are especially qualified to lead my military force.

Hindi Interpretation

ब्राह्मण का सबसे अच्छा हे, आपकी जानकारी के लिए, मुझे मेरे सैन्य बल का नेतृत्व करने के लिए विशेष रूप से योग्य हैं जो कप्तानों के बारे में आपको बता दूँ।

Chapter 1 Verse 8

Chapter Name -Observing the Armies on the Battlefield of Kuruksetra

Sanskrit English

bhavan bhismas ca karnas ca
krpas ca samitim-jayah
asvatthama vikarnas ca
saumadattis tathaiva ca

Simple Interpretation

There are personalities like yourself, Bhisma, Karna, Krpa, Asvatthama, Vikarna and the son of Somadatta called Bhurisrava, who are always victorious in battle.

Hindi Interpretation

अपने आप को जैसे व्यक्तित्व के होते हैं, भीष्म, कर्ण, Krpa, Asvatthama, विकर्ण और Somadatta का बेटा हमेशा लड़ाई में विजयी रहे हैं जो Bhurisrava, कहा जाता है।

Chapter 1 Verse 9

Chapter Name -Observing the Armies on the Battlefield of Kuruksetra

Sanskrit English

anye ca bahavah sura
mad-arthe tyakta-jivitah
nana-sastra-praharanah
sarve yuddha-visaradah

Simple Interpretation

There are many other heroes who are prepared to lay down their lives for my sake. All of them are well equipped with different kinds of weapons, and all are experienced in military science.

Hindi Interpretation

मेरे लिए उनके जीवन लेट करने के लिए तैयार कर रहे हैं जो कई अन्य हीरो हैं। वे सब के सब अच्छी तरह से हथियारों के विभिन्न प्रकार के साथ लैस कर रहे हैं, और सभी सैन्य विज्ञान के क्षेत्र में अनुभव कर रहे हैं।

Chapter 1 Verse 10

Chapter Name -Observing the Armies on the Battlefield of Kuruksetra

Sanskrit English

aparyaptam tad asmakam
balam bhismabhiraksitam
paryaptam tv idam etesam
balam bhimabhiraksitam

Simple Interpretation

Our strength is immeasurable, and we are perfectly protected by Grandfather Bhisma, whereas the strength of the Pandavas, carefully protected by Bhima, is limited.

Hindi Interpretation

हमारी ताकत बहुत बड़ा है, और हम पूरी तरह से ध्यान से भीम द्वारा संरक्षित पांडवों की शक्ति, जबकि सीमित है, दादा भीष्म द्वारा संरक्षित हैं।

Chapter 1 Verse 11

Chapter Name -Observing the Armies on the Battlefield of Kuruksetra

Sanskrit English
ayanesu ca sarvesu
yatha-bhagam avasthitah
bhimam evabhiraksantu
bhavantah sarva eva hi

Simple Interpretation

Now all of you must give full support to Grandfather Bhishma, standing at your respective strategic points in the phalanx of the army.

Hindi Interpretation

अब आप सभी को सेना की व्यूह में अपने-अपने सामरिक बिंदुओं पर खड़ा है, दादा भीष्म को पूर्ण समर्थन देना चाहिए।

Chapter 1 Verse 12

Chapter Name -Observing the Armies on the Battlefield of Kuruksetra

Sanskrit English
tasya sanjanayan harsam
kuru-vrddhah pitamahah
simha-nadam vinadyoccaih
sankham dadhmau pratapavan

Simple Interpretation

Then Bhishma, the great valiant grandsire of the Kuru dynasty, the grandfather of the fighters, blew his conchshell very loudly like the sound of a lion, giving Duryodhana joy.

Hindi Interpretation

तब भीष्म, कुरु राजवंश के महान बहादुर पितामह, सेनानियों के दादा, दुर्योधन खुशी दे रही है, एक शेर की आवाज की तरह बहुत जोर से उसकी conchshell विस्फोट से उड़ा दिया।

Chapter 1 Verse 13

Chapter Name -Observing the Armies on the Battlefield of Kuruksetra

Sanskrit English
tatah sankhas ca bheryas ca
panavanaka-gomukhah
sahasaivabhyahanyanta
sa sabdas tumulo 'bhavat

Simple Interpretation

After that, the conchshells, bugles, trumpets, drums and horns were all suddenly sounded, and the combined sound was tumultuous.

Hindi Interpretation

"उसके बाद, conchshells, Bugles, तुरही, ड्रम और सींग सब अचानक लग रहा था रहे थे, और संयुक्त ध्वनि उथल-पुथल था।

Chapter 1 Verse 14

Chapter Name -Observing the Armies on the Battlefield of Kuruksetra

Sanskrit English

tatah svetair hayair yukte
mahati syandane sthitau
madhavah pandavas caiva
divyau sankhau pradadhmauh

Simple Interpretation

On the other side, both Lord Krsna and Arjuna, stationed on a great chariot drawn by white horses, sounded their transcendental conchshells.

Hindi Interpretation

दूसरी ओर, भगवान कृष्ण और अर्जुन दोनों, सफेद घोड़ों द्वारा तैयार एक महान रथ पर तैनात हैं, उनके दिव्य conchshells लग रहा था।

Chapter 1 Verse 15

Chapter Name -Observing the Armies on the Battlefield of Kuruksetra

Sanskrit English

pancajanyaam hrsikeso
devadattam dhananjayah
paundram dadhmau maha-sankham
bhima-karma vrkodarah

Simple Interpretation

Then, Lord Krsna blew His conchshell, called Pancajanya; Arjuna blew his, the Devadatta; and Bhima, the voracious eater and performer of Herculean tasks, blew his terrific conchshell called Paundram.

Hindi Interpretation

फिर, भगवान कृष्ण Pancajanya बुलाया अपने conchshell, विस्फोट से उड़ा दिया; अर्जुन अपने, देवदत्त विस्फोट से उड़ा दिया; और भीमा, अत्यंत कठिन कार्यों में से भक्षक और कलाकार, Paundram कहा जाता है उसकी भयानक conchshell विस्फोट से उड़ा दिया।

Chapter 1 Verse 16-18

Chapter Name -Observing the Armies on the Battlefield of Kuruksetra

Sanskrit English
anantavijayam raja
kunti-putro yudhisthirah
nakulah sahademas ca
sughosa-manipuspakau

kasyas ca paramesv-asah
sikhandi ca maha-rathah
dhrstadyumno viratas ca
satyakis caparajitah

drupado draupadeyas ca
sarvasah prthivi-pate
saubhadras ca maha-bahuh
sankhan dadhmuh prthak prthak

Simple Interpretation

King Yudhisthira, the son of Kunti, blew his conchshell, the Ananta-vijaya, and Nakula and Sahadeva blew the Sugghosa and Manipuspaka. That great archer the King of Kasi, the great fighter Sikhandi, Dhrstadyumna, Virata and the unconquerable Satyaki, Drupada, the sons of Draupadi, and the others, O King, such as the son of Subhadra, greatly armed, all blew their respective conchshells.

Hindi Interpretation

राजा युधिष्ठिर, कुंती का बेटा है, उसकी conchshell, अनंत-विजया विस्फोट से उड़ा दिया, और नकुल और सहदेव Sugghosa और Manipuspaka विस्फोट से उड़ा दिया। यह महान आर्चर ऐसे बहुत सशस्त्र सुभद्रा के पुत्र के रूप में कासी के राजा, महान सेनानी Sikhandi, Dhrstadyumna, विराट और अजेय सत्यकि, द्रुपद, द्रौपदी के बेटों, और दूसरों को, हे राजा, सब उनके संबंधित conchshells फूँका

Chapter 1 Verse 19

Chapter Name -Observing the Armies on the Battlefield of Kuruksetra

Sanskrit English
sa ghoso dhartarastranam
hrdayani vyadarayat
nabhas ca prthivim caiva
tumulo 'bhyanunadayan

Simple Interpretation

The blowing of these different conchshells became uproarious, and thus, vibrating both in the sky and on the earth, it shattered the hearts of the sons of Dhrtarastra.

Hindi Interpretation

इन विभिन्न conchshells की उड़ाने उपद्रवी बन गया है, और इस प्रकार, आकाश में और पृथ्वी पर दोनों हिल, यह Dhrtarastra

के बेटों के दिलों को तोड़ दिया।

Chapter 1 Verse 20

Chapter Name -Observing the Armies on the Battlefield of Kuruksetra

Sanskrit English

atha vyavasthitan drstva
dhartarastran kapi-dhvajah
pravrtte sastra-sampate
dhanur udyamya pandavah
hrsikesam tada vakyam
idam aha mahi-pate

Simple Interpretation

O King, at that time Arjuna, the son of Pandu, who was seated in his chariot, his flag marked with Hanuman, took up his bow and prepared to shoot his arrows, looking at the sons of Dhrtarastra. O King, Arjuna then spoke to Hrsikesa [Krsna] these words:

Hindi Interpretation

हे राजा, अपने रथ में बैठा था, जो अर्जुन, पांडु का बेटा है, उसका झंडा हनुमान के साथ चिह्नित है कि समय पर, अपने धनुष उठाया और Dhrtarastra के बेटों को देख, अपने तीर शूट करने के लिए तैयार किया। हे राजा, अर्जुन तो इन शब्दों Hrsikesa [कृष्ण] से बात की:

Chapter 1 Verse 21-22

Chapter Name -Observing the Armies on the Battlefield of Kuruksetra

Sanskrit English

arjuna uvaca
senayor ubhayor madhye
ratham sthapaya me 'cyuta
yavad etan nirikse 'ham
yoddhu-kaman avasthitan

kair maya saha yoddhavyam
asmin rana-samudyame

Simple Interpretation

Arjuna said: O infallible one, please draw my chariot between the two armies so that I may see who is present here, who is desirous of fighting, and with whom I must contend in this great battle attempt.

Hindi Interpretation

अर्जुन ने कहा: मैं लड़ने के इच्छुक है, जो यहां मौजूद है जो देख सकते हैं इतना है कि हे अचूक एक, दो सेनाओं के बीच मेरे रथ को आकर्षित करें, और किसके साथ मैं इस महान लड़ाई की कोशिश में संघर्ष करना होगा।

Chapter 1 Verse 23

Chapter Name -Observing the Armies on the Battlefield of Kuruksetra

Sanskrit English
yotsyamanan avekse 'ham
ya ete 'tra samagatah
dhartarastrasya durbuddher
yuddhe priya-cikirsavah

Simple Interpretation

Let me see those who have come here to fight, wishing to please the evil-minded son of Dhrtarastra.

Hindi Interpretation

मुझे यहाँ आए हैं Dhrtarastra की बुराई दिमाग बटे को खुश करने के इच्छुक, लड़ने के लिए जो लोग देखते हैं।

Chapter 1 Verse 24

Chapter Name -Observing the Armies on the Battlefield of Kuruksetra

Sanskrit English
sanjaya uvaca
evam ukto hrsikeso
gudakesena bhārata
senayor ubhayor madhye
sthapayitva rathottamam

Simple Interpretation

Sanjaya said: O descendant of Bharata, being thus addressed by Arjuna, Lord Krsna drew up the fine chariot in the midst of the armies of both parties.

Hindi Interpretation

संजय ने कहा: हे भरत वंशज है, इस प्रकार अर्जुन ने संबोधित किया जा रहा है, भगवान श्री कृष्ण दोनों पक्षों की सेनाओं के बीच में ठीक रथ खींचा।

Chapter 1 Verse 25

Chapter Name -Observing the Armies on the Battlefield of Kuruksetra

Sanskrit English
bhishma-drona-pramukhatah
sarvesam ca mahi-ksitam
uvaca partha pasyaitan
samavetan kurun iti

Simple Interpretation

In the presence of Bhishma, Drona and all other chieftains of the world, Hrsikesa, the Lord, said, Just behold, Partha, all the Kurus who are assembled here.

Hindi Interpretation

भीष्म, द्रोण और दुनिया के अन्य सभी सरदारों की उपस्थिति में, Hrsikesa, हे प्रभु, बस, यहाँ इकट्ठा कर रहे हैं, जो पार्थ, सभी कौरवों निहारना कहा।

Chapter 1 Verse 26

Chapter Name -Observing the Armies on the Battlefield of Kuruksetra

Sanskrit English
tatrapasyat sthitan parthah
pitrn atha pitamahan
acaryan matulan bhratr
putran pautran sakhims tatha
svasuran suhrdas caiva
senayor ubhayor api

Simple Interpretation

There Arjuna could see, within the midst of the armies of both parties, his fathers, grandfathers, teachers, maternal uncles, brothers, sons, grandsons, friends, and also his father-in-law and well-wishers--all present there.

Hindi Interpretation

अर्जुन वहाँ भी दोनों दलों के, अपने पिता, दादा, शिक्षकों, मातृ चाचा, भाई, बेटे, पोते, दोस्तों की सेनाओं के बीच के भीतर, देख सकता है, और अपने पिता जी और शुभचिंतकों - वहाँ उपस्थित सभी ।

Chapter 1 Verse 27

Chapter Name -Observing the Armies on the Battlefield of Kuruksetra

Sanskrit English
tan samiksya sa kaunteyah
sarvan bandhun avasthitan
krpaya parayavisto
visidann idam abravat

Simple Interpretation

When the son of Kunti, Arjuna, saw all these different grades of friends and relatives, he became overwhelmed with compassion and spoke thus:

Hindi Interpretation

कुंती, अर्जुन, के बेटे दोस्तों और रिश्तेदारों के इन सभी विभिन्न ग्रेड देखा, "जब वह करुणा से अभिभूत हो गया और इस प्रकार बात की:

Chapter 1 Verse 28

Chapter Name -Observing the Armies on the Battlefield of Kuruksetra

Sanskrit English
arjuna uvaca
drstvemam sva-janam krsna
yuyutsum samupasthitam
sidanti mama gatrani
mukham ca parisusyati

Simple Interpretation

Arjuna said: My dear Krsna, seeing my friends and relatives present before me in such a fighting spirit, I feel the limbs of my body quivering and my mouth drying up.

Hindi Interpretation

अर्जुन ने कहा: मेरे प्यारे कृष्ण, एक ऐसी लड़ाई की भावना में मेरे दोस्तों और मेरे सामने उपस्थित रिश्तेदारों को देखकर, मैं सूख मेरे शरीर स्पंदन और मेरे मुंह से अंग लग रहा है।

Chapter 1 Verse 29

Chapter Name -Observing the Armies on the Battlefield of Kuruksetra

Sanskrit English
vepathus ca sarire me
roma-harsas ca jayate
gandivam srmsate hastat
tvak caiva paridahyate

Simple Interpretation

My whole body is trembling, and my hair is standing on end. My bow Gandiva is slipping from my hand, and my skin is burning.

Hindi Interpretation

मेरा पूरा शरीर कांप रहा है, और मेरे बाल अंत पर खड़ा है। मेरा धनुष Gandiva मेरे हाथ से फिसल रहा है, और मेरी त्वचा जल रहा है।

Chapter 1 Verse 30

Chapter Name -Observing the Armies on the Battlefield of Kuruksetra

Sanskrit English
na ca saknomy avasthatum
bhramativa ca me manah
nimittani ca pasyami
viparitani kesava

Simple Interpretation

I am now unable to stand here any longer. I am forgetting myself, and my mind is reeling. I foresee only evil, O killer of the Kesi demon.

Hindi Interpretation

अब मैं किसी भी अब यहाँ खड़े करने में असमर्थ हूँ। मैं अपने आप को भूल रहा हूँ, और मेरे मन चपेट में है। मैं Kesi दानव का केवल बुराई, हे हत्यारे की उम्मीद है।

Chapter 1 Verse 31

Chapter Name -Observing the Armies on the Battlefield of Kuruksetra

Sanskrit English

na ca sreya 'nupasyami
hatva sva-janam ahave
na kankse vijayam krsna
na ca rajyam sukhani ca

Simple Interpretation

I do not see how any good can come from killing my own kinsmen in this battle, nor can I, my dear Krsna, desire any subsequent victory, kingdom, or happiness.

Hindi Interpretation

मैं किसी भी अच्छा इस लड़ाई में अपना खुद भाइयों की हत्या से आ सकता है कैसे नहीं दिख रहा है, और न ही मैं, मेरे प्रिय कृष्ण, किसी भी बाद विजय, राज्य, या खुशी की इच्छा कर सकते हैं।

Chapter 1 Verse 32-35

Chapter Name -Observing the Armies on the Battlefield of Kuruksetra

Sanskrit English

kim no rajyena govinda
kim bhogair jivitena va
yesam arthe kanksitam no
rajyam bhogah sukhani ca

ta ime 'vasthita yuddhe
pranams tyaktva dhanani ca
acaryah pitarah putras
tathaiva ca pitamahah

matulah svasurah pautrah
syalah sambandhinah tatha
etan na hantum icchami
ghnato 'pi madhusudana

api trailokya-rajyasya
hetoh kim nu mahi-krte
nihatya dhartarastran nah

ka pritiḥ syaj janardana

Simple Interpretation

O Govinda, of what avail to us are kingdoms, happiness or even life itself when all those for whom we may desire them are now arrayed in this battlefield? O Madhusudana, when teachers, fathers, sons, grandfathers, maternal uncles, fathers-in-law, grandsons, brothers-in-law and all relatives are ready to give up their lives and properties and are standing before me, then why should I wish to kill them, though I may survive? O maintainer of all creatures, I am not prepared to fight with them even in exchange for the three worlds, let alone this earth.

Hindi Interpretation

हे गोविंदा, के राज्यों, खुशी या हम उन्हें इच्छा हो सकती है, जिनके लिए उन सभी को अब इस युद्ध के मैदान में arrayed कर रहे हैं जब भी जीवन ही हमारे लिए क्या लाभ हैं? हे मधुसूदन शिक्षकों, पिता, बेटों, दादा, नाना-मामा, पिता जी, पोते, भाई-भाभी और सभी रिश्तेदारों को उनके जीवन और गुणों को देने के लिए तैयार कर रहे हैं और मेरे सामने खड़ा कर रहे हैं, जब, तो क्यों मुझे ऐसा करना चाहिए मैं

Chapter 1 Verse 36

Chapter Name -Observing the Armies on the Battlefield of Kuruksetra

Sanskrit English

papam evasrayed asman
hatvaitan atatayinah
tasman narha vayam hantum
dhartarastran sa-bandhavan
sva-janam hi katham hatva
sukhinah syama madhava

Simple Interpretation

Sin will overcome us if we slay such aggressors. Therefore it is not proper for us to kill the sons of Dhrtarastra and our friends. What should we gain, O Krsna, husband of the goddess of fortune, and how could we be happy by killing our own kinsmen?

Hindi Interpretation

हम इस तरह के हमलावरों को मार डालना अगर पाप हमें दूर करेंगे। इसलिए यह हमें Dhrtarastra और हमारे दोस्तों के पुत्रों को मारने के लिए उचित नहीं है। हम हासिल करना चाहिए क्या, हे कृष्ण, भाग्य की देवी के पति, और कैसे हम अपने ही भाइयों की हत्या करके खुश हो सकता है?

Chapter 1 Verse 37-38

Chapter Name -Observing the Armies on the Battlefield of Kuruksetra

Sanskrit English

yady apy ete na pasyanti
lobhopahata-cetasah
kula-ksaya-krtam dosam
mitra-drohe ca patakam

katham na jneyam asmabhih

papad asman nivartitum
kula-ksaya-krtam dosam
prapasyadbhir janardana

Simple Interpretation

O Janardana, although these men, overtaken by greed, see no fault in killing one's family or quarreling with friends, why should we, with knowledge of the sin, engage in these acts?

Hindi Interpretation

हे जनार्दन, इन लोगों हालांकि, लालच से आगे निकल, हम क्यों, पाप के ज्ञान के साथ, इन कृत्यों में शामिल करना चाहिए, एक परिवार की हत्या या दोस्तों के साथ झगड़ा करने में कोई गलती नहीं देख रहे हो?

Chapter 1 Verse 39

Chapter Name -Observing the Armies on the Battlefield of Kuruksetra

Sanskrit English
kula-ksaye pranasyanti
kula-dharmah sanatanah
dharme naste kulam krtam
adharmo 'bhibhavaty uta

Simple Interpretation

With the destruction of dynasty, the eternal family tradition is vanquished, and thus the rest of the family becomes involved in irreligious practice.

Hindi Interpretation

वंश के विनाश के साथ, अनन्त परिवार की परंपरा परास्त कर रहा है, और इस तरह परिवार के बाकी अधार्मिक व्यवहार में शामिल हो जाता है।

Chapter 1 Verse 40

Chapter Name -Observing the Armies on the Battlefield of Kuruksetra

Sanskrit English
adharmabhibhavat krsna
pradusyanti kula-striyah
strisu dustasu varsneya
jayate varna-sankarah

Simple Interpretation

When irreligion is prominent in the family, O Krsna, the women of the family become corrupt, and from the degradation of womanhood, O descendant of Vrsni, comes unwanted progeny.

Hindi Interpretation

अधर्म परिवार में प्रमुख हो गया है, हे कृष्ण, परिवार की महिलाओं के भ्रष्ट हो जाते हैं, और नारीत्व की गिरावट से, Vrsni हे वंशज, अवांछित संतान आता है।

Chapter 1 Verse 41

Chapter Name -Observing the Armies on the Battlefield of Kuruksetra

Sanskrit English
sankaro narakayaiva
kula-ghnanam kulasya ca
patanti pitaro hy esam
lupta-pindodaka-kriyah

Simple Interpretation

When there is increase of unwanted population, a hellish situation is created both for the family and for those who destroy the family tradition. In such corrupt families, there is no offering of oblations of food and water to the ancestors.

Hindi Interpretation

अवांछित जनसंख्या की वृद्धि हुई है, जब एक नारकीय स्थिति परिवार के लिए और परिवार की परंपरा को नष्ट जो उन दोनों के लिए बनाया जाता है। ऐसे भ्रष्ट परिवारों में, पूर्वजों के लिए भोजन और पानी का चढ़ावा के कोई भेंट नहीं है।

Chapter 1 Verse 42

Chapter Name -Observing the Armies on the Battlefield of Kuruksetra

Sanskrit English
dosair etaih kula-ghnanam
varna-sankara-karakaih
utsadyante jati-dharmah
kula-dharmas ca sasvatah

Simple Interpretation

Due to the evil deeds of the destroyers of family tradition, all kinds of community projects and family welfare activities are devastated.

Hindi Interpretation

कारण परिवार की परंपरा के विध्वंसक के बुरे कामों के लिए, सामुदायिक परियोजनाओं और परिवार कल्याण गतिविधियों के सभी प्रकार तबाह हो रहे हैं।

Chapter 1 Verse 43

Chapter Name -Observing the Armies on the Battlefield of Kuruksetra

Sanskrit English
utsanna-kula-dharmanam
manusyanam janardana
narake niyatam vaso
bhavaty anusuruma

Simple Interpretation

O Krsna, maintainer of the people, I have heard by disciplic succession that those who destroy family traditions dwell always in hell.

Hindi Interpretation

परिवार की परंपराओं को नष्ट कर जो लोग नरक में हमेशा ध्यान केन्द्रित करना है कि हे कृष्ण, लोगों के अनुरक्षक, मैं disciplic उत्तराधिकार से सुना है।

Chapter 1 Verse 44

Chapter Name -Observing the Armies on the Battlefield of Kuruksetra

Sanskrit English

aho bata mahat papam
kartum vyavasita vayam
yad rajya-sukha-lobhena
hantum sva-janam udyatah

Simple Interpretation

Alas, how strange it is that we are preparing to commit greatly sinful acts, driven by the desire to enjoy royal happiness.

Hindi Interpretation

काश, कितना अजीब है यह हम शाही खुशी का आनंद की इच्छा से प्रेरित बहुत पापी कार्य करता है, प्रतिबद्ध करने के लिए तैयारी कर रहे हैं।

Chapter 1 Verse 45

Chapter Name -Observing the Armies on the Battlefield of Kuruksetra

Sanskrit English

yadi mam apratikaram
asastram sastra-panayah
dhartarastra rane hanyus
tan me ksemataram bhavet

Simple Interpretation

I would consider it better for the sons of Dhrtarastra to kill me unarmed and unresisting, rather than to fight with them.

Hindi Interpretation

मैं उन लोगों के साथ लड़ने के बजाय, मुझे निहत्थे और unresisting को मारने के लिए Dhrtarastra के बेटों के लिए यह बेहतर विचार करेगा।

Chapter 1 Verse 46

Chapter Name -Observing the Armies on the Battlefield of Kuruksetra

Sanskrit English
sanjaya uvaca
evam uktvarjunah sankhye
rathopastha upavisat
visrjya sa-saram capam
soka-samvigna-manasah

Simple Interpretation

Sanjaya said: Arjuna, having thus spoken on the battlefield, cast aside his bow and arrows and sat down on the chariot, his mind overwhelmed with grief.

Hindi Interpretation

संजय ने कहा: अर्जुन, इस प्रकार के दुःख के साथ अभिभूत, उसके मन, युद्ध के मैदान पर बात की अपने धनुष और तीर टालना और रथ पर बैठ कर रही है।

Chapter 2 Verse 1

Chapter Name -Contents of the Gita Summarized

Sanskrit English
sanjaya uvaca
tam tatha krpayavistam
asru-purnakuleksanam
visidantam idam vakyam
uvaca madhusudanah

Simple Interpretation

Sanjaya said: Seeing Arjuna full of compassion and very sorrowful, his eyes brimming with tears, Madhusudana, Krsna, spoke the following words.

Hindi Interpretation

संजय ने कहा: निम्नलिखित शब्दों अर्जुन करुणा से भरा है और आँसू से भरी उसकी आँखें, मधुसूदन, कृष्ण, बात की बहुत दुखी देखकर।

Chapter 2 Verse 2

Chapter Name -Contents of the Gita Summarized

Sanskrit English
sri-bhagavan uvaca
kutas tva kasmalam idam
visame samupasthitam
anarya-justam asvargyam
akirti-karam arjuna

Simple Interpretation

The Supreme Person [Bhagavan] said: My dear Arjuna, how have these impurities come upon you? They are not at all befitting a man who knows the progressive values of life. They do not lead to higher planets, but to infamy.

Hindi Interpretation

सुप्रीम व्यक्ति [भगवान] ने कहा: मेरे प्यारे अर्जुन, इन अशुद्धियों को तुम पर कैसे आ गए? वे सब पर जीवन की प्रगतिशील मूल्यों को न जानता है कि एक आदमी को करारा नहीं कर रहे हैं। वे उच्च ग्रहों के लिए, लेकिन बदनामी करने के लिए नेतृत्व नहीं है।

Chapter 2 Verse 3

Chapter Name -Contents of the Gita Summarized

Sanskrit English

klaibyam ma sma gamah partha
naitat tvayy upapadyate
ksudram hrdaya-daurbalyam
tyaktvottistha parantapa

Simple Interpretation

O son of Prtha, do not yield to this degrading impotence. It does not become you. Give up such petty weakness of heart and arise, O chastiser of the enemy.

Hindi Interpretation

Prtha के हे पुत्र, इस अपमानजनक नपुंसकता को उपज नहीं है। यह आप नहीं हो जाता।, दुश्मन के हे chastiser दिल की ऐसी क्षुद्र कमजोरी छोड़ देना और उठता है।

Chapter 2 Verse 4

Chapter Name -Contents of the Gita Summarized

Sanskrit English

arjuna uvaca
katham bhimam aham sankhye
dronam ca madhusudana
isubhih pratiyotsyami
pujarhav ari-sudana

Simple Interpretation

Arjuna said: O killer of Madhu [Krsna], how can I counterattack with arrows in battle men like Bhishma and Drona, who are worthy of my worship?

Hindi Interpretation

अर्जुन ने कहा: मैं मेरी पूजा के योग्य हैं जो भीष्म और द्रोण की तरह लड़ाई पुरुषों में तीर, साथ पलटवार कर सकते हैं कि कैसे मधु [कृष्ण] के हे हत्यारा?

Chapter 2 Verse 5

Chapter Name -Contents of the Gita Summarized

Sanskrit English

gurun ahatva hi mahanubhavan
sreyo bhoktum bhaiksyam apiha loke
hatvartha-kamams tu gurun ihaiva
bhunjiya bhogan rudhira-pradigdhan

Simple Interpretation

It is better to live in this world by begging than to live at the cost of the lives of great souls who are my teachers. Even though they are avaricious, they are nonetheless superiors. If they are killed, our spoils will be tainted with blood.

Hindi Interpretation

यह मेरे शिक्षक हैं जो महान आत्माओं के जीवन की कीमत पर रहने के लिए की तुलना में भीख मांगने के द्वारा इस दुनिया में जीने के लिए बेहतर हैं। वे लालची हैं, भले ही वे फिर भी वरिष्ठ हैं। वे मारे गए हैं, तो हमारी लूट खून से दागी किया जाएगा।

Chapter 2 Verse 6

Chapter Name -Contents of the Gita Summarized

Sanskrit English

na caitad vidmah kataran no gariyo
yad va jayema yadi va no jayeyuh
yan eva hatva na jijivisamas
te 'vasthitah pramukhe dhartarastrah

Simple Interpretation

Nor do we know which is better--conquering them or being conquered by them. The sons of Dhrtarastra, whom if we kill we should not care to live, are now standing before us on this battlefield.

Hindi Interpretation

उन्हें जीतने या उनके द्वारा विजय प्राप्त की जा - और न ही हम बेहतर है जो पता है। हम अब हम इस युद्ध के मैदान पर हमारे सामने खड़े हैं जीने की परवाह नहीं करनी चाहिए मार जिसे Dhrtarastra के बेटे।

Chapter 2 Verse 7

Chapter Name -Contents of the Gita Summarized

Sanskrit English

karpanya-dosopahata-svabhavah
prcchami tvam dharma-sammudha-cetah
yac chreyah syan niscitam bruhi tan me
sisyas te 'ham sadhi mam tvam prapannam

Simple Interpretation

Now I am confused about my duty and have lost all composure because of weakness. In this condition I am asking You to tell me clearly what is best for me. Now I am Your disciple, and a soul surrendered unto You. Please instruct me.

Hindi Interpretation

अब मैं अपने कर्तव्य के बारे में उलझन में हूँ और क्योंकि कमजोरी के सभी मानसिक संतुलन खो दिया है। इस हालत में मैं मेरे

लिए सबसे अच्छा है स्पष्ट रूप से मुझे बताओ कि क्या करने के लिए पूछ रहा हूँ। अब मैं आपका शिष्य हूँ, और एक आत्मा आप तक आत्मसमर्पण कर दिया। मुझे हिदायत दें।

Chapter 2 Verse 8

Chapter Name -Contents of the Gita Summarized

Sanskrit English

na hi prapasyami mamapanudyad
yac chokam ucchosanam indriyanam
avapya bhumav asapatnam rddham
rajyam suranam api cadhipatyam

Simple Interpretation

I can find no means to drive away this grief which is drying up my senses. I will not be able to destroy it even if I win an unrivaled kingdom on earth with sovereignty like the demigods in heaven.

Hindi Interpretation

मैं अपनी इन्द्रियों को सुखाने जो इस दुः ख दूर ड्राइव करने के लिए कोई साधन मिल सकता है। मुझे लगता है मैं स्वर्ग में demigods की तरह संप्रभुता के साथ पृथ्वी पर एक बेजोड़ किंगडम जीत भले ही इसे नष्ट करने में सक्षम नहीं होगा।

Chapter 2 Verse 9

Chapter Name -Contents of the Gita Summarized

Sanskrit English

sanjaya uvaca
evam uktva hrsikesam
gudakesah parantapah
na yotsya iti govindam
uktva tusnim babhuva ha

Simple Interpretation

Sanjaya said: Having spoken thus, Arjuna, chastiser of enemies, told Krsna, "Govinda, I shall not fight," and fell silent.

Hindi Interpretation

संजय ने कहा: इस प्रकार बात की बीत रहा है, अर्जुन, दुश्मन की chastiser, "मैं युद्ध नहीं करूँगा, गोविंदा" कृष्ण, कहा और चुप हो गया।

Chapter 2 Verse 10

Chapter Name -Contents of the Gita Summarized

Sanskrit English

tam uvaca hrsikesah
prahasann iva bharata

senayor ubhayor madhye
visidantam, idam vacah

Simple Interpretation

O descendant of Bharata, at that time Krsna, smiling, in the midst of both the armies, spoke the following words to the grief-stricken Arjuna.

Hindi Interpretation

हे भरत वंश, उस समय श्री कृष्ण पर, मुस्कराते हुए, दोनों सेनाओं के बीच में शोक त्रस्त अर्जुन को निम्नलिखित शब्दों बात की थी।

Chapter 2 Verse 11

Chapter Name -Contents of the Gita Summarized

Sanskrit English
sri-bhagavan uvaca
asocyan anvasocas tvam
prajna-vadams ca bhasase
gatasun agatasums ca
nanusocanti panditah

Simple Interpretation

The Blessed Lord said: While speaking learned words, you are mourning for what is not worthy of grief. Those who are wise lament neither for the living nor the dead.

Hindi Interpretation

धन्य है प्रभु ने कहा: सीखा शब्द बोल हैं, तो आप दुःख के योग्य नहीं है के लिए शोक मना रहे हैं। रहने वाले हैं और न ही मृत के लिए न तो बुद्धिमान विलाप कर रहे हैं।

Chapter 2 Verse 12

Chapter Name -Contents of the Gita Summarized

Sanskrit English
na tv evaham jatu nasam
na tvam neme janadhipah
na caiva na bhavisyamah
sarve vayam atah param

Simple Interpretation

Never was there a time when I did not exist, nor you, nor all these kings; nor in the future shall any of us cease to be.

Hindi Interpretation

में मौजूद नहीं था एक समय था जब वहाँ कभी नहीं था, और न ही आप, और न ही इन सभी राजाओं को; और न ही भविष्य में हम में से कोई भी नहीं रह जाएगा।

Chapter 2 Verse 13

Chapter Name -Contents of the Gita Summarized

Sanskrit English

dehino 'smin yatha dehe
kaumaram yauvanam jara
tatha dehantara-praptir
dhiras tatra na muhyati

Simple Interpretation

As the embodied soul continuously passes, in this body, from boyhood to youth to old age, the soul similarly passes into another body at death. A self-realized soul is not bewildered by such a change.

Hindi Interpretation

सन्निहित आत्मा लगातार गुजरता है, इस शरीर में, लड़कपन से बुढ़ापे के लिए युवाओं को, आत्मा इसी तरह मौत पर एक और शरीर में गुजरता है। एक स्वयं एहसास हुआ कि आत्मा इस तरह के बदलाव से घबराए नहीं है।

Chapter 2 Verse 14

Chapter Name -Contents of the Gita Summarized

Sanskrit English

matra-sparsas tu kaunteya
sitosna-sukha-duhkha-dah
agamapayino 'nityas
tams titikhsasva bhārata

Simple Interpretation

O son of Kunti, the nonpermanent appearance of happiness and distress, and their disappearance in due course, are like the appearance and disappearance of winter and summer seasons. They arise from sense perception, O scion of Bharata, and one must learn to tolerate them without being disturbed.

Hindi Interpretation

हे कुंती का बेटा है, खुशी और संकट के nonpermanent उपस्थिति, और कारण पाठ्यक्रम में उनके लापता होने, सर्दी और गर्मी के मौसम की उपस्थिति और लापता होने की तरह हैं। वे समझ में धारणा है, हे भरत वंशज से उठता है, और एक परेशान किया जा रहा बिना उन्हें सहन करना सीखना चाहिए।

Chapter 2 Verse 15

Chapter Name -Contents of the Gita Summarized

Sanskrit English

yam hi na vyathayanty ete
purusam purusarsabha
sama-duhkha-sukham dhīram
so 'mrtatvaya kalpate

Simple Interpretation

O best among men [Arjuna], the person who is not disturbed by happiness and distress and is steady in both is certainly eligible for liberation.

Hindi Interpretation

हे पुरुषों के बीच सबसे अच्छा [अर्जुन], नहीं खुशी और संकट से परेशान है और दोनों में स्थिर है, जो व्यक्ति को मोक्ष के योग्य है।

Chapter 2 Verse 16

Chapter Name -Contents of the Gita Summarized

Sanskrit English

nasato vidyate bhavo
nabhavo vidyate satah
ubhayor api drsto 'ntas
tv anayos tattva-darsibhih

Simple Interpretation

Those who are seers of the truth have concluded that of the nonexistent there is no endurance, and of the existent there is no cessation. This seers have concluded by studying the nature of both.

Hindi Interpretation

सच्चाई के संत हैं जो लोग अस्तित्वहीन का कोई सहनशीलता नहीं है, और बराबर का कोई समाप्ति है कि वहाँ यह निष्कर्ष निकाला है। इस संत दोनों की प्रकृति का अध्ययन करके यह निष्कर्ष निकाला है।

Chapter 2 Verse 17

Chapter Name -Contents of the Gita Summarized

Sanskrit English

avinasi tu tad viddhi
yena sarvam idam tatam
vinasam avyayasyasya
na kascit kartum arhati

Simple Interpretation

Know that which pervades the entire body is indestructible. No one is able to destroy the imperishable soul.

Hindi Interpretation

पूरे शरीर को अविनाशी है व्याप्त है, जो जानते हैं कि। कोई एक अविनाशी आत्मा को नष्ट करने में सक्षम है।

Chapter 2 Verse 18

Chapter Name -Contents of the Gita Summarized

Sanskrit English

antavanta ime deha

nityasyoktah saririnah
anasino 'prameyasya
tasmad yudhyasva bhārata

Simple Interpretation

Only the material body of the indestructible, immeasurable and eternal living entity is subject to destruction; therefore, fight, O descendant of Bharata.

Hindi Interpretation

अविनाशी, अथाह और अनन्त रहने इकाई का केवल भौतिक शरीर विनाश के अधीन है; इसलिए, हे भरत वंशज लड़ते हैं।

Chapter 2 Verse 19

Chapter Name -Contents of the Gita Summarized

Sanskrit English
ya enam veti hantaram
yas cainam manyate hatam
ubhau tau na vijanito
nayam hanti na hanyate

Simple Interpretation

He who thinks that the living entity is the slayer or that he is slain, does not understand. One who is in knowledge knows that the self slays not nor is slain.

Hindi Interpretation

उन्होंने कहा कि जो जीवित इकाई कातिलों सोचता है कि या वह मृत है, कि समझ में नहीं आता। जान में है जो स्वयं नहीं slays और न ही मारे गए है कि जानता है।

Chapter 2 Verse 20

Chapter Name -Contents of the Gita Summarized

Sanskrit English
na jayate mriyate va kadacin
nayam bhutva bhavita va na bhuyah
ajo nityah sasvato 'yam purano
na hanyate hanyamane sarire

Simple Interpretation

For the soul there is never birth nor death. Nor, having once been, does he ever cease to be. He is unborn, eternal, ever-existing, undying and primeval. He is not slain when the body is slain.

Hindi Interpretation

आत्मा के लिए जन्म और न ही मौत वहाँ कभी नहीं है। न ही, एक बार किया गया हो रही है, वह कभी नहीं रहेगा करता है। वह अजन्मे, अनन्त, कभी-, मौजूदा अमर और आदिम है। शरीर मृत है जब वह मृत नहीं है।

Chapter 2 Verse 21

Chapter Name -Contents of the Gita Summarized

Sanskrit English
vedavinasinam nityam
ya enam ajam avyayam
katham sa purusah partha
kam ghatayati hanti kam

Simple Interpretation

O Partha, how can a person who knows that the soul is indestructible, unborn, eternal and immutable, kill anyone or cause anyone to kill?

Hindi Interpretation

हे पार्थ, कैसे आत्मा अविनाशी, अजन्मे, शाश्वत और अपरिवर्तनीय है कि एक व्यक्ति जो जानता है, किसी को मारने के लिए या किसी को मारने के लिए पैदा कर सकता है?

Chapter 2 Verse 22

Chapter Name -Contents of the Gita Summarized

Sanskrit English
vasamsi jirnani yatha vihaya
navani grhnati naro 'parani
tatha sarirani vihaya jirnany
anyani samyati navani dehi

Simple Interpretation

As a person puts on new garments, giving up old ones, similarly, the soul accepts new material bodies, giving up the old and useless ones.

Hindi Interpretation

एक व्यक्ति, नए कपड़ों पर डालता है पुराने लोगों को दे रही है, उसी प्रकार, आत्मा पुराने और बेकार लोगों को दे रही है, नई सामग्री निकारों स्वीकार करता है।

Chapter 2 Verse 23

Chapter Name -Contents of the Gita Summarized

Sanskrit English
nainam chindanti sastrani
nainam dahati pavakah
na cainam kledayanty apo
na sosayati marutah

Simple Interpretation

The soul can never be cut into pieces by any weapon, nor can he be burned by fire, nor moistened by water, nor withered by the wind.

Hindi Interpretation

आत्मा किसी भी हथियार से टुकड़ों में काट नहीं किया जा सकता, और न ही वह आग से जला दिया जा सकता है, न ही पानी से सिक्त, और न ही हवा से सूख।

Chapter 2 Verse 24

Chapter Name -Contents of the Gita Summarized

Sanskrit English

acchedyo 'yam adahyo 'yam
akledyo 'sosya eva ca
nityah sarva-gatah sthanur
acalo 'yam sanatanah

Simple Interpretation

This individual soul is unbreakable and insoluble, and can be neither burned nor dried. He is everlasting, all-pervading, unchangeable, immovable and eternally the same.

Hindi Interpretation

इस व्यक्ति की आत्मा अटूट और अघुलनशील है, और जला दिया और न ही सूख जा सकता है भी नहीं। उन्होंने कहा, अपरिवर्तनीय अचल और सदा एक ही सभी सर्वव्यापी, अनन्त है।

Chapter 2 Verse 25

Chapter Name -Contents of the Gita Summarized

Sanskrit English

avyakto 'yam acintyo 'yam
avikaryo 'yam ucyate
tasmad evam viditvainam
nanusocitum arhasi

Simple Interpretation

It is said that the soul is invisible, inconceivable, immutable, and unchangeable. Knowing this, you should not grieve for the body.

Hindi Interpretation

यह आत्मा, अदृश्य समझ से बाहर है, अपरिवर्तनीय, और अपरिवर्तनीय है कि कहा जाता है। ये जानने के बाद, आप शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए।

Chapter 2 Verse 26

Chapter Name -Contents of the Gita Summarized

Sanskrit English

atha cainam nitya-jatam
nityam va manyase mrtam

tathapi tvam maha-baho
nainam socitum arhasi

Simple Interpretation

If, however, you think that the soul is perpetually born and always dies, still you still have no reason to lament, O mighty-armed.

Hindi Interpretation

अगर, हालांकि, आप आत्मा सदा पैदा होता है कि लगता है और हमेशा मर जाता है, फिर भी आप अभी भी, हे शक्तिशाली हथियारों से लैस विलाप करने के लिए कोई कारण नहीं है।

Chapter 2 Verse 27

Chapter Name -Contents of the Gita Summarized

Sanskrit English

jatasya hi dhruvo mrtyur
dhruvam janma mrtasya ca
tasmad apariharye 'rthe
na tvam socitum arhasi

Simple Interpretation

For one who has taken his birth, death is certain; and for one who is dead, birth is certain. Therefore, in the unavoidable discharge of your duty, you should not lament.

Hindi Interpretation

उनके जन्म ले लिया है, जो एक के लिए, मृत्यु निश्चित है; और मर चुका है, जो एक के लिए, जन्म निश्चित है। इसलिए, अपने कर्तव्य का अपरिहार्य निर्वहन में, आप विलाप नहीं करना चाहिए।

Chapter 2 Verse 28

Chapter Name -Contents of the Gita Summarized

Sanskrit English

avyaktadini bhutani
vyakta-madhyani bharata
avyakta-nidhanany eva
tatra ka paridevana

Simple Interpretation

All created beings are unmanifest in their beginning, manifest in their interim state, and unmanifest again when they are annihilated. So what need is there for lamentation?

Hindi Interpretation

सब बनाया प्राणियों को अपने अंतरिम राज्य में प्रकट, उनकी शुरुआत में अव्यक्त हैं, और अव्यक्त फिर वे सत्यानाश कर रहे हैं। तो क्या जरूरत है विलाप के लिए है?

Chapter 2 Verse 29

Chapter Name -Contents of the Gita Summarized

Sanskrit English

ascarya-vat pasyati kascid enam
ascarya-vad vadati tathaiva canyah
ascarya-vac cainam anyah srnoti
srutvapy enam veda na caiva kascit

Simple Interpretation

Some look at the soul as amazing, some describe him as amazing, and some hear of him as amazing, while others, even after hearing about him, cannot understand him at all.

Hindi Interpretation

आश्चर्यजनक रूप आत्मा में कुछ देखो, कुछ दूसरों जबकि, यहां तक कि उसके बारे में सुनने के बाद, उसे बिल्कुल समझ में नहीं आ सकते हैं, अद्भुत रूप में उसे वर्णन है, और उसके बारे में कुछ सुना के रूप में अद्भुत।

Chapter 2 Verse 30

Chapter Name -Contents of the Gita Summarized

Sanskrit English

dehi nityam avadhyo 'yam
dehe sarvasya bhārata
tasmāt sarvāni bhūtāni
na tvam śocitum arhasi

Simple Interpretation

O descendant of Bharata, he who dwells in the body is eternal and can never be slain. Therefore you need not grieve for any creature.

Hindi Interpretation

शरीर में बसता है, वह कौन है भरत वंशज शाश्वत है और मारे जा कभी नहीं कर सकते हैं। इसलिए आप किसी भी प्राणी के लिए शोक नहीं की जरूरत है।

Chapter 2 Verse 31

Chapter Name -Contents of the Gita Summarized

Sanskrit English

sva-dharmam api caveksya
na vikampitum arhasi
dharmyad dhi yuddhac chreyo 'nyat
ksatriyasya na vidyate

Simple Interpretation

Considering your specific duty as a ksatriya, you should know that there is no better engagement for you than

fighting on religious principles; and so there is no need for hesitation.

Hindi Interpretation

एक ksatriya के रूप में अपनी विशिष्ट कर्तव्य को ध्यान में रखते हैं, तो आप धार्मिक सिद्धांतों पर लड़ने से आप के लिए कोई बेहतर सगाई है कि वहाँ पता होना चाहिए; और इतनी झिझक के लिए कोई जरूरत नहीं है।

Chapter 2 Verse 32

Chapter Name -Contents of the Gita Summarized

Sanskrit English

yadrcchaya copapannam
svarga-dvaram apavrtam
sukhinah ksatriyah partha
labhante yuddham idrsam

Simple Interpretation

O Partha, happy are the ksatriyas to whom such fighting opportunities come unsought, opening for them the doors of the heavenly planets.

Hindi Interpretation

हे पार्थ, खुश ऐसी लड़ के अवसरों के लिए उन्हें खोलने स्वर्गीय ग्रहों के दरवाजे खोज निकाला नहीं आ किसके लिए ksatriyas हैं।

Chapter 2 Verse 33

Chapter Name -Contents of the Gita Summarized

Sanskrit English

atha cet tvam imam dharmyam
sangramam na karisyasi
tatah sva-dharmam kirtim ca
hitva papam avapsyasi

Simple Interpretation

If, however, you do not fight this religious war, then you will certainly incur sins for neglecting your duties and thus lose your reputation as a fighter.

Hindi Interpretation

हालांकि, यदि आप इस धार्मिक युद्ध लड़ने नहीं करते हैं, तो आप निश्चित रूप से अपने कर्तव्यों की उपेक्षा के लिए पापों उठाना होगा और इस तरह एक सेनानी के रूप में अपनी प्रतिष्ठा खो देते हैं।

Chapter 2 Verse 34

Chapter Name -Contents of the Gita Summarized

Sanskrit English

akirtim capi bhutani
kathayisyanti te 'vyayam
sambhavitasya cakirtir
maranad atiricyate

Simple Interpretation

People will always speak of your infamy, and for one who has been honored, dishonor is worse than death.

Hindi Interpretation

लोग हमेशा अपनी बदनामी की बात करेंगे, और सम्मानित किया गया है जो एक के लिए, अनादर मौत से भी बदतर है।

Chapter 2 Verse 35

Chapter Name -Contents of the Gita Summarized

Sanskrit English
bhayad ranad uparatam
mamsyante tvam maha-rathah
yesam ca tvam bahu-mato
bhutva yasyasi laghavam

Simple Interpretation

The great generals who have highly esteemed your name and fame will think that you have left the battlefield out of fear only, and thus they will consider you a coward.

Hindi Interpretation

अत्यधिक अपना नाम और प्रसिद्धि सम्मानित किया है जो महान जनरलों आप केवल डर से बाहर युद्ध के मैदान छोड़ दिया है कि लगता है कि होगा, और इस तरह वे तुम्हें एक कायर पर विचार करेगी।

Chapter 2 Verse 36

Chapter Name -Contents of the Gita Summarized

Sanskrit English
avacya-vadams ca bahun
vadisyaniti tavahitah
nindantas tava samarthyam
tato dukkhataram nu kim

Simple Interpretation

Your enemies will describe you in many unkind words and scorn your ability. What could be more painful for you?

Hindi Interpretation

अपने दुश्मनों को कई निर्दयी शब्दों में आप का वर्णन है और अपनी क्षमता घृणा करेंगे। आप के लिए और अधिक दर्दनाक हो सकता है?

Chapter 2 Verse 37

Chapter Name -Contents of the Gita Summarized

Sanskrit English

hato va prapsyasi svargam
jitva va bhoksyase mahim
tasmad uttistha kaunteya
yuddhaya krta-niscayah

Simple Interpretation

O son of Kunti, either you will be killed on the battlefield and attain the heavenly planets, or you will conquer and enjoy the earthly kingdom. Therefore get up and fight with determination.

Hindi Interpretation

कुंती के हे पुत्र, या तो आप युद्ध के मैदान पर मारे गए और स्वर्गीय ग्रहों को पाने के लिए, या आप जीत के लिए और सांसारिक राज्य मजा आएगा किया जाएगा। इसलिए उठो और दृढ़ संकल्प के साथ लड़ने के लिए।

Chapter 2 Verse 38

Chapter Name -Contents of the Gita Summarized

Sanskrit English

sukha-duhkhe same krtva
labhalabhau jayajayau
tato yuddhaya yujyasva
naivam papam avapsyasi

Simple Interpretation

Do thou fight for the sake of fighting, without considering happiness or distress, loss or gain, victory or defeat-- and, by so doing, you shall never incur sin.

Hindi Interpretation

तू खुशी या संकट, हानि या लाभ, जीत या हार पर विचार किए बिना, लड़ाई की खातिर लड़ने करो - ऐसा करके, और, आप पाप अपने ऊपर लेना कभी नहीं करेगा।

Chapter 2 Verse 39

Chapter Name -Contents of the Gita Summarized

Sanskrit English

esa te 'bhihita sankhye
buddhir yoge tv imam srnu
buddhya yukto yaya partha
karma-bandham prahasyasi

Simple Interpretation

Thus far I have declared to you the analytical knowledge of sankhya philosophy. Now listen to the knowledge of yoga whereby one works without fruitive result. O son of Prtha, when you act by such intelligence, you can free yourself from the bondage of works.

Hindi Interpretation

इस प्रकार अब तक मैं तुम से सांख्य दर्शन के विश्लेषणात्मक ज्ञान की घोषणा की है। एक fruitive परिणाम के बिना काम करता है जिससे अब योग के ज्ञान के लिए सुनो। आप इस तरह की खुफिया द्वारा काम करते हैं जब Prtha के हे पुत्र, तुम काम करता है के बंधन से अपने आप को मुक्त कर सकते हैं

Chapter 2 Verse 40

Chapter Name -Contents of the Gita Summarized

Sanskrit English

nehabhikrama-naso 'sti
pratyavayo na vidyate
svalpam apy asya dharmasya
trayate mahato bhayat

Simple Interpretation

In this endeavor there is no loss or diminution, and a little advancement on this path can protect one from the most dangerous type of fear.

Hindi Interpretation

इस प्रयास में कोई नुकसान या कमी है, और डर के सबसे खतरनाक प्रकार से एक की रक्षा कर सकते हैं इस रास्ते पर एक छोटे से उन्नति होती है।

Chapter 2 Verse 41

Chapter Name -Contents of the Gita Summarized

Sanskrit English

vyavasayatmika buddhir
ekeha kuru-nandana
bahu-sakha hy anantas ca
buddhayo 'vyavasayinam

Simple Interpretation

Those who are on this path are resolute in purpose, and their aim is one. O beloved child of the Kurus, the intelligence of those who are irresolute is many-branched.

Hindi Interpretation

इस पथ पर कर रहे हैं जो लोग उद्देश्य में दृढ़ हैं, और उनके उद्देश्य एक है। कौरवों, irresolute हैं जो उन लोगों की बुद्धि के हे प्यारे बच्चे कई-branched है।

Chapter 2 Verse 42-43

Chapter Name -Contents of the Gita Summarized

Sanskrit English

yam imam puspitam vacam
pravadanty avipascitah
veda-vada-ratah partha
nanyad astiti vadinah

kamatmanah svarga-para
janma-karma-phala-pradam
kriya-visesa-bahulam
bhogaisvarya-gatim prati

Simple Interpretation

Men of small knowledge are very much attached to the flowery words of the Vedas, which recommend various fruitive activities for elevation to heavenly planets, resultant good birth, power, and so forth. Being desirous of sense gratification and opulent life, they say that there is nothing more than this.

Hindi Interpretation

छोटे ज्ञान के पुरुष बहुत ज्यादा स्वर्गीय ग्रहों के लिए पदोन्नति के लिए विभिन्न fruitive गतिविधियों की सलाह देते हैं, जो वेदों के फूलों शब्द, से जुड़े होते हैं, इसलिए आगे अच्छी जन्म, बिजली, और उसके एवज में। भावना संतुष्टि और भव्य जीवन के इच्छुक होने के नाते, वे इस से ज्यादा कुछ नहीं कहना है कि वहाँ

Chapter 2 Verse 44

Chapter Name -Contents of the Gita Summarized

Sanskrit English
bhogaisvarya-prasaktanam
tayapahrta-cetasam
vyavasayatmika buddhih
samadhau na vidhiyate

Simple Interpretation

In the minds of those who are too attached to sense enjoyment and material opulence, and who are bewildered by such things, the resolute determination of devotional service to the Supreme Lord does not take place.

Hindi Interpretation

ऐसी बातों से भी भोग और सामग्री संपन्नता भावना से जुड़े होते हैं, और जो घबराए हुए हैं जो उन लोगों के मन में, सुप्रीम भगवान को भक्ति सेवा करने का दृढ़ दृढ़ संकल्प जगह नहीं ले करता है।

Chapter 2 Verse 45

Chapter Name -Contents of the Gita Summarized

Sanskrit English
traigunya-visaya veda
nistraigunyo bhavarjuna
nirdvandvo nitya-sattva-stho
niryoga-ksema atmavan

Simple Interpretation

The Vedas mainly deal with the subject of the three modes of material nature. Rise above these modes, O Arjuna. Be transcendental to all of them. Be free from all dualities and from all anxieties for gain and safety, and be established in the Self.

Hindi Interpretation

वेदों में मुख्य रूप से सामग्री प्रकृति के तीन मोड के विषय के साथ सौदा। इन विधियों, हे अर्जुन से ऊपर उठना। उन सभी के लिए दिव्य रहें। सभी द्वंद्व से और लाभ और सुरक्षा के लिए सभी चिंताओं से मुक्त हो, और स्वयं में स्थापित किया।

Chapter 2 Verse 46

Chapter Name -Contents of the Gita Summarized

Sanskrit English

yavan artha udapane
sarvatah samplutodake
tavan sarvesu vedesu
brahmanasya vijanatah

Simple Interpretation

All purposes that are served by the small pond can at once be served by the great reservoirs of water. Similarly, all the purposes of the Vedas can be served to one who knows the purpose behind them.

Hindi Interpretation

छोटे तालाब से सेवा कर रहे हैं कि सभी प्रयोजनों में एक बार पानी के महान जलाशयों द्वारा कार्य किया जा सकता है। इसी तरह, वेदों के सभी प्रयोजनों के लिए उनके पीछे उद्देश्य कौन जानता है कि एक के लिए कार्य किया जा सकता है।

Chapter 2 Verse 47

Chapter Name -Contents of the Gita Summarized

Sanskrit English

karmany evadhikaras te
ma phalesu kadaana
ma karma-phala-hetur bhur
ma te sango 'stv akarmani

Simple Interpretation

You have a right to perform your prescribed duty, but you are not entitled to the fruits of action. Never consider yourself to be the cause of the results of your activities, and never be attached to not doing your duty.

Hindi Interpretation

आप अपने निर्धारित कर्तव्य का पालन करने का अधिकार है, लेकिन आप कार्यवाई के फल के हकदार नहीं हैं। कभी अपनी गतिविधियों के परिणामों का कारण हो अपने आप को विचार करना है, और अपने कर्तव्य से नहीं कर रही करने के लिए संलग्न किया जा कभी नहीं।

Chapter 2 Verse 48

Chapter Name -Contents of the Gita Summarized

Sanskrit English
yoga-sthah kuru karmani
sangam tyaktva dhananjaya
siddhy-asiddhyoh samo bhutva
samatvam yoga ucyate

Simple Interpretation
Be steadfast in yoga, O Arjuna. Perform your duty and abandon all attachment to success or failure. Such evenness of mind is called yoga.

Hindi Interpretation
योग, हे अर्जुन में दृढ़ हो। अपने कर्तव्य का पालन और सफलता या विफलता के लिए सभी लगाव छोड़ देना चाहिए। मन की ऐसी समता योग कहा जाता है।

Chapter 2 Verse 49

Chapter Name -Contents of the Gita Summarized

Sanskrit English
durena hy avaram karma
buddhi-yogad dhananjaya
buddhau saranam anviccha
krpanah phala-hetavah

Simple Interpretation
O Dhananjaya, rid yourself of all fruitive activities by devotional service, and surrender fully to that consciousness. Those who want to enjoy the fruits of their work are misers.

Hindi Interpretation
हे धनंजय, भक्ति सेवा से सभी fruitive गतिविधियों के लिए अपने आप को छुटकारा, और कहा कि चेतना के लिए पूरी तरह से समर्पण। उनके काम का फल प्राप्त करने के लिए जो लोग चाहते हैं कंजूस हैं।

Chapter 2 Verse 50

Chapter Name -Contents of the Gita Summarized

Sanskrit English
buddhi-yukto jahatiha
ubhe sukta-duskarte
tasmad yogaya yujyasva
yogah karmasu kausalam

Simple Interpretation
A man engaged in devotional service rids himself of both good and bad actions even in this life. Therefore strive for yoga, O Arjuna, which is the art of all work.

Hindi Interpretation

भक्ति सेवा में लगे एक आदमी भी इस जीवन में दोनों अच्छे और बुरे कार्यों के खुद रids। इसलिए, योग सभी के लिए काम करने की कला है जो हे अर्जुन, प्रयास करते हैं।

Chapter 2 Verse 51

Chapter Name -Contents of the Gita Summarized

Sanskrit English

karma-jam buddhi-yukta hi
phalam tyaktva manisinah
janma-bandha-vinirmuktah
padam gacchanty anamayam

Simple Interpretation

The wise, engaged in devotional service, take refuge in the Lord, and free themselves from the cycle of birth and death by renouncing the fruits of action in the material world. In this way they can attain that state beyond all miseries.

Hindi Interpretation

भक्ति सेवा में लगे हुए हैं, बुद्धिमान, प्रभु में शरण लेते हैं, और भौतिक दुनिया में कार्रवाई के फल का त्याग करके जन्म और मृत्यु के चक्र से स्वयं को मुक्त। इस तरह वे सब दुख से परे हैं कि राज्य प्राप्त कर सकते हैं।

Chapter 2 Verse 52

Chapter Name -Contents of the Gita Summarized

Sanskrit English

yada te moha-kalilam
buddhir vyatitarisyati
tada gantasi nirvedam
srotavyasya srutasya ca

Simple Interpretation

When your intelligence has passed out of the dense forest of delusion, you shall become indifferent to all that has been heard and all that is to be heard.

Hindi Interpretation

अपनी बुद्धि भ्रम के घने जंगल से बाहर पारित कर दिया गया है, जब आप सुना जा रहा है कि सुना गया है कि सभी और सभी के प्रति उदासीन हो जाएंगे।

Chapter 2 Verse 53

Chapter Name -Contents of the Gita Summarized

Sanskrit English

sruti-vipratipanna te
yada sthasyati niscala

samadhav acala buddhis
tada yogam avapsyasi

Simple Interpretation

When your mind is no longer disturbed by the flowery language of the Vedas, and when it remains fixed in the trance of self-realization, then you will have attained the divine consciousness.

Hindi Interpretation

अपने मन नहीं रह गया है वेदों की लच्छेदार भाषा से परेशान है, और यह आत्म-साक्षात्कार की मदहोशी में स्थिर बना रहे हैं, तो आप दिव्य चेतना प्राप्त किया है जाएगा।

Chapter 2 Verse 54

Chapter Name -Contents of the Gita Summarized

Sanskrit English
arjuna uvaca
sthita-prajnasya ka bhasa
samadhi-sthasya kesava
sthita-dhii kim prabhaseta
kim asita vrajeta kim

Simple Interpretation

Arjuna said: What are the symptoms of one whose consciousness is thus merged in Transcendence? How does he speak, and what is his language? How does he sit, and how does he walk?

Hindi Interpretation

अर्जुन ने कहा: जिसका चेतना इस प्रकार अतिक्रमण में विलय कर दिया है एक के लक्षण क्या हैं? वह कैसे बात करते हैं, और उनकी भाषा क्या है? वह कैसे बैठना होता है, और वह कैसे चलना है?

Chapter 2 Verse 55

Chapter Name -Contents of the Gita Summarized

Sanskrit English
sri-bhagavan uvaca
prajahati yada kaman
sarvan partha mano-gatan
atmany evatmana tustah
sthita-prajnas tadocyate

Simple Interpretation

The Blessed Lord said: O Partha, when a man gives up all varieties of sense desire which arise from mental concoction, and when his mind finds satisfaction in the self alone, then he is said to be in pure transcendental consciousness.

Hindi Interpretation

धन्य है प्रभु ने कहा: हे पार्थ, एक आदमी मानसिक मनगढ़ंत कहानी से उठता है, और उनके मन में अकेले स्वयं में संतोष

मिलता है, तो वह शुद्ध दिव्य चेतना में होना कहा जाता है, जो भावना की इच्छा के सभी किस्मों को देता है।

Chapter 2 Verse 56

Chapter Name -Contents of the Gita Summarized

Sanskrit English

dukhkhesv anudvigna-manah
sukhesu vigata-sprhah
vita-raga-bhaya-krodhah
sthita-dhir munir ucyate

Simple Interpretation

One who is not disturbed in spite of the threefold miseries, who is not elated when there is happiness, and who is free from attachment, fear and anger, is called a sage of steady mind.

Hindi Interpretation

वहाँ खुशी है, और जो लगाव, भय और क्रोध से मुक्त है जब उत्तेजित नहीं है, जो तीन गुना दुख, के बावजूद परेशान नहीं है जो एक, स्थिर मन की एक ऋषि कहा जाता है।

Chapter 2 Verse 57

Chapter Name -Contents of the Gita Summarized

Sanskrit English

yah sarvatranabhisnehas
tat tat prapya subhasubham
nabhinandati na dvesti
tasya prajna pratisthita

Simple Interpretation

He who is without attachment, who does not rejoice when he obtains good, nor lament when he obtains evil, is firmly fixed in perfect knowledge.

Hindi Interpretation

वह अच्छा प्राप्त जब वह लगाव के बिना कौन है, कौन नहीं आनन्दित करता है, और न ही वह बुराई प्राप्त जब विलाप, मजबूती से परिपूर्ण ज्ञान में तय हो गई है।

Chapter 2 Verse 58

Chapter Name -Contents of the Gita Summarized

Sanskrit English

yada samharate cayam
kurmo 'nganiva sarvasah
indriyanindriyarthebhyas
tasya prajna pratisthita

Simple Interpretation

One who is able to withdraw his senses from sense objects, as the tortoise draws its limbs within the shell, is to be understood as truly situated in knowledge.

Hindi Interpretation

कछुआ खोल के भीतर अपने अंगों को ड्रॉ के रूप में, भावना वस्तुओं से अपने होश वापस लेने में सक्षम है जो एक, वास्तव में ज्ञान में स्थित के रूप में समझा जा सकता है।

Chapter 2 Verse 59

Chapter Name -Contents of the Gita Summarized

Sanskrit English

visaya vinivartante
niraharasya dehinah
rasa-varjam raso 'py asya
param drstva nivartate

Simple Interpretation

The embodied soul may be restricted from sense enjoyment, though the taste for sense objects remains. But, ceasing such engagements by experiencing a higher taste, he is fixed in consciousness.

Hindi Interpretation

भावना वस्तुओं के लिए स्वाद बनी हुई है हालांकि सन्नहित आत्मा, भावना आनंद से प्रतिबंधित किया जा सकता है। लेकिन, एक उच्च स्वाद का अनुभव द्वारा इस तरह के कार्य बंद करके, वह चेतना में तय हो गई है।

Chapter 2 Verse 60

Chapter Name -Contents of the Gita Summarized

Sanskrit English

yatato hy api kaunteya
purusasya vipascitah
indriyani pramathini
haranti prasabham manah

Simple Interpretation

The senses are so strong and impetuous, O Arjuna, that they forcibly carry away the mind even of a man of discrimination who is endeavoring to control them.

Hindi Interpretation

होश वे जबरन भी उन्हें नियंत्रित करने के लिए प्रयास कर रहा है जो भेदभाव के एक आदमी के मन से दूर ले जाने के लिए, कि हे अर्जुन, इतना मजबूत और साहसी हैं।

Chapter 2 Verse 61

Chapter Name -Contents of the Gita Summarized

Sanskrit English
tani sarvani samyamya
yukta asita mat-parah
vase hi yasyendriyani
tasya prajna pratisthita

Simple Interpretation

One who restrains his senses and fixes his consciousness upon Me, is known as a man of steady intelligence.

Hindi Interpretation

उसके होश restrains और मुझ पर अपनी चेतना को हल करता है जो एक, स्थिर बुद्धि के एक आदमी के रूप में जाना जाता है।

Chapter 2 Verse 62

Chapter Name -Contents of the Gita Summarized

Sanskrit English
dhyayato visayan pumsah
sangas tesupajayate
sangat sanjayate kamah
kamat krodho 'bhijayate

Simple Interpretation

While contemplating the objects of the senses, a person develops attachment for them, and from such attachment lust develops, and from lust anger arises.

Hindi Interpretation

इंद्रियों की वस्तुओं पर विचार करते हैं, एक व्यक्ति उनके लिए लगाव विकसित करता है, और इस तरह के लगाव वासना को विकसित करता है, और वासना क्रोध उठता से।

Chapter 2 Verse 63

Chapter Name -Contents of the Gita Summarized

Sanskrit English
krodhad bhavati sammohah
sammohat smrti-vibhramah
smrti-bhramsad buddhi-naso
buddhi-nasat pranasayati

Simple Interpretation

From anger, delusion arises, and from delusion bewilderment of memory. When memory is bewildered, intelligence is lost, and when intelligence is lost, one falls down again into the material pool.

Hindi Interpretation

क्रोध से, भ्रम पैदा होती है, और स्मृति के भ्रम घबराहट से। स्मृति व्यग्र है, जब खुफिया खो दिया है, और खुफिया खो जाती है, जब एक सामग्री पूल में फिर से नीचे गिर जाता है।

Chapter 2 Verse 64

Chapter Name -Contents of the Gita Summarized

Sanskrit English
raga-dvesa-vimuktas tu
visayan indriyais caran
atma-vasyair vidheyatma
prasadam adhigacchati

Simple Interpretation

One who can control his senses by practicing the regulated principles of freedom can obtain the complete mercy of the Lord and thus become free from all attachment and aversion.

Hindi Interpretation

प्रभु की पूरी दया प्राप्त है और इस प्रकार सभी लगाव और घृणा से मुक्त हो सकते हैं आजादी के विनियमित सिद्धांतों अभ्यास द्वारा अपने होश नियंत्रित कर सकते हैं, जो एक।

Chapter 2 Verse 65

Chapter Name -Contents of the Gita Summarized

Sanskrit English
prasade sarva-duhkhanam
hanir asyopajayate
prasanna-cetaso hy asu
buddhih paryavatisthate

Simple Interpretation

For one who is so situated in the Divine consciousness, the threefold miseries of material existence exist no longer; in such a happy state, one's intelligence soon becomes steady.

Hindi Interpretation

"तो दिव्य चेतना में स्थित है, जो एक के लिए, भौतिक अस्तित्व के तिगुना दुख अब मौजूद नहीं हैं, इस तरह के एक खुश राज्य में, एक की खुफिया जल्द ही स्थिर हो जाता है।

Chapter 2 Verse 66

Chapter Name -Contents of the Gita Summarized

Sanskrit English
nasti buddhir ayuktasya
na cayuktasya bhavana
na cabhavayatah santir
asantasya kutah sukham

Simple Interpretation

One who is not in transcendental consciousness can have neither a controlled mind nor steady intelligence, without which there is no possibility of peace. And how can there be any happiness without peace?

Hindi Interpretation

दिव्य चेतना में नहीं है जो एक, जिसके बिना शांति की कोई संभावना नहीं है, एक नियंत्रित मन और न ही स्थिर खुफिया न तो हो सकता है। और कैसे शांति के बिना कोई खुशी नहीं हो सकता है?

Chapter 2 Verse 67

Chapter Name -Contents of the Gita Summarized

Sanskrit English

indriyanam hi caratam
yan mano 'nuvidhiyate
tad asya harati prajnam
vayur navam ivambhasi

Simple Interpretation

As a boat on the water is swept away by a strong wind, even one of the senses on which the mind focuses can carry away a man's intelligence.

Hindi Interpretation

पानी पर एक नाव एक तेज हवा से बह रहा है, इंद्रियों की भी एक है जिस पर मन एक आदमी की बुद्धि दूर ले जा सकता है केंद्रित है।

Chapter 2 Verse 68

Chapter Name -Contents of the Gita Summarized

Sanskrit English

tasmad yasya maha-baho
nigrhitani sarvasah
indriyanindriyarthebhyas
tasya prajna pratisthita

Simple Interpretation

Therefore, O mighty-armed, one whose senses are restrained from their objects is certainly of steady intelligence.

Hindi Interpretation

इसलिए, हे शक्तिशाली हथियारों से लैस, जिसका होश उनकी वस्तुओं से रोका रहे हैं निश्चित रूप से स्थिर बुद्धि का है एक।

Chapter 2 Verse 69

Chapter Name -Contents of the Gita Summarized

Sanskrit English
ya nisa sarva-bhutanam
tasyam jagarti samyami
yasyam jagrati bhutani
sa nisa pasyato muneh

Simple Interpretation

What is night for all beings is the time of awakening for the self-controlled; and the time of awakening for all beings is night for the introspective sage.

Hindi Interpretation

क्या सभी प्राणियों के लिए रात के लिए जागृति का समय आ गया है आत्म-नियंत्रित; और सभी प्राणियों के लिए जागृति के समय आत्मविश्लेषी ऋषि के लिए रात है।

Chapter 2 Verse 70

Chapter Name -Contents of the Gita Summarized

Sanskrit English
apuryamanam acala-pratistham
samudram apah pravisanti yadvat
tadvat kama yam pravisanti sarve
sa santim apnoti na kama-kami

Simple Interpretation

A person who is not disturbed by the incessant flow of desires--that enter like rivers into the ocean which is ever being filled but is always still--can alone achieve peace, and not the man who strives to satisfy such desires.

Hindi Interpretation

कभी भरा जा रहा है, लेकिन अभी भी हमेशा से रहा है, जो समुद्र में नदियों की तरह दर्ज है कि -- एक इच्छाओं की लगातार प्रवाह से परेशान नहीं है जो व्यक्ति अकेले शांति प्राप्त कर सकते हैं, और न ऐसी इच्छाओं को पूरा करने का प्रयास है जो आदमी।

Chapter 2 Verse 71

Chapter Name -Contents of the Gita Summarized

Sanskrit English
vihaya kaman yah sarvan
pumams carati nihsprihah
nirmamo nirahankarah
sa santim adhigacchati

Simple Interpretation

A person who has given up all desires for sense gratification, who lives free from desires, who has given up all sense of proprietorship and is devoid of false ego--he alone can attain real peace.

Hindi Interpretation

स्वामित्व का सब समझ में छोड़ दिया और झूठे अहंकार से रहित है, जो इच्छाओं से मुक्त रहता है, जो भावना संतुष्टि, के लिए सभी इच्छाओं को छोड़ दिया गया है, जो एक व्यक्ति - वह अकेले वास्तविक शांति प्राप्त कर सकते हैं।

Chapter 2 Verse 72

Chapter Name -Karma-yoga

Sanskrit English

esa brahmi sthithi partha
nainam prapya vimuhyati
sthitvashyam anta-kale 'pi
brahma-nirvanam rcchati

Simple Interpretation

That is the way of the spiritual and godly life, after attaining which a man is not bewildered. Being so situated, even at the hour of death, one can enter into the kingdom of God.

Hindi Interpretation

एक आदमी है कि घबराए नहीं है जो प्राप्त करने के बाद, आध्यात्मिक और धर्मी जीवन की तरह है। तो भी मौत के समय में, स्थित होने के नाते, एक परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं।

Chapter 3 Verse 1

Chapter Name -Karma-yoga

Sanskrit English

arjuna uvaca
jyayasi cet karmanas te
mata buddhir janardana
tat kim karmani ghore mam
niyojayasi kesava

Simple Interpretation

Arjuna said: O Janardana, O Kesava, why do You urge me to engage in this ghastly warfare, if You think that intelligence is better than fruitive work?

Hindi Interpretation

अर्जुन ने कहा: हे जनार्दन, हे Kesava, तुम क्यों खुफिया fruitive काम करने से बेहतर है कि अगर आपको लगता है, इस भयंकर युद्ध में संलग्न करने के लिए मुझसे आग्रह करता हूँ करते हैं?

Chapter 3 Verse 2

Chapter Name -Karma-yoga

Sanskrit English

vyamisrenea vakyena
buddhim mohayasiva me

tad ekam vada niscitya
yena sreya 'ham apnuyam

Simple Interpretation

My intelligence is bewildered by Your equivocal instructions. Therefore, please tell me decisively what is most beneficial for me.

Hindi Interpretation

मेरा खुफिया आपका गोलमोल निर्देश से घबराए हुए है। इसलिए, मेरे लिए सबसे अधिक लाभकारी है निर्णायक मुझे बताओ कि क्या करें।

Chapter 3 Verse 3

Chapter Name -Karma-yoga

Sanskrit English
sri-bhagavan uvaca
loke 'smin dvi-vidha nistha
pura prokta mayanagha
jnana-yogena sankhyanam
karma-yogena yoginam

Simple Interpretation

The Blessed Lord said: O sinless Arjuna, I have already explained that there are two classes of men who realize the Self. Some are inclined to understand Him by empirical, philosophical speculation, and others are inclined to know Him by devotional work.

Hindi Interpretation

धन्य है प्रभु ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले से ही आत्म एहसास है जो पुरुषों के दो वर्गों रहे हैं कि समझा दिया है। कुछ अनुभवजन्य, दार्शनिक अटकलें द्वारा उसे समझने के लिए इच्छुक हैं, और दूसरों को भक्ति का काम करके उसे पता करने के लिए इच्छुक हैं।

Chapter 3 Verse 4

Chapter Name -Karma-yoga

Sanskrit English
na karmanam anarambhan
naiskarmyam puruso 'snute
na ca sannyasanad eva
siddhim samadhigacchati

Simple Interpretation

Not by merely abstaining from work can one achieve freedom from reaction, nor by renunciation alone can one attain perfection.

Hindi Interpretation

न केवल एक प्रतिक्रिया से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं काम से परहेज द्वारा, और न ही त्याग से अकेले एक पूर्णता प्राप्त कर

सकते हैं।

Chapter 3 Verse 5
Chapter Name -Karma-yoga

Sanskrit English
na hi kascit ksanam api
jatu tisthaty akarma-krt
karyate hy avasah karma
sarvah prakrti-jair gunaih

Simple Interpretation
All men are forced to act helplessly according to the impulses born of the modes of material nature; therefore no one can refrain from doing something, not even for a moment.

Hindi Interpretation
सभी पुरुषों सामग्री प्रकृति के साधनों का जन्म आवेगों के अनुसार असहाय होकर कार्य करने के लिए मजबूर कर रहे हैं; इसलिए कोई एक भी नहीं एक पल के लिए, कुछ करने से बचना कर सकते हैं।

Chapter 3 Verse 6
Chapter Name -Karma-yoga

Sanskrit English
karmendriyani samyamya
ya aste manasa smaran
indriyarthan vimudhatma
mithyacara sa ucyate

Simple Interpretation
One who restrains the senses and organs of action, but whose mind dwells on sense objects, certainly deludes himself and is called a pretender.

Hindi Interpretation
निश्चित रूप से, जिसका मन भावना वस्तुओं पर बसता होश और कार्यवाई के अंगों, लेकिन restrains खुद deludes और एक ढोंगी कहा जाता है, जो एक।

Chapter 3 Verse 7
Chapter Name -Karma-yoga

Sanskrit English
yas tv indriyani manasa
niyamyarabhate 'rjuna
karmendriyaih karma-yogam
asaktah sa visisyate

Simple Interpretation

On the other hand, he who controls the senses by the mind and engages his active organs in works of devotion, without attachment, is by far superior.

Hindi Interpretation

दूसरी ओर, वह मन से इंद्रियों को नियंत्रित करता है, जो और लगाव के बिना, भक्ति के कार्यों में अपनी सक्रिय अंगों संलग्न है, कहीं बेहतर कर रहा है।

Chapter 3 Verse 8

Chapter Name -Karma-yoga

Sanskrit English

niyatam kuru karma tvam
karma jyayo hy akarmanah
sarira-yatrapa ca te
na prasiddhyed akarmanah

Simple Interpretation

Perform your prescribed duty, for action is better than inaction. A man cannot even maintain his physical body without work.

Hindi Interpretation

कार्रवाई में निष्क्रियता की तुलना में बेहतर है, के लिए अपने निर्धारित कर्तव्य का पालन। एक आदमी भी काम के बिना अपने भौतिक शरीर नहीं बनाए रख सकते हैं।

Chapter 3 Verse 9

Chapter Name -Karma-yoga

Sanskrit English

yajnarthat karmano 'nyatra
loko 'yam karma-bandhanah
tad-artham karma kaunteya
mukta-sangah samacara

Simple Interpretation

Work done as a sacrifice for Visnu has to be performed, otherwise work binds one to this material world. Therefore, O son of Kunti, perform your prescribed duties for His satisfaction, and in that way you will always remain unattached and free from bondage.

Hindi Interpretation

Visnu के लिए एक बलिदान के रूप में किया काम नहीं तो काम इस सामग्री दुनिया के लिए एक बांधता है, प्रदर्शन किया जाना है। इसलिए, कुंती के हे पुत्र, उनकी संतुष्टि के लिए अपने निर्धारित कर्तव्यों का पालन, और कहा कि जिस तरह से आप हमेशा बंधन से स्वाधीन और मुक्त रहेगा।

Chapter 3 Verse 10
Chapter Name -Karma-yoga

Sanskrit English
saha-yajnah prajah srstva
purovaca prajapatih
anena prasavisyadhvam
esa vo 'stv ista-kama-dhuk

Simple Interpretation

In the beginning of creation, the Lord of all creatures sent forth generations of men and demigods, along with sacrifices for Visnu, and blessed them by saying, "Be thou happy by this yajna [sacrifice] because its performance will bestow upon you all desirable things."

Hindi Interpretation

सृष्टि के आरम्भ में, सभी प्राणियों के भगवान Visnu के लिए बलिदान के साथ साथ, पुरुषों और demigods की पीढ़ियों के आगे भेजा है, और इसके प्रदर्शन को आप सभी वांछनीय पर प्रदान करेगा क्योंकि इस [बलिदान] यज्ञ से तू खुश रहो, "कह कर उन्हें आशीर्वाद बाते। "

Chapter 3 Verse 11
Chapter Name -Karma-yoga

Sanskrit English
devan bhavayatanena
te deva bhavayantu vah
parasparam bhavayantah
sreyah param avapsyatha

Simple Interpretation

The demigods, being pleased by sacrifices, will also please you; thus nourishing one another, there will reign general prosperity for all.

Hindi Interpretation

Demigods, बलिदानों से प्रसन्न किया जा रहा है, यह भी आप कृपया जाएगा; इस प्रकार पौष्टिक एक दूसरे, सभी के लिए सामान्य समृद्धि वहाँ राज करेगी।

Chapter 3 Verse 12
Chapter Name -Karma-yoga

Sanskrit English
istan bhogan hi vo deva
dasyante yajna-bhavitah
tair dattan apradayaibhyo
yo bhunkte stena eva sah

Simple Interpretation

In charge of the various necessities of life, the demigods, being satisfied by the performance of yajna [sacrifice],

supply all necessities to man. But he who enjoys these gifts, without offering them to the demigods in return, is certainly a thief.

Hindi Interpretation

जीवन के विभिन्न आवश्यकताओं के आरोप में, demigods, यज्ञ [बलिदान] के प्रदर्शन से संतुष्ट किया जा रहा है आदमी के लिए सभी आवश्यकताओं की आपूर्ति। लेकिन बदले में demigods के लिए उन्हें पेशकश के बिना, इन उपहारों जो आनंद मिलता है, वह निश्चित रूप से एक चोर है।

Chapter 3 Verse 13

Chapter Name -Karma-yoga

Sanskrit English

yajna-sistasinah santo
mucyante sarva-kilbisaih
bhunjate te tv agham papa
ye pacanty atma-karanat

Simple Interpretation

The devotees of the Lord are released from all kinds of sins because they eat food which is offered first for sacrifice. Others, who prepare food for personal sense enjoyment, verily eat only sin.

Hindi Interpretation

वे बलिदान के लिए पहले की पेशकश की है जो खाना खाते हैं, क्योंकि प्रभु के भक्तों के पापों के सभी प्रकार से जारी कर रहे हैं। वास्तव में, व्यक्तिगत भावना आनंद के लिए भोजन तैयार करते हैं दूसरों को, जो केवल पाप खाते हैं।

Chapter 3 Verse 14

Chapter Name -Karma-yoga

Sanskrit English

annad bhavanti bhutani
parjanyaad anna-sambhavah
yajnad bhavati parjanyo
yajnah karma-samudbhavah

Simple Interpretation

All living bodies subsist on food grains, which are produced from rains. Rains are produced by performance of yajna [sacrifice], and yajna is born of prescribed duties.

Hindi Interpretation

सभी जीवित निकायों बारिश से उत्पादन कर रहे हैं, जो खाद्यान्न, पर निर्वाह। बारिश यज्ञ [बलिदान] के प्रदर्शन द्वारा उत्पादित कर रहे हैं, और यज्ञ निर्धारित कर्तव्यों का जन्म होता है।

Chapter 3 Verse 15

Chapter Name -Karma-yoga

Sanskrit English
karma brahmodbhavam viddhi
brahmaksara-samudbhavam
tasmat sarva-gatam brahma
nityam yajne pratisthitam

Simple Interpretation

Regulated activities are prescribed in the Vedas, and the Vedas are directly manifested from the Supreme Personality of Godhead. Consequently the all-pervading Transcendence is eternally situated in acts of sacrifice.

Hindi Interpretation

नियमित गतिविधियों वेदों में निर्धारित कर रहे हैं, और वेद सीधे देवत्व की सुप्रीम व्यक्तित्व से प्रकट होते हैं। नतीजतन सभी सर्वव्यापी अतिक्रमण सदा बलिदान के कृत्यों में स्थित है।

Chapter 3 Verse 16
Chapter Name -Karma-yoga

Sanskrit English
evam pravartitam cakram
nanuvartayatiha yah
aghayur indriyaramo
mogham partha sa jivati

Simple Interpretation

My dear Arjuna, a man who does not follow this prescribed Vedic system of sacrifice certainly leads a life of sin, for a person delighting only in the senses lives in vain.

Hindi Interpretation

मेरे प्यारे अर्जुन, बलिदान के इस निर्धारित वैदिक व्यवस्था का पालन नहीं करता है एक आदमी है जो निश्चित रूप से होश में ही खुश कर एक व्यक्ति को व्यर्थ में जीवन के लिए, पाप का जीवन जाता है।

Chapter 3 Verse 17
Chapter Name -Karma-yoga

Sanskrit English
yas tv atma-ratir eva syad
atma-trptas ca manavah
atmany eva ca santustas
tasya karyam na vidyate

Simple Interpretation

One who is, however, taking pleasure in the self, who is illuminated in the self, who rejoices in and is satisfied with the self only, fully satiated--for him there is no duty.

Hindi Interpretation

एक है जो, हालांकि, में प्रसन्न होता है और स्वयं ही, पूरी तरह से तृप्त से संतुष्ट है, जो स्वयं में प्रबुद्ध है जो स्वयं में खुशी ले

रही है - उसके लिए कोई शुल्क नहीं है।

Chapter 3 Verse 18
Chapter Name -Karma-yoga

Sanskrit English
naiva tasya krtenartho
nakrteneha kascana
na casya sarva-bhutesu
kascid artha-vyapasrayah

Simple Interpretation

A self-realized man has no purpose to fulfill in the discharge of his prescribed duties, nor has he any reason not to perform such work. Nor has he any need to depend on any other living being.

Hindi Interpretation

एक स्वयं एहसास हुआ कि आदमी अपने निर्धारित कर्तव्यों के निर्वहन में पूरा करने के लिए कोई उद्देश्य होता है, और न ही वह इस तरह के काम को करने के लिए कोई कारण नहीं है। न ही वह किसी भी अन्य जीवित किया जा रहा है पर निर्भर करने के लिए किसी की जरूरत है।

Chapter 3 Verse 19
Chapter Name -Karma-yoga

Sanskrit English
tasmad asaktah satatam
karyam karma samacara
asakto hy acaran karma
param apnoti purusah

Simple Interpretation

Therefore, without being attached to the fruits of activities, one should act as a matter of duty; for by working without attachment, one attains the Supreme.

Hindi Interpretation

गतिविधियों के फल से जुड़ी होने के बिना, इसलिए, एक कर्तव्य की बात के रूप में कार्य करना चाहिए; लगाव के बिना काम करके के लिए, एक सुप्रीम उपलब्ध हो जाता है।

Chapter 3 Verse 20
Chapter Name -Karma-yoga

Sanskrit English
karmanaiva hi samsiddhim
asthita janakadayah
loka-sangraham evapi

sampasyan kartum arhasi

Simple Interpretation

Even kings like Janaka and others attained the perfectional stage by performance of prescribed duties. Therefore, just for the sake of educating the people in general, you should perform your work.

Hindi Interpretation

जनक और दूसरों की तरह भी राजाओं निर्धारित कर्तव्यों के प्रदर्शन से perfectional चरण प्राप्त किया। इसलिए, सिर्फ सामान्य रूप में लोगों को शिक्षित करने के लिए, आप अपने काम के प्रदर्शन करना चाहिए।

Chapter 3 Verse 21

Chapter Name -Karma-yoga

Sanskrit English

yad yad acarati sresthas
tat tad evetaro janah
sa yat pramanam kurute
lokas tad anuvartate

Simple Interpretation

Whatever action is performed by a great man, common men follow in his footsteps. And whatever standards he sets by exemplary acts, all the world pursues.

Hindi Interpretation

एक महान व्यक्ति द्वारा किया जाता है जो कुछ भी कार्यवाही की है, आम आदमी उनके नक्शेकदम पर चलना। वह अनुकरणीय कृत्यों से सेट जो कुछ मानकों और, सारी दुनिया के कर्मों।

Chapter 3 Verse 22

Chapter Name -Karma-yoga

Sanskrit English

na me parthasti kartavyam
trisu lokesu kincana
nanavaptam avaptavyam
varta eva ca karmani

Simple Interpretation

O son of Prtha, there is no work prescribed for Me within all the three planetary systems. Nor am I in want of anything, nor have I need to obtain anything--and yet I am engaged in work.

Hindi Interpretation

Prtha के हे पुत्र, सभी तीन ग्रह प्रणालियों के भीतर मुझे के लिए निर्धारित कोई काम नहीं है। और न ही कुछ के अभाव में मैं कर रहा हूँ, न ही मैं कुछ भी प्राप्त करने की आवश्यकता है - और अभी तक मैं काम में लगी हूँ।

Chapter 3 Verse 23
Chapter Name -Karma-yoga

Sanskrit English
yadi hy aham na varteyam
jatu karmany atandritah
mama vartmanuvartante
manusyah partha sarvasah

Simple Interpretation
For, if I did not engage in work, O Partha, certainly all men would follow My path.

Hindi Interpretation
मैं काम में संलग्न नहीं किया है, के लिए, हे पार्थ, निश्चित रूप से सभी पुरुषों मेरा मार्ग का अनुसरण करेंगे।

Chapter 3 Verse 24
Chapter Name -Karma-yoga

Sanskrit English
utsideyur ime loka
na kuryam karma ced aham
sankarasya ca karta syam
upahanyam imah prajah

Simple Interpretation
If I should cease to work, then all these worlds would be put to ruination. I would also be the cause of creating unwanted population, and I would thereby destroy the peace of all sentient beings.

Hindi Interpretation
मैं काम करने के लिए संघर्ष करना चाहिए, तो फिर इन सब संसार बर्बादी के लिए रखा जाएगा। मैं भी अवांछित आबादी बनाने का कारण होगा, और मैं इस तरह सभी संवेदनशील प्राणी की शांति को नष्ट करेगा।

Chapter 3 Verse 25
Chapter Name -Karma-yoga

Sanskrit English
saktah karmany avidvamso
yatha kurvanti bhārata
kuryad vidvams tathasaktas
cikirsur loka-sangraham

Simple Interpretation
As the ignorant perform their duties with attachment to results, similarly the learned may also act, but without attachment, for the sake of leading people on the right path.

Hindi Interpretation
अज्ञानी परिणाम के लिए लगाव के साथ अपने कर्तव्यों का पालन के रूप में, इसी प्रकार सीखा भी सही रास्ते पर प्रमुख लोगों

की खातिर, कार्य है, लेकिन लगाव के बिना हो सकता है।

Chapter 3 Verse 26
Chapter Name -Karma-yoga

Sanskrit English
na buddhi-bhedam janayed
ajnanam karma-sanginam
josayet sarva-karmani
vidvan yuktah samacaran

Simple Interpretation

Let not the wise disrupt the minds of the ignorant who are attached to fruitive action, they should not be encouraged to refrain from work, but to engage in work in the spirit of devotion.

Hindi Interpretation

बुद्धिमान fruitive कार्रवाई से जुड़े होते हैं, जो अज्ञानी के मन को बाधित नहीं करना चाहिए, वे काम करने से बचना है, लेकिन भक्ति की भावना में काम में संलग्न करने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए।

Chapter 3 Verse 27
Chapter Name -Karma-yoga

Sanskrit English
prakrteh kriyamanani
gunaih karmani sarvasah
ahankara-vimudhatma
kartaham iti manyate

Simple Interpretation

The bewildered spirit soul, under the influence of the three modes of material nature, thinks himself to be the doer of activities, which are in actuality carried out by nature.

Hindi Interpretation

हैरत की भावना आत्मा, सामग्री प्रकृति के तीन मोड के प्रभाव के तहत, स्वभाव से बाहर किया वास्तविकता में जो कर रहे हैं गतिविधियों के कर्ता होने के लिए खुद को सोचता है।

Chapter 3 Verse 28
Chapter Name -Karma-yoga

Sanskrit English
tattva-vit tu maha-baho
guna-karma-vibhagayoh
guna gunesu vartanta
iti matva na sajjate

Simple Interpretation

One who is in knowledge of the Absolute Truth, O mighty-armed, does not engage himself in the senses and sense gratification, knowing well the differences between work in devotion and work for fruitive results.

Hindi Interpretation

निरपेक्ष सत्य के ज्ञान में है जो एक, हे शक्तिशाली हथियारों से लैस है, अच्छी तरह fruitive परिणाम के लिए भक्ति और काम में काम के बीच मतभेदों को जानने, होश में खुद को संलग्न हैं और संतुष्टि की भावना नहीं है।

Chapter 3 Verse 29

Chapter Name -Karma-yoga

Sanskrit English

prakrter guna-sammudhah
sajjante guna-karmasu
tan akrtsna-vido mandan
krtsna-vin na vicalayet

Simple Interpretation

Bewildered by the modes of material nature, the ignorant fully engage themselves in material activities and become attached. But the wise should not unsettle them, although these duties are inferior due to the performers' lack of knowledge.

Hindi Interpretation

सामग्री प्रकृति के तरीके से घबराए, अज्ञानी पूरी तरह से सामग्री की गतिविधियों में खुद को संलग्न हैं और संलग्न हो जाते हैं। इन कर्तव्यों नीचा कर रहे हैं लेकिन हालांकि बुद्धिमान होने के कारण ज्ञान के कलाकारों 'कमी के कारण, उन्हें अस्थिर नहीं करना चाहिए।

Chapter 3 Verse 30

Chapter Name -Karma-yoga

Sanskrit English

mayi sarvani karmani
sannyasyadhyatma-cetasa
nirasir nirmamo bhutva
yudhyasva vigata-jvarah

Simple Interpretation

Therefore, O Arjuna, surrendering all your works unto Me, with mind intent on Me, and without desire for gain and free from egoism and lethargy, fight.

Hindi Interpretation

इसलिए, हे अर्जुन, मुझ पर मन के इरादे से मुझे पर्यंत अपने सभी काम करता है, समर्पण, और अहंकार और सुस्ती से लाभ और मुक्त करने के लिए इच्छा के बिना, लड़ते हैं।

Chapter 3 Verse 31
Chapter Name -Karma-yoga

Sanskrit English
ye me matam idam nityam
anutisthanti manavah
sraddhavanto 'nasuyanto
mucyante te 'pi karmabhih

Simple Interpretation
One who executes his duties according to My injunctions and who follows this teaching faithfully, without envy, becomes free from the bondage of fruitive actions.

Hindi Interpretation
ईर्ष्या के बिना, मेरा रोक और जो ईमानदारी से इस शिक्षण निम्नानुसार के अनुसार अपने कर्तव्यों का निष्पादन करता है जो एक, fruitive कार्यों के बंधन से मुक्त हो जाता है।

Chapter 3 Verse 32
Chapter Name -Karma-yoga

Sanskrit English
ye tv etad abhyasuyanto
nanutisthanti me matam
sarva-jnana-vimudhams tan
viddhi nastan acetasah

Simple Interpretation
But those who, out of envy, disregard these teachings and do not practice them regularly, are to be considered bereft of all knowledge, befooled, and doomed to ignorance and bondage.

Hindi Interpretation
लेकिन ईर्ष्या से बाहर है, इन शिक्षाओं उपेक्षा और, उन्हें नियमित रूप से अभ्यास नहीं है, जो उन लोगों के, सभी ज्ञान से महरूम माना befooled, और अज्ञानता और बंधन के लिए बर्बाद हो रहे हैं।

Chapter 3 Verse 33
Chapter Name -Karma-yoga

Sanskrit English
sadsam cestate svasyah
prakrter jnanavan api
prakrtim yanti bhutani
nigraha kim karisyati

Simple Interpretation
Even a man of knowledge acts according to his own nature, for everyone follows his nature. What can repression accomplish?

Hindi Interpretation

हर कोई अपने स्वभाव में निम्नानुसार के लिए यहां तक कि ज्ञान का एक आदमी, अपने ही प्रकृति के अनुसार कार्य करता है।
दमन क्या हासिल कर सकते हैं?

Chapter 3 Verse 34

Chapter Name -Karma-yoga

Sanskrit English

indriyasyendriyasyarthe
raga-dvesau vyavasthitau
taylor na vasam agacchet
tau hy asya paripanthinau

Simple Interpretation

Attraction and repulsion for sense objects are felt by embodied beings, but one should not fall under the control of senses and sense objects because they are stumbling blocks on the path of self-realization.

Hindi Interpretation

भावना वस्तुओं के लिए आकर्षण और प्रतिकर्षण सन्निहित प्राणियों से महसूस कर रहे हैं, लेकिन एक इंद्रियों के नियंत्रण के तहत आते हैं और वे आत्म-साक्षात्कार के मार्ग पर ब्लॉक ठोकें खाते हुए चल रहे हैं क्योंकि वस्तुओं के भाव नहीं होना चाहिए।

Chapter 3 Verse 35

Chapter Name -Karma-yoga

Sanskrit English

sreyan sva-dharmo vigunah
para-dharmat svanusthitat
sva-dharme nidhanam sreyah
para-dharmo bhayavahah

Simple Interpretation

It is far better to discharge one's prescribed duties, even though they may be faulty, than another's duties. Destruction in the course of performing one's own duty is better than engaging in another's duties, for to follow another's path is dangerous.

Hindi Interpretation

यह वे दोषपूर्ण हो सकता है, भले ही एक और कर्तव्यों से, एक की निर्धारित कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए कहीं बेहतर है। एक के अपने कर्तव्य के प्रदर्शन के पाठ्यक्रम में विनाश दूसरे के पथ खतरनाक है का पालन करने के लिए, एक और कर्तव्यों में उलझाने की तुलना में बेहतर है।

Chapter 3 Verse 36

Chapter Name -Karma-yoga

Sanskrit English

arjuna uvaca
atha kena prayukto 'yam
papam carati purusah
anicchann api varsneya
balad iva niyojitah

Simple Interpretation

Arjuna said: O descendant of Vrsni, by what is one impelled to sinful acts, even unwillingly, as if engaged by force?

Hindi Interpretation

अर्जुन ने कहाः, बल द्वारा लगे हुए हैं, जैसे भी ना चाहते हुए भी, पापी कृत्यों के लिए impelled एक है क्या द्वारा Vrsni है वंशज?

Chapter 3 Verse 37

Chapter Name -Karma-yoga

Sanskrit English
sri-bhagavan uvaca
kama esa krodha esa
rajo-guna-samudbhavah
mahasano maha-papma
viddhy enam iha vairinam

Simple Interpretation

The Blessed Lord said: It is lust only, Arjuna, which is born of contact with the material modes of passion and later transformed into wrath, and which is the all-devouring, sinful enemy of this world.

Hindi Interpretation

धन्य है प्रभु ने कहा: यह केवल जुनून की सामग्री मोड के साथ संपर्क का जन्म हुआ था और बाद में क्रोध में तब्दील हो, और जो कर रहा है, जो अर्जुन, इस दुनिया के सभी-भक्षण, पापी दुश्मन है वासना है।

Chapter 3 Verse 38

Chapter Name -Karma-yoga

Sanskrit English
dhumenavriyate vahnir
yathadarso malena ca
yatholbenavrtto garbhas
tatha tenedam avrtam

Simple Interpretation

As fire is covered by smoke, as a mirror is covered by dust, or as the embryo is covered by the womb, similarly, the living entity is covered by different degrees of this lust.

Hindi Interpretation

एक दर्पण धूल से कवर किया जाता है के रूप में आग, धुएं से कवर किया जाता है के रूप में भ्रूण गर्भ से कवर किया जाता है, के

रूप में या, इसी तरह, जीवित इकाई इस वासना के विभिन्न डिग्री से आच्छादित है।

Chapter 3 Verse 39
Chapter Name -Karma-yoga

Sanskrit English
avrtam jnanam etena
jnanino nitya-vairina
kama-rupena kaunteya
duspurenanalena ca

Simple Interpretation
Thus, a man's pure consciousness is covered by his eternal enemy in the form of lust, which is never satisfied and which burns like fire.

Hindi Interpretation
इस प्रकार, एक आदमी का शुद्ध चेतना कभी संतुष्ट नहीं है और जो आग की तरह जलता है जो वासना के रूप में अपनी अनन्त दुश्मन द्वारा कवर किया जाता है।

Chapter 3 Verse 40
Chapter Name -Karma-yoga

Sanskrit English
indriyani mano buddhir
asyadhithanam ucyate
etair vimohayaty esa
jnanam avrtya dehinam

Simple Interpretation
The senses, the mind and the intelligence are the sitting places of this lust, which veils the real knowledge of the living entity and bewilders him.

Hindi Interpretation
इंद्रियों, मन और बुद्धि में रहने वाले संस्था की वास्तविक ज्ञान पर्दा और उसे bewilders जो इस वासना के बैठे स्थानों रहे हैं।

Chapter 3 Verse 41
Chapter Name -Karma-yoga

Sanskrit English
tasmat tvam indriyany adau
niyamyaharatarsabha
papmanam prajahi hy enam
jnana-vijnana-nasanam

Simple Interpretation

Therefore, O Arjuna, best of the Bharatas, in the very beginning curb this great symbol of sin [lust] by regulating the senses, and slay this destroyer of knowledge and self-realization.

Hindi Interpretation

इसलिए, हे अर्जुन, इंद्रियों को विनियमित करने से पाप [वासना] के बहुत शुरुआत पर अंकुश लगाने में, Bharatas का सबसे अच्छा इस महान प्रतीक है, और ज्ञान और आत्म-साक्षात्कार के इस विध्वंसक को मार डालना।

Chapter 3 Verse 42

Chapter Name -Karma-yoga

Sanskrit English

indriyani parany ahur
indriyebhyah param manah
manasas tu para buddhir
yo buddheh paratas tu sah

Simple Interpretation

The working senses are superior to dull matter; mind is higher than the senses; intelligence is still higher than the mind; and he [the soul] is even higher than the intelligence.

Hindi Interpretation

काम कर होश सुस्त बात करने के लिए बेहतर होते हैं; मन इंद्रियों से अधिक है; खुफिया मन से अभी भी अधिक है; और वह [आत्मा] खुफिया से भी अधिक है।

Chapter 3 Verse 43

Chapter Name -Transcendental Knowledge

Sanskrit English

evam buddheh param buddhva
samstabhyatmanam atmana
jahi satrum maha-baho
kama-rupam durasadam

Simple Interpretation

Thus knowing oneself to be transcendental to material senses, mind and intelligence, one should control the lower self by the higher self and thus--by spiritual strength--conquer this insatiable enemy known as lust.

Hindi Interpretation

आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा - - इस प्रकार अपने आप को जानने के लिए सामग्री इंद्रियों, मन और बुद्धि को दिव्य होने के लिए, एक उच्च आत्म है और इस तरह से कम आत्म नियंत्रण करना चाहिए वासना के रूप में जाना जाता है इस लालची दुश्मन को जीत।

Chapter 4 Verse 1

Chapter Name -Transcendental Knowledge

Sanskrit English
sri-bhagavan uvaca
imam vivasvate yogam
proktavan aham avyayam
vivasvan manave praha
manur iksvakave 'bravit

Simple Interpretation

The Blessed Lord said: I instructed this imperishable science of yoga to the sun-god, Vivasvan, and Vivasvan instructed it to Manu, the father of mankind, and Manu in turn instructed it to Ikshvaku.

Hindi Interpretation

धन्य है प्रभु ने कहा: मैं सूर्य-देवता, Vivasvan को योग के इस अविनाशी विज्ञान के निर्देश दिए, और Vivasvan मनु, मानव जाति के पिता को यह निर्देश दिए, और मनु बदले में Ikshvaku को यह निर्देश दिए।

Chapter 4 Verse 2

Chapter Name -Transcendental Knowledge

Sanskrit English
evam parampara-praptam
imam rajarsayo viduh
sa kaleneha mahata
yogo nastah parantapa

Simple Interpretation

This supreme science was thus received through the chain of disciplic succession, and the saintly kings understood it in that way. But in course of time the succession was broken, and therefore the science as it is appears to be lost.

Hindi Interpretation

यह सुप्रीम विज्ञान इस प्रकार disciplic उत्तराधिकार की श्रृंखला के माध्यम से प्राप्त किया गया था, और पुण्य राजाओं कि रास्ते में यह समझ में आया। लेकिन समय के पाठ्यक्रम में उत्तराधिकार टूटी हुई है, और इसलिए यह है के रूप में विज्ञान खो जाना प्रतीत होता गया था।

Chapter 4 Verse 3

Chapter Name -Transcendental Knowledge

Sanskrit English
sa evayam maya te 'dya
yogah proktah puratanah
bhakto 'si me sakha ceti
rahasyam hy etad uttamam

Simple Interpretation

That very ancient science of the relationship with the Supreme is today told by Me to you because you are My devotee as well as My friend; therefore you can understand the transcendental mystery of this science.

Hindi Interpretation

सुप्रीम के साथ संबंधों की है कि बहुत प्राचीन विज्ञान तुम मेरे भक्त के रूप में अच्छी तरह से मेरे दोस्त हैं, क्योंकि आज तुम मुझे द्वारा बताया है; इसलिए आप इस विज्ञान की दिव्य रहस्य को समझ सकते हैं।

Chapter 4 Verse 4

Chapter Name -Transcendental Knowledge

Sanskrit English

arjuna uvaca

aparam bhavato janma

param janma vivasvatah

katham etad vijaniyam

tvam adau proktavan iti

Simple Interpretation

Arjuna said: The sun-god Vivasvan is senior by birth to You. How am I to understand that in the beginning You instructed this science to him?

Hindi Interpretation

अर्जुन ने कहा: सूरज भगवान Vivasvan तुम्हें जन्म से वरिष्ठ है। मैं कैसे शुरुआत में आप उसे करने के लिए इस विज्ञान निर्देश दिए कि समझने के लिए कर रहा हूँ?

Chapter 4 Verse 5

Chapter Name -Transcendental Knowledge

Sanskrit English

sri-bhagavan uvaca

bahuni me vyatitani

janmani tava carjuna

tany aham veda sarvani

na tvam vettha parantapa

Simple Interpretation

The Blessed Lord said: Many, many births both you and I have passed. I can remember all of them, but you cannot, O subduer of the enemy!

Hindi Interpretation

धन्य है प्रभु ने कहा: बहुत से, कई जन्मों दोनों तुम और मैं बीत चुके हैं। मैं उन सभी को याद कर सकते हैं, लेकिन आप दुश्मन के हे Subduer, नहीं कर सकते हैं!

Chapter 4 Verse 6

Chapter Name -Transcendental Knowledge

Sanskrit English
ajo 'pi sann avyayatma
bhutanam isvaro 'pi san
prakrtim svam adhisthaya
sambhavamy atma-mayaya

Simple Interpretation

Although I am unborn and My transcendental body never deteriorates, and although I am the Lord of all sentient beings, I still appear in every millennium in My original transcendental form.

Hindi Interpretation

मैं अजन्मे हूँ और मैं सभी संवेदनशील प्राणी के यहोवा हूँ हालांकि मेरी दिव्य शरीर कभी नहीं कमजोर होती जाती है, और हालांकि, मैं अभी भी अपने मूल दिव्य रूप में हर सहस्राब्दी में दिखाई देते हैं।

Chapter 4 Verse 7

Chapter Name -Transcendental Knowledge

Sanskrit English
yada yada hi dharmasya
glanir bhavati bharata
abhyutthanam adharmasya
tadatmanam srjamy aham

Simple Interpretation

Whenever and wherever there is a decline in religious practice, O descendant of Bharata, and a predominant rise of irreligion--at that time I descend Myself.

Hindi Interpretation

जब भी और धार्मिक व्यवहार में गिरावट, हे भरत वंशज है, और अधर्म के एक प्रमुख वृद्धि है जहाँ भी - मैं अपने आप उतर उस समय।

Chapter 4 Verse 8

Chapter Name -Transcendental Knowledge

Sanskrit English
paritranaaya sadhunam
vinaasaya ca duskrtam
dharma-samsthapanarthaya
sambhavami yuge yuge

Simple Interpretation

In order to deliver the pious and to annihilate the miscreants, as well as to reestablish the principles of religion, I advent Myself millennium after millennium.

Hindi Interpretation

पवित्र देने के लिए और शरारती तत्वों का सफाया करने के लिए, साथ ही धर्म के सिद्धांतों को पुनर्स्थापित करने के लिए,

सहस्राब्दी के बाद मैं आगमन अपने आप सहस्राब्दी आदेश में।

Chapter 4 Verse 9

Chapter Name -Transcendental Knowledge

Sanskrit English

janma karma ca me divyam
evam yo vetti tattvatah
tyaktva deham punar janma
naiti mam eti so 'rjuna

Simple Interpretation

One who knows the transcendental nature of My appearance and activities does not, upon leaving the body, take his birth again in this material world, but attains My eternal abode, O Arjuna.

Hindi Interpretation

, शरीर छोड़ने पर, इस सामग्री दुनिया में फिर से अपने जन्म नहीं ले करता है मेरी उपस्थिति और गतिविधियों की दिव्य प्रकृति जानता है, लेकिन मेरा अनन्त निवास, हे अर्जुन उपलब्ध हो जाता है, जो एक।

Chapter 4 Verse 10

Chapter Name -Transcendental Knowledge

Sanskrit English

vita-raga-bhaya-krodha
man-maya mam upasritah
bahavo jnana-tapasa
puta mad-bhavam agatah

Simple Interpretation

Being freed from attachment, fear and anger, being fully absorbed in Me and taking refuge in Me, many, many persons in the past became purified by knowledge of Me--and thus they all attained transcendental love for Me.

Hindi Interpretation

कुर्की, भय और क्रोध से मुक्त किया जा रहा है, पूरी तरह मुझ में अवशोषित किया जा रहा और मुझ में शरण ले रही है, अतीत में बहुत से, कई व्यक्तियों मुझे के ज्ञान से शुद्ध हो गया - और इस तरह वे सब मेरे लिए दिव्य प्रेम प्राप्त किया।

Chapter 4 Verse 11

Chapter Name -Transcendental Knowledge

Sanskrit English

ye yatha mam prapadyante
tams tathaiva bhajamy aham
mama vartmanuvartante
manusyah partha sarvasah

Simple Interpretation

All of them--as they surrender unto Me--I reward accordingly. Everyone follows My path in all respects, O son of Prtha.

Hindi Interpretation

वे मुझे पर्यंत आत्मसमर्पण के रूप में - - उन सभी को मैं तदनुसार इनाम। हर कोई सभी मामलों में मेरा पथ, Prtha के हे पुत्र निम्नानुसार है।

Chapter 4 Verse 12

Chapter Name -Transcendental Knowledge

Sanskrit English

kanksantah karmanam siddhim
yajanta iha devatah
ksipram hi manuse loke
siddhir bhavati karma-ja

Simple Interpretation

Men in this world desire success in fruitive activities, and therefore they worship the demigods. Quickly, of course, men get results from fruitive work in this world.

Hindi Interpretation

इस दुनिया में पुरुषों fruitive गतिविधियों में सफलता की इच्छा है, और इसलिए वे demigods पूजा करते हैं। जल्दी से, ज़ाहिर है, पुरुषों के लिए इस दुनिया में fruitive काम से परिणाम मिलता है।

Chapter 4 Verse 13

Chapter Name -Transcendental Knowledge

Sanskrit English

catur-varnyam maya srstam
guna-karma-vibhagasah
tasya kartaram api mam
viddhy akartaram avyayam

Simple Interpretation

According to the three modes of material nature and the work ascribed to them, the four divisions of human society were created by Me. And, although I am the creator of this system, you should know that I am yet the non-doer, being unchangeable.

Hindi Interpretation

सामग्री प्रकृति और उन्हें जिम्मेदार माना काम के तीन मोड के अनुसार, मानव समाज के चार डिवीजनों मेरे द्वारा बनाया गया था। मैं इस प्रणाली के निर्माता हूँ और, यद्यपि, तुम मुझे अपरिवर्तनीय जा रहा है अभी तक गैर-कर्ता हूँ कि पता होना चाहिए।

Chapter 4 Verse 14

Chapter Name -Transcendental Knowledge

Sanskrit English

na mam karmani limpanti
na me karma-phale sprha
iti mam yo 'bhijanati
karmabhir na sa badhyate

Simple Interpretation

There is no work that affects Me; nor do I aspire for the fruits of action. One who understands this truth about Me also does not become entangled in the fruitive reactions of work.

Hindi Interpretation

मुझे प्रभावित करता है कि कोई काम नहीं है; न ही मैं कार्रवाई के फल के लिए कामना करते हैं। यह भी मेरे बारे में इस सच्चाई को समझता है जो काम के fruitive प्रतिक्रियाओं में उलझ नहीं हो जाता।

Chapter 4 Verse 15

Chapter Name -Transcendental Knowledge

Sanskrit English

evam jnatva krtam karma
purvair api mumuksubhih
kuru karmaiva tasmāt tvam
purvaih purvataram krtam

Simple Interpretation

All the liberated souls in ancient times acted with this understanding and so attained liberation. Therefore, as the ancients, you should perform your duty in this divine consciousness.

Hindi Interpretation

प्राचीन काल में सभी मुक्त आत्माओं को इस समझ और इसलिए प्राप्त कर ली मुक्ति के साथ काम किया। इसलिए, पूर्वजों के रूप में, आप इस दिव्य चेतना में अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए।

Chapter 4 Verse 16

Chapter Name -Transcendental Knowledge

Sanskrit English

kim karma kim akarmeti
kavayo 'py atra mohitah
tat te karma pravaksyami
yaj jnatva moksyase 'subhat

Simple Interpretation

Even the intelligent are bewildered in determining what is action and what is inaction. Now I shall explain to you what action is, knowing which you shall be liberated from all sins.

Hindi Interpretation

यहां तक कि बुद्धिमान कार्रवाई की है और निष्क्रियता क्या है क्या पता लगाने में घबराए हुए हैं। अब मैं आप सब पापों से मुक्त हो जाएगा, जो जानते हुए भी, कार्रवाई है क्या आप को समझा जाएगा।

Chapter 4 Verse 17

Chapter Name -Transcendental Knowledge

Sanskrit English

karmano hy api boddhavyam
boddhavyam ca vikarmanah
akarmanas ca boddhavyam
gahana karmano gatih

Simple Interpretation

The intricacies of action are very hard to understand. Therefore one should know properly what action is, what forbidden action is, and what inaction is.

Hindi Interpretation

कार्रवाई की पेचीदगियों को समझने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। इसलिए एक क्या निष्क्रियता है निषिद्ध कार्य क्या है, है, और क्या कार्रवाई ठीक से पता होना चाहिए।

Chapter 4 Verse 18

Chapter Name -Transcendental Knowledge

Sanskrit English

karmany akarma yah pasyed
akarmani ca karma yah
sa buddhiman manusyesu
sa yuktah krtasna-karma-krt

Simple Interpretation

One who sees inaction in action, and action in inaction, is intelligent among men, and he is in the transcendental position, although engaged in all sorts of activities.

Hindi Interpretation

निष्क्रियता में कार्रवाई में निष्क्रियता, और कार्रवाई में देखता है जो एक, लोगों के बीच बुद्धिमान है, और गतिविधियों के सभी प्रकार में लगे हुए हैं, हालांकि वह दिव्य स्थिति में है।

Chapter 4 Verse 19

Chapter Name -Transcendental Knowledge

Sanskrit English

yasya sarve samarambhah
kama-sankalpa-varjitah

jnanagni-dagdha-karmanam
tam ahuh panditam budhah

Simple Interpretation

One is understood to be in full knowledge whose every act is devoid of desire for sense gratification. He is said by sages to be a worker whose fruitive action is burned up by the fire of perfect knowledge.

Hindi Interpretation

एक जिसका हर कार्य भावना संतुष्टि के लिए इच्छा से रहित है पूर्ण ज्ञान में होना समझा जाता है। उन्होंने कहा कि जिसका fruitive कार्यवाई सही ज्ञान की आग से जला दिया है एक कार्यकर्ता होने के लिए संतों द्वारा कहा जाता है।

Chapter 4 Verse 20

Chapter Name -Transcendental Knowledge

Sanskrit English

tyaktva karma-phalasangam
nitya-trpto nirasrayah
karmany abhipravrtto 'pi
naiva kincit karoti sah

Simple Interpretation

Abandoning all attachment to the results of his activities, ever satisfied and independent, he performs no fruitive action, although engaged in all kinds of undertakings.

Hindi Interpretation

उपक्रमों के सभी प्रकार में लगे हुए हैं, हालांकि कभी संतुष्ट और स्वतंत्र उसकी गतिविधियों, के परिणाम के लिए सभी लगाव को छोड़, वह कोई fruitive कार्यवाई करता है।

Chapter 4 Verse 21

Chapter Name -Transcendental Knowledge

Sanskrit English

nirasir yata-cittatma
tyakta-sarva-parigraha
sariram kevalam karma
kurvan napnoti kilbisam

Simple Interpretation

Such a man of understanding acts with mind and intelligence perfectly controlled, gives up all sense of proprietorship over his possessions and acts only for the bare necessities of life. Thus working, he is not affected by sinful reactions.

Hindi Interpretation

समझ के इस तरह के एक आदमी, मन और बुद्धि पूरी तरह से नियंत्रित साथ कार्य करता है उसकी संपत्ति से अधिक स्वामित्व के सभी अर्थ देता है और केवल जीवन के नंगे आवश्यकताओं के लिए कार्य करता है। इस प्रकार से काम कर रहा है, वह पापी प्रतिक्रियाओं से प्रभावित नहीं है।

Chapter 4 Verse 22

Chapter Name -Transcendental Knowledge

Sanskrit English

yadrccha-labha-santusto
dvandvatito vimatsarah
samah siddhav asiddhau ca
krtvapi na nibadhyate

Simple Interpretation

He who is satisfied with gain which comes of its own accord, who is free from duality and does not envy, who is steady both in success and failure, is never entangled, although performing actions.

Hindi Interpretation

दोनों सफलता और असफलता में स्थिर है, जो द्वंद्व से मुक्त है और ईर्ष्या नहीं करता है, जो अपनी मर्जी, की बात आती है, जो लाभ के साथ संतुष्ट हो जाता है, जो उन्होंने प्रदर्शन कर कार्यो हालांकि, उलझ कभी नहीं रहा है।

Chapter 4 Verse 23

Chapter Name -Transcendental Knowledge

Sanskrit English

gata-sangasya muktasya
jnanavasthita-cetasah
yajnayacaratah karma
samagram praviliyate

Simple Interpretation

The work of a man who is unattached to the modes of material nature and who is fully situated in transcendental knowledge merges entirely into transcendence.

Hindi Interpretation

पूरी तरह से दिव्य ज्ञान में स्थित है सामग्री प्रकृति और जो के तरीके को स्वाधीन है, जो एक आदमी का काम अतिक्रमण में पूरी तरह विलीन हो जाती है।

Chapter 4 Verse 24

Chapter Name -Transcendental Knowledge

Sanskrit English

brahmarpanam brahma havir
brahmagnau brahmana hutam
brahmaiva tena gantavyam
brahma-karma-samadhina

Simple Interpretation

A person who is fully absorbed in Krsna consciousness is sure to attain the spiritual kingdom because of his full contribution to spiritual activities, in which the consummation is absolute and that which is offered is of the same spiritual nature.

Hindi Interpretation

पूरी तरह से कृष्ण चेतना में लीन है, जो एक व्यक्ति क्योंकि आध्यात्मिक गतिविधियों के लिए अपने पूर्ण योगदान के आध्यात्मिक साम्राज्य को प्राप्त करने के लिए सुनिश्चित किया जाता है, जिसमें समाप्ति निरपेक्ष है और की पेशकश की है जो कि एक ही आध्यात्मिक प्रकृति का है।

Chapter 4 Verse 25

Chapter Name -Transcendental Knowledge

Sanskrit English

daivam evapare yajnam
yoginah paryupasate
brahmagnav apare yajnam
yajnenaivopajuhvati

Simple Interpretation

Some yogis perfectly worship the demigods by offering different sacrifices to them, and some of them offer sacrifices in the fire of the Supreme Brahman.

Hindi Interpretation

कुछ योगियों उन्हें पूरी तरह से करने के लिए विभिन्न बलिदान की पेशकश के द्वारा demigods की पूजा, और उनमें से कुछ को सुप्रीम ब्रह्म की आग में बलिदान प्रदान करते हैं।

Chapter 4 Verse 26

Chapter Name -Transcendental Knowledge

Sanskrit English

srotradinindriyany anye
samyamagnisu juhvati
sabdadin visayan anya
indriyagnisu juhvati

Simple Interpretation

Some of them sacrifice the hearing process and the senses in the fire of the controlled mind, and others sacrifice the objects of the senses, such as sound, in the fire of sacrifice.

Hindi Interpretation

उनमें से कुछ की सुनवाई की प्रक्रिया और नियंत्रित मन की आग में होश बलिदान, और दूसरों के बलिदान की आग में, इस तरह के ध्वनि के रूप में होश, की वस्तुओं का त्याग।

Chapter 4 Verse 27

Chapter Name -Transcendental Knowledge

Sanskrit English
sarvanindriya-karmani
prana-karmani capare
atma-samyama-yogagnau
juhvati jnana-dipite

Simple Interpretation

Those who are interested in self-realization, in terms of mind and sense control, offer the functions of all the senses, as well as the vital force [breath], as oblations into the fire of the controlled mind.

Hindi Interpretation

मन और भावना पर नियंत्रण के मामले में आत्म-साक्षात्कार में रुचि रखते हैं जो लोग, नियंत्रित मन की आग में चढ़ावा के रूप में सभी इंद्रियों के काम करता है, और साथ ही महत्वपूर्ण बल [सांस], प्रदान करते हैं।

Chapter 4 Verse 28

Chapter Name -Transcendental Knowledge

Sanskrit English
dravya-yajnas tapo-yajna
yoga-yajnas tathapare
svadhyaya-jnana-yajnas ca
yatayah samsita-vratah

Simple Interpretation

There are others who, enlightened by sacrificing their material possessions in severe austerities, take strict vows and practice the yoga of eightfold mysticism, and others study the Vedas for the advancement of transcendental knowledge.

Hindi Interpretation

गंभीर तपस्या में उनके भौतिक संपत्ति का त्याग करके प्रबुद्ध, सख्त प्रतिज्ञा लेते हैं और Eightfold रहस्यवाद के योग का अभ्यास, और दूसरों को दिव्य ज्ञान की उन्नति के लिए वेदों का अध्ययन दूसरों को, जो कर रहे हैं।

Chapter 4 Verse 29

Chapter Name -Transcendental Knowledge

Sanskrit English
apane juhvati pranam
prane 'panam tathapare
pranapana-gati ruddhva
pranayama-parayanah
apare niyataharah
pranan pranesu juhvati

Simple Interpretation

And there are even others who are inclined to the process of breath restraint to remain in trance, and they

practice stopping the movement of the outgoing breath into the incoming, and incoming breath into the outgoing, and thus at last remain in trance, stopping all breathing. Some of them, curtailing the eating process, offer the outgoing breath into itself, as a sacrifice.

Hindi Interpretation

और ट्रांस में रहने के लिए सांस संयम की प्रक्रिया करने के लिए इच्छुक रहे हैं यहां तक कि जो दूसरों रहे हैं, और वे निवर्तमान में आने वाली है, और आने वाली सांस में निवर्तमान सांस की आवाजाही रोक अभ्यास, और इस प्रकार में पिछले सभी रोक, मदहोशी में रहना साँस लेने में। उनमें से कुछ खाने की प्रक्रिया में कटौती, एक बलिदान के रूप में, जो अपने आप में निवर्तमान सांस प्रदान करते हैं

Chapter 4 Verse 30

Chapter Name -Transcendental Knowledge

Sanskrit English

sarve 'py ete yajna-vido
yajna-ksapita-kalmasah
yajna-sistamrta-bhujo
yanti brahma sanatanam

Simple Interpretation

All these performers who know the meaning of sacrifice become cleansed of sinful reaction, and, having tasted the nectar of the remnants of such sacrifice, they go to the supreme eternal atmosphere.

Hindi Interpretation

बलिदान का मतलब पता है जो इन सभी कलाकारों को इस तरह के बलिदान के अवशेष का अमृत चखा होने, पापी प्रतिक्रिया की शुद्ध, और हो, वे सुप्रीम अनन्त वातावरण के लिए जाना।

Chapter 4 Verse 31

Chapter Name -Transcendental Knowledge

Sanskrit English

nayam loko 'sty ayajnasya
kuto 'nyah kuru-sattama

Simple Interpretation

O best of the Kuru dynasty, without sacrifice one can never live happily on this planet or in this life: what then of the next?

Hindi Interpretation

, कुरु वंश का सबसे अच्छा हे एक इस जीवन में इस ग्रह पर या में खुशी से रहते कभी नहीं हो सकता बलिदान के बिना: क्या फिर अगले की?

Chapter 4 Verse 32

Chapter Name -Transcendental Knowledge

Sanskrit English
evam bahu-vidha yajna
vitata brahmano mukhe
karma-jan viddhi tan sarvan
evam jnatva vimoksyase

Simple Interpretation

All these different types of sacrifice are approved by the Vedas, and all of them are born of different types of work. Knowing them as such, you will become liberated.

Hindi Interpretation

बलिदान के इन सभी विभिन्न प्रकार वेदों के द्वारा अनुमोदित कर रहे हैं, और उन सभी को काम के विभिन्न प्रकार के पैदा होते हैं। इस तरह के रूप में उन्हें जानने के बाद, आप मुक्त हो जाएगा।

Chapter 4 Verse 33

Chapter Name -Transcendental Knowledge

Sanskrit English
sreyan dravya-mayad yajnaj
jnana-yajnah parantapa
sarvam karmakhilam partha
jnane parisamapyate

Simple Interpretation

O chastiser of the enemy, the sacrifice of knowledge is greater than the sacrifice of material possessions. O son of Prtha, after all, the sacrifice of work culminates in transcendental knowledge.

Hindi Interpretation

दुश्मन के हे chastiser, ज्ञान का बलिदान सामग्री संपत्ति के बलिदान की तुलना में अधिक है। Prtha के हे पुत्र, सब के बाद, काम के बलिदान के दिव्य ज्ञान में खत्म।

Chapter 4 Verse 34

Chapter Name -Transcendental Knowledge

Sanskrit English
tad viddhi pranipatena
pariprasnena sevaya
upadeksyanti te jnanam
jnaninas tattva-darsinah

Simple Interpretation

Just try to learn the truth by approaching a spiritual master. Inquire from him submissively and render service unto him. The self-realized soul can impart knowledge unto you because he has seen the truth.

Hindi Interpretation

बस एक आध्यात्मिक गुरु के निकट से सच्चाई जानने की कोशिश करो। विनम्रता से उसके पास से पूछताछ के लिए और उसे

पर्यत सेवा करती हैं। वह सच में देखा गया है, क्योंकि स्वयं एहसास हुआ आत्मा तुमसे कहता ज्ञान प्रदान कर सकते हैं।

Chapter 4 Verse 35

Chapter Name -Transcendental Knowledge

Sanskrit English

yaj jnatva na punar moham
evam yasyasi pandava
yena bhutany asesani
draksyasy atmany atho mayi

Simple Interpretation

And when you have thus learned the truth, you will know that all living beings are but part of Me--and that they are in Me, and are Mine.

Hindi Interpretation

और वे मुझे में हैं, और मेरे हैं - जब आप इस प्रकार सच्चाई सीखा है और जब आप सभी जीवित प्राणियों रहे हैं, लेकिन मुझे का हिस्सा है कि पता चल जाएगा।

Chapter 4 Verse 36

Chapter Name -Transcendental Knowledge

Sanskrit English

api ced asi papebhyah
sarvebhyah papa-krttamah
sarvam jnana-plavenaiva
vrjinam santarisyasi

Simple Interpretation

Even if you are considered to be the most sinful of all sinners, when you are situated in the boat of transcendental knowledge, you will be able to cross over the ocean of miseries.

Hindi Interpretation

आप सभी पापियों के सबसे पापी माना जाता है, भले ही आप दिव्य ज्ञान की नाव में स्थित हैं, जब आप दुख के सागर को पार करने में सक्षम हो जाएगा।

Chapter 4 Verse 37

Chapter Name -Transcendental Knowledge

Sanskrit English

yathaidhamsi samiddho 'gnir
bhasmasat kurute 'rjuna
jnanagnih sarva-karmani
bhasmasat kurute tatha

Simple Interpretation

As the blazing fire turns firewood to ashes, O Arjuna, so does the fire of knowledge burn to ashes all reactions to material activities.

Hindi Interpretation

धधकते आग की राख को जलाऊ लकड़ी निकलता है, हे अर्जुन, तो ज्ञान की अग्नि सामग्री गतिविधियों को राख करने के लिए सभी प्रतिक्रियाओं जला करता है।

Chapter 4 Verse 38

Chapter Name -Transcendental Knowledge

Sanskrit English

na hi jnanena sadrsam
pavitram iha vidyate
tat svayam yoga-samsiddhah
kalenatmani vindati

Simple Interpretation

In this world, there is nothing so sublime and pure as transcendental knowledge. Such knowledge is the mature fruit of all mysticism. And one who has achieved this enjoys the self within himself in due course of time.

Hindi Interpretation

इस दुनिया में, दिव्य ज्ञान के रूप में इतनी उदात्त और शुद्ध वहाँ कुछ भी नहीं है। इस तरह के ज्ञान सब रहस्यवाद का परिपक्व फल है। और यह हासिल की है, जो एक समय के कारण पाठ्यक्रम में अपने भीतर आत्म आनंद मिलता है।

Chapter 4 Verse 39

Chapter Name -Transcendental Knowledge

Sanskrit English

sraddhaval labhate jnanam
tat-parah samyatendriyah
jnanam labdhva param santim
acirenadhigacchati

Simple Interpretation

A faithful man who is absorbed in transcendental knowledge and who subdues his senses quickly attains the supreme spiritual peace.

Hindi Interpretation

दिव्य ज्ञान में लीन और कौन है जो एक वफादार आदमी जल्दी से अपने होश subdues सर्वोच्च आध्यात्मिक शांति को पा लेता है।

Chapter 4 Verse 40

Chapter Name -Transcendental Knowledge

Sanskrit English
ajnas casraddadhanas ca
samsayatma vinaswati
nayam loko 'sti na paro
na sukham samsayatmanah

Simple Interpretation

But ignorant and faithless persons who doubt the revealed scriptures do not attain God consciousness. For the doubting soul there is happiness neither in this world nor in the next.

Hindi Interpretation

लेकिन पता चला शास्त्रों शक है जो अज्ञानी और विश्वासघाती व्यक्तियों भगवान चेतना को प्राप्त नहीं है। शक आत्मा के लिए इस दुनिया में और न ही अगले में न तो खुशी होती है।

Chapter 4 Verse 41

Chapter Name -Transcendental Knowledge

Sanskrit English
yoga-sannyasta-karmanam
jnana-sanchinna-samsayam
atmavantam na karmani
nibadhnanti dhananjaya

Simple Interpretation

Therefore, one who has renounced the fruits of his action, whose doubts are destroyed by transcendental knowledge, and who is situated firmly in the self, is not bound by works, O conqueror of riches.

Hindi Interpretation

इसलिए, जिसका संदेह दिव्य ज्ञान के द्वारा नष्ट कर रहे हैं, और जो स्वयं में मजबूती स्थित है उसकी कार्यवाई के फल का त्याग कर दिया है जो एक, काम करता है, धन की हे विजेता से बाध्य नहीं है।

Chapter 4 Verse 42

Chapter Name -Karma-yoga--Action in Krsna Consciousness

Sanskrit English
tasmad ajnana-sambhutam
hrt-stham jnanasinatmanah
chittvainam samsayam yogam
atisthottistha bharata

Simple Interpretation

Therefore the doubts which have arisen in your heart out of ignorance should be slashed by the weapon of knowledge. Armed with yoga, O Bharata, stand and fight.

Hindi Interpretation

इसलिए अज्ञानता से बाहर अपने दिल में पैदा हुई है जो संदेह ज्ञान के हथियार से घटा दिया जाना चाहिए। योग के साथ

सशस्त्र, हे भरत, खड़े होकर लड़ने।

Chapter 5 Verse 1

Chapter Name -Karma-yoga--Action in Krsna Consciousness

Sanskrit English

arjuna uvaca

sannyasam karmanam krsna

punar yogam ca samsasi

yac chreya etayor ekam

tan me bruhi suniscitam

Simple Interpretation

Arjuna said: O Krsna, first of all You ask me to renounce work, and then again You recommend work with devotion. Now will You kindly tell me definitely which of the two is more beneficial?

Hindi Interpretation

अर्जुन ने कहा: हे कृष्ण, सब से पहले आप काम का त्याग करने के लिए मुझसे पूछते हैं, और उसके बाद फिर से आप भक्ति के साथ काम सलाह देते हैं। अब आप कृपया अधिक फायदेमंद है जिनमें से दो निश्चित रूप से मुझे बताना होगा?

Chapter 5 Verse 2

Chapter Name -Karma-yoga--Action in Krsna Consciousness

Sanskrit English

sri-bhagavan uvaca

sannyasah karma-yogas ca

nihsreyasa-karav ubhau

tayos tu karma-sannyasat

karma-yogo visisyate

Simple Interpretation

The Blessed Lord said: The renunciation of work and work in devotion are both good for liberation. But, of the two, work in devotional service is better than renunciation of works.

Hindi Interpretation

धन्य है प्रभु ने कहा: भक्ति में काम और काम का त्याग दोनों मुक्ति के लिए अच्छे हैं। लेकिन, दो की, भक्ति सेवा में काम कार्यों के त्याग की तुलना में बेहतर है।

Chapter 5 Verse 3

Chapter Name -Karma-yoga--Action in Krsna Consciousness

Sanskrit English

jneyah sa nitya-sannyasi

yo na dvesti na kanksati

nirdvandvo hi maha-baho

sukham bandhat pramucyate

Simple Interpretation

One who neither hates nor desires the fruits of his activities is known to be always renounced. Such a person, liberated from all dualities, easily overcomes material bondage and is completely liberated, O mighty-armed Arjuna.

Hindi Interpretation

नफरत करता है और न ही उसकी गतिविधियों का फल इच्छाओं न तो एक है जो हमेशा त्याग किया जाता है। सभी द्वंद्व से मुक्त एक ऐसे व्यक्ति, आसानी से सामग्री बंधन पर काबू पा और, हे शक्तिशाली हथियारों से लैस अर्जुन पूरी तरह से मुक्त है।

Chapter 5 Verse 4

Chapter Name -Karma-yoga--Action in Krsna Consciousness

Sanskrit English

sankhya-yogau prthag balah
pravadanti na panditah
ekam apy asthitah samyag
ubhayor vindate phalam

Simple Interpretation

Only the ignorant speak of karma-yoga and devotional service as being different from the analytical study of the material world [sankhya]. Those who are actually learned say that he who applies himself well to one of these paths achieves the results of both.

Hindi Interpretation

सामग्री दुनिया [सांख्य] का विश्लेषणात्मक अध्ययन से अलग होने के रूप में कर्म-योग और भक्ति सेवा के केवल अज्ञानी बोलते हैं। वास्तव में सीख रहे हैं जो लोग इन रास्तों में से एक के लिए अच्छी तरह से खुद को लागू होता है जो वह दोनों के परिणामों को प्राप्त होता है कि कहते हैं।

Chapter 5 Verse 5

Chapter Name -Karma-yoga--Action in Krsna Consciousness

Sanskrit English

yat sankhyaih prapyate sthanam
tad yogair api gamyate
ekam sankhyam ca yogam ca
yah pasyati sa pasyati

Simple Interpretation

One who knows that the position reached by means of renunciation can also be attained by works in devotional service and who therefore sees that the path of works and the path of renunciation are one, sees things as they are.

Hindi Interpretation

त्याग के माध्यम से पहुंच गया स्थिति भी भक्ति सेवा और कौन में काम करता है के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है जो

जानता है इसलिए काम करता है के पथ और त्याग की राह वे कर रहे हैं के रूप में एक, चीजों को देखता है कि देखता है।

Chapter 5 Verse 6

Chapter Name -Karma-yoga--Action in Krsna Consciousness

Sanskrit English
sannyasas tu maha-baho
duhkham aptum ayogatah
yoga-yukto munir brahma
na cirenadhigacchati

Simple Interpretation

Unless one is engaged in the devotional service of the Lord, mere renunciation of activities cannot make one happy. The sages, purified by works of devotion, achieve the Supreme without delay.

Hindi Interpretation

एक ही प्रभु की भक्ति सेवा में लगी हुई है, जब तक की गतिविधियों की मात्र त्याग एक को खुश करने के लिए नहीं कर सकते हैं। भक्ति के कामों से शुद्ध संतों, देरी के बिना सुप्रीम हासिल।

Chapter 5 Verse 7

Chapter Name -Karma-yoga--Action in Krsna Consciousness

Sanskrit English
yoga-yukto visuddhatma
vijitatma jitendriyah
sarva-bhutatma-bhutatma
kurvann api na lipyate

Simple Interpretation

One who works in devotion, who is a pure soul, and who controls his mind and senses, is dear to everyone, and everyone is dear to him. Though always working, such a man is never entangled.

Hindi Interpretation

भक्ति में काम करने वाले, जो एक शुद्ध आत्मा है, और जो अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित करता है हर किसी को प्रिय है, और हर कोई उसे करने के लिए प्रिय है। हमेशा काम कर रहा है, हालांकि, इस तरह के एक आदमी उलझ कभी नहीं रहा है।

Chapter 5 Verse 41860

Chapter Name -Karma-yoga--Action in Krsna Consciousness

Sanskrit English
naiva kincit karomiti
yukto manyeta tattva-vit
pasyan srnvan sprsan jighrann
asnan gacchan svapan svasan

pralapan visrjan grhnann
unmisan nimisann api
indriyanindriyarthesu
vartanta iti dharayan

Simple Interpretation

A person in the divine consciousness, although engaged in seeing, hearing, touching, smelling, eating, moving about, sleeping and breathing, always knows within himself that he actually does nothing at all. Because while speaking, evacuating, receiving, opening or closing his eyes, he always knows that only the material senses are engaged with their objects and that he is aloof from them.

Hindi Interpretation

देख, सुन, स्पर्श, महक, खाने, के बारे में चलती है, सो रही है और सांस लेने में लगे हुए हैं, हालांकि दिव्य चेतना में एक व्यक्ति, हमेशा वह वास्तव में सब पर कुछ भी नहीं है कि खुद के भीतर जानता है। खोलने या उसकी आँखें बंद, निकालने, बोल प्राप्त करते हुए, क्योंकि वह हमेशा ही सामग्री होश उनकी वस्तुओं के साथ है और वह उन लोगों से अलग है कि लगे हुए हैं कि जानता है

Chapter 5 Verse 10

Chapter Name -Karma-yoga--Action in Krsna Consciousness

Sanskrit English

brahmany adhaya karmani
sangam tyaktva karoti yah
lipyate na sa papena
padma-patram ivambhasa

Simple Interpretation

One who performs his duty without attachment, surrendering the results unto the Supreme God, is not affected by sinful action, as the lotus leaf is untouched by water.

Hindi Interpretation

कमल के पत्ते पानी से अछूता है के रूप में सुप्रीम भगवान के इंधार परिणाम समर्पण, लगाव के बिना अपने कर्तव्य प्रदर्शन करती है जो एक, पापी कार्रवाई से प्रभावित नहीं है।

Chapter 5 Verse 11

Chapter Name -Karma-yoga--Action in Krsna Consciousness

Sanskrit English

kayena manasa buddhya
kevalair indriyair api
yoginah karma kurvanti
sangam tyaktvatma-suddhaye

Simple Interpretation

The yogis, abandoning attachment, act with body, mind, intelligence, and even with the senses, only for the purpose of purification.

Hindi Interpretation

योगियों, लगाव को छोड़, केवल शुद्धि के उद्देश्य के लिए, शरीर, मन, बुद्धि, और यहां तक कि होश के साथ साथ काम करते हैं।

Chapter 5 Verse 12

Chapter Name -Karma-yoga--Action in Krsna Consciousness

Sanskrit English

yuktah karma-phalam tyaktva
santim apnoti naisthikim
ayuktah kama-karena
phale sakto nibadhyate

Simple Interpretation

The steadily devoted soul attains unadulterated peace because he offers the result of all activities to Me; whereas a person who is not in union with the Divine, who is greedy for the fruits of his labor, becomes entangled.

Hindi Interpretation

वह मेरे लिए सब गतिविधियों का परिणाम प्रदान करता है, क्योंकि तेजी से समर्पित आत्मा चापलूसी नहीं शांति को पा लेता है; अपने परिश्रम का फल के लिए लालची है जो देवी, साथ संघ में नहीं है, जो एक व्यक्ति है, जबकि उलझा हो जाता है।

Chapter 5 Verse 13

Chapter Name -Karma-yoga--Action in Krsna Consciousness

Sanskrit English

sarva-karmani manasa
sannyasyaste sukham vasi
nava-dvare pure dehi
naiva kurvan na karayan

Simple Interpretation

When the embodied living being controls his nature and mentally renounces all actions, he resides happily in the city of nine gates [the material body], neither working nor causing work to be done.

Hindi Interpretation

सन्नहित प्राणी उसका स्वभाव को नियंत्रित करता है और मानसिक रूप से सभी कार्यो त्याग करते हैं, तो वह नौ फाटकों [सामग्री शरीर], न तो काम कर रहे हैं और न ही पैदा करने का काम किया जा करने के लिए शहर में खुशी से रहता है।

Chapter 5 Verse 14

Chapter Name -Karma-yoga--Action in Krsna Consciousness

Sanskrit English

na kartrtvam na karmani
lokasya srjati prabhuh
na karma-phala-samyogam
svabhavas tu pravartate

Simple Interpretation

The embodied spirit, master of the city of his body, does not create activities, nor does he induce people to act, nor does he create the fruits of action. All this is enacted by the modes of material nature.

Hindi Interpretation

सन्निहित भावना, उसके शरीर के शहर के मास्टर गतिविधियों पैदा नहीं करता, न ही वह कार्य करने के लिए लोगों को प्रेरित करता है, और न ही वह कार्रवाई के फल पैदा करता है। यह सब सामग्री प्रकृति के मोड द्वारा अधिनियमित किया जाता है।

Chapter 5 Verse 15

Chapter Name -Karma-yoga--Action in Krsna Consciousness

Sanskrit English
nadatte kasyacit papam
na caiva sukrtam vibhuh
ajnanenavrtam jnanam
tena muhyanti jantavah

Simple Interpretation

Nor does the Supreme Spirit assume anyone's sinful or pious activities. Embodied beings, however, are bewildered because of the ignorance which covers their real knowledge.

Hindi Interpretation

न ही सुप्रीम आत्मा किसी के भी पापी या पवित्र गतिविधियों मान करता है। सन्निहित प्राणी है, तथापि, क्योंकि उनके वास्तविक ज्ञान को शामिल किया गया है, जो अज्ञान के घबराए हुए हैं।

Chapter 5 Verse 16

Chapter Name -Karma-yoga--Action in Krsna Consciousness

Sanskrit English
jnanena tu tad ajnanam
yesam nasitam atmanah
tesam aditya-vaj jnanam
prakasayati tat param

Simple Interpretation

When, however, one is enlightened with the knowledge by which nescience is destroyed, then his knowledge reveals everything, as the sun lights up everything in the daytime.

Hindi Interpretation

बहरहाल, एक अज्ञान नष्ट हो जाता है जिसके द्वारा ज्ञान के साथ प्रबुद्ध है जब सूरज दिन के समय में सब कुछ रोशनी के रूप में, तो अपने ज्ञान, सब कुछ पता चलता है।

Chapter 5 Verse 17

Chapter Name -Karma-yoga--Action in Krsna Consciousness

Sanskrit English

tad-buddhayas tad-atmanas
tan-nisthas tat-parayanah
gacchanty apunar-avrttim
jnana-nirdhuta-kalmasah

Simple Interpretation

When one's intelligence, mind, faith and refuge are all fixed in the Supreme, then one becomes fully cleansed of misgivings through complete knowledge and thus proceeds straight on the path of liberation.

Hindi Interpretation

एक खुफिया, मन, विश्वास और शरण सब सुप्रीम में तय कर रहे हैं, तो एक पूरी तरह से पूरा ज्ञान के माध्यम से गलतफहमी की शुद्ध हो जाता है और इस प्रकार सीधे मुक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ती है।

Chapter 5 Verse 18

Chapter Name -Karma-yoga--Action in Krsna Consciousness

Sanskrit English

vidya-vinaya-sampanne
brahmane gavi hastini
suni caiva sva-pake ca
panditah sama-darsinah

Simple Interpretation

The humble sage, by virtue of true knowledge, sees with equal vision a learned and gentle brahmana, a cow, an elephant, a dog and a dog-eater [outcaste].

Hindi Interpretation

विनम्र ऋषि, सच्चा ज्ञान के आधार पर, बराबर दृष्टि से एक सीखा है और कोमल ब्राह्मण, एक गाय, एक हाथी, एक कुत्ता और एक कुत्ते-भक्षक [चंडाल] देखता है।

Chapter 5 Verse 19

Chapter Name -Karma-yoga--Action in Krsna Consciousness

Sanskrit English

ihaiva tair jitah sargo
yesam samye sthitam manah
nirdosam hi samam brahma
tasmad brahmani te sthitah

Simple Interpretation

Those whose minds are established in sameness and equanimity have already conquered the conditions of birth and death. They are flawless like Brahman, and thus they are already situated in Brahman.

Hindi Interpretation

जिसका मन समानता और धैर्य में स्थापित कर रहे हैं जो पहले से ही जन्म और मृत्यु की शर्तों पर विजय प्राप्त की है। वे ब्रह्म की तरह निर्दोष हैं, और इस तरह वे पहले से ही ब्रह्म में स्थित हैं।

Chapter 5 Verse 20

Chapter Name -Karma-yoga--Action in Krsna Consciousness

Sanskrit English

na prahrsyet priyam prapya
nodvijet prapya capriyam
sthira-buddhir asammudho
brahma-vid brahmani sthitah

Simple Interpretation

A person who neither rejoices upon achieving something pleasant nor laments upon obtaining something unpleasant, who is self-intelligent, unbewildered, and who knows the science of God, is to be understood as already situated in Transcendence.

Hindi Interpretation

न तो सुखद कुछ प्राप्त करने पर रमण और न ही स्वयं बुद्धिमान, unbewildered है जो कुछ अप्रिय प्राप्त करने पर अफसोस जताया है, और परमेश्वर का विज्ञान है जो जानता है एक व्यक्ति, जो पहले से ही अतिक्रमण में स्थित के रूप में समझा जा सकता है।

Chapter 5 Verse 21

Chapter Name -Karma-yoga--Action in Krsna Consciousness

Sanskrit English

bahya-sparsesv asaktatma
vindaty atmani yat sukham
sa brahma-yoga-yuktatma
sukham aksayam asnute

Simple Interpretation

Such a liberated person is not attracted to material sense pleasure or external objects but is always in trance, enjoying the pleasure within. In this way the self-realized person enjoys unlimited happiness, for he concentrates on the Supreme.

Hindi Interpretation

इस तरह के एक मुक्त व्यक्ति सामग्री भावना खुशी या बाहरी वस्तुओं की ओर आकर्षित है, लेकिन भीतर खुशी का आनंद ले रहे, मदहोशी में हमेशा से रहा है नहीं है। वह सुप्रीम पर ध्यान केंद्रित करने के लिए इस तरह आत्म एहसास हुआ व्यक्ति, असीमित खुशी प्राप्त है।

Chapter 5 Verse 22

Chapter Name -Karma-yoga--Action in Krsna Consciousness

Sanskrit English

ye hi samsarsa-ja bhoga
duhkha-yonaya eva te
ady-antavantah kaunteya
na tesu ramate budhah

Simple Interpretation

An intelligent person does not take part in the sources of misery, which are due to contact with the material senses. O son of Kunti, such pleasures have a beginning and an end, and so the wise man does not delight in them.

Hindi Interpretation

एक बुद्धिमान व्यक्ति सामग्री होश के साथ संपर्क करने के कारण कर रहे हैं, जो दुख के स्रोतों में हिस्सा नहीं ले करता है। कुंती के हे पुत्र, इस तरह के सुखों एक शुरुआत और अंत है, और इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति उन्हें प्रसन्न नहीं है।

Chapter 5 Verse 23

Chapter Name -Karma-yoga--Action in Krsna Consciousness

Sanskrit English

saknotihaiva yah sodhum
prak sarira-vimoksanat
kama-krodhodbhavam vegam
sa yuktah sa sukhi narah

Simple Interpretation

Before giving up this present body, if one is able to tolerate the urges of the material senses and check the force of desire and anger, he is a yogi and is happy in this world.

Hindi Interpretation

एक सामग्री इंद्रियों के आग्रह को सहन और इच्छा और क्रोध के बल जाँच करने में सक्षम है, तो इस वर्तमान शरीर देने से पहले, वह एक योगी है और इस दुनिया में खुश है।

Chapter 5 Verse 24

Chapter Name -Karma-yoga--Action in Krsna Consciousness

Sanskrit English

yo 'ntah-sukho 'ntar-aramas
tathantar-jyotir eva yah
sa yogi brahma-nirvanam
brahma-bhuto 'dhigacchati

Simple Interpretation

One whose happiness is within, who is active within, who rejoices within and is illumined within, is actually the perfect mystic. He is liberated in the Supreme, and ultimately he attains the Supreme.

Hindi Interpretation

भीतर प्रसन्न होता है और भीतर प्रकाशित कर रहा है जो भीतर सक्रिय है जो जिसकी खुशी के भीतर है एक, वास्तव में सही रहस्यवादी है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम में मुक्त है, और अंततः वह सुप्रीम उपलब्ध हो जाता है।

Chapter 5 Verse 25

Chapter Name -Karma-yoga--Action in Krsna Consciousness

Sanskrit English

labhante brahma-nirvanam
rsayah ksina-kalmasah
chinna-dvaidha yatatmanah
sarva-bhuta-hite ratah

Simple Interpretation

One who is beyond duality and doubt, whose mind is engaged within, who is always busy working for the welfare of all sentient beings, and who is free from all sins, achieves liberation in the Supreme.

Hindi Interpretation

जिसका मन के भीतर लगी हुई है, सभी संवेदनशील प्राणी के कल्याण के लिए काम कर रहा हमेशा व्यस्त रहता है, जो है, और जो है मुक्त सभी पापों से द्वंद्व और संदेह से परे है जो एक, सुप्रीम में मुक्ति को प्राप्त होता है।

Chapter 5 Verse 26

Chapter Name -Karma-yoga--Action in Krsna Consciousness

Sanskrit English

kama-krodha-vimuktanam
yatinam yata-cetasam
abhito brahma-nirvanam
vartate viditatmanam

Simple Interpretation

Those who are free from anger and all material desires, who are self-realized, self-disciplined and constantly endeavoring for perfection, are assured of liberation in the Supreme in the very near future.

Hindi Interpretation

, क्रोध और आत्म एहसास है, खुद को अनुशासित और लगातार पूर्णता के लिए प्रयास कर रहे हैं जो सभी भौतिक इच्छाओं से मुक्त कर रहे हैं जो लोग बहुत निकट भविष्य में सुप्रीम में मुक्ति का आश्वासन दिया है।

Chapter 5 Verse 27-28

Chapter Name -Karma-yoga--Action in Krsna Consciousness

Sanskrit English

sparsan krtva bahir bahyams
caksus caivantare bhruvoh
pranapanau samau krtva
nasabhyantara-carinau

yatendriya-mano-buddhir
munir moksa-parayanah
vigateccha-bhaya-krodho
yah sada mukta eva sah

Simple Interpretation

Shutting out all external sense objects, keeping the eyes and vision concentrated between the two eyebrows, suspending the inward and outward breaths within the nostrils--thus controlling the mind, senses and intelligence, the transcendentalist becomes free from desire, fear and anger. One who is always in this state is certainly liberated.

Hindi Interpretation

नाक के भीतर आवक और जावक साँस निलंबित, दो भौंहों के बीच केंद्रित आँखें और दृष्टि रखते हुए सभी बाहरी भावना वस्तुओं बाहर बंद - इस प्रकार मन, इंद्रिय और खुफिया को नियंत्रित करने, transcendentalist इच्छा, भय और क्रोध से मुक्त हो जाता है। इस राज्य में हमेशा से रहा है, जो एक निश्चित रूप से मुक्त है

Chapter 5 Verse 29

Chapter Name -Karma-yoga--Action in Krishna Consciousness

Sanskrit English

bhoktaram yajna-tapasam
sarva-loka-mahesvaram
suhrdam sarva-bhutanam
jnatva mam santim rcchati

Simple Interpretation

The sages, knowing Me as the ultimate purpose of all sacrifices and austerities, the Supreme Lord of all planets and demigods and the benefactor and well-wisher of all living entities, attain peace from the pangs of material miseries.

Hindi Interpretation

संतों, सभी बलिदानों और तपस्या का परम उद्देश्य के रूप में मुझे जानकारी है, सभी ग्रहों और demigods के सुप्रीम प्रभु और परोपकारी और सभी जीवित संस्थाओं के शुभचिंतक, सामग्री दुख के कष्ट से शांति प्राप्त।

Chapter 6 Verse 1

Chapter Name -Sankhya-yoga

Sanskrit English

sri-bhagavan uvaca
anasritah karma-phalam
karyam karma karoti yah

sa sannyasi ca yogi ca
na niragnir na cakriyah

Simple Interpretation

The Blessed Lord said: One who is unattached to the fruits of his work and who works as he is obligated is in the renounced order of life, and he is the true mystic: not he who lights no fire and performs no work.

Hindi Interpretation

धन्य है प्रभु ने कहा: अपने काम के फल को स्वाधीन है और वह बाध्य है के रूप में, जो जीवन का त्याग क्रम में काम करता है, और वह सच रहस्यवादी है जो एक: नहीं वह कोई आग जलाता है और कोई काम करता है, जो।

Chapter 6 Verse 2

Chapter Name -Sankhya-yoga

Sanskrit English

yam sannyasam iti prahur
yogam tam viddhi pandava
na hy asannyasta-sankalpo
yogi bhavati kascana

Simple Interpretation

What is called renunciation is the same as yoga, or linking oneself with the Supreme, for no one can become a yogi unless he renounces the desire for sense gratification.

Hindi Interpretation

क्या त्याग कहा जाता है योग, या वह भावना संतुष्टि के लिए इच्छा त्याग, जब तक कि कोई भी एक योगी बन सकता है के लिए, सुप्रीम के साथ अपने आप को जोड़ने के रूप में ही है।

Chapter 6 Verse 3

Chapter Name -Sankhya-yoga

Sanskrit English

aruruksor muner yogam
karma karanam ucyate
yogarudhasya tasyaiva
samah karanam ucyate

Simple Interpretation

For one who is a neophyte in the eightfold yoga system, work is said to be the means; and for one who has already attained to yoga, cessation of all material activities is said to be the means.

Hindi Interpretation

Eightfold योग प्रणाली में एक नौसिखिया है जो एक के लिए, काम का मतलब होने के लिए कहा जाता है; और पहले से ही योग करने के लिए प्राप्त कर ली है, जो एक के लिए, सभी सामग्री गतिविधियों की समाप्ति साधन होने के लिए कहा जाता है।

Chapter 6 Verse 4
Chapter Name -Sankhya-yoga

Sanskrit English
yada hi nendriyarthesu
na karmasv anusajjate
sarva-sankalpa-sannyasi
yogarudhas tadocyate

Simple Interpretation
A person is said to be have attained to yoga when, having renounced all material desires, he neither acts for sense gratification nor engages in fruitive activities.

Hindi Interpretation
एक व्यक्ति को वह भावना संतुष्टि के लिए काम करता है और न ही fruitive गतिविधियों में संलग्न है, न तो सभी भौतिक इच्छाओं का त्याग करने के बाद, जब योग को प्राप्त किया है करने के लिए कहा जाता है।

Chapter 6 Verse 5
Chapter Name -Sankhya-yoga

Sanskrit English
uddhared atmanatmanam
natmanam avasadayet
atmaiva hy atmano bandhur
atmaiva ripur atmanah

Simple Interpretation
A man must elevate himself by his own mind, not degrade himself. The mind is the friend of the conditioned soul, and his enemy as well.

Hindi Interpretation
एक आदमी खुद को नीचा दिखाना नहीं, अपने ही मन से खुद को ऊपर उठाना चाहिए। मन वातानुकूलित आत्मा का दोस्त है, और अपने दुश्मन के रूप में अच्छी तरह से।

Chapter 6 Verse 6
Chapter Name -Sankhya-yoga

Sanskrit English
bandhur atmatmanas tasya
yenatmaivatmana jitah
anatmanas tu satrutve
vartetatmaiva satru-vat

Simple Interpretation
For him who has conquered the mind, the mind is the best of friends; but for one who has failed to do so, his

very mind will be the greatest enemy.

Hindi Interpretation

मन पर विजय प्राप्त की है, जो उसके लिए, मन दोस्तों का सबसे अच्छा है; असफल हो गया है, जो एक ऐसा करने के लिए, लेकिन, उसकी बहुत मन सबसे बड़ी दुश्मन हो जाएगा।

Chapter 6 Verse 7

Chapter Name -Sankhya-yoga

Sanskrit English

jitatmanah prasantasya
paramatma samahitah
sitosna-sukha-duhkhesu
tatha manapamanayoh

Simple Interpretation

For one who has conquered the mind, the Supersoul is already reached, for he has attained tranquility. To such a man happiness and distress, heat and cold, honor and dishonor are all the same.

Hindi Interpretation

वह शांति प्राप्त कर ली है के लिए मन पर विजय प्राप्त की है जो एक के लिए, Supersoul पहले से ही पहुंच गया है। इस तरह के एक आदमी खुशी और संकट, गर्मी और सर्दी, सम्मान और अपमान करने के लिए सब एक ही हैं।

Chapter 6 Verse 8

Chapter Name -Sankhya-yoga

Sanskrit English

jnana-vijnana-trptatma
kuta-stho vijitendriyah
yukta ity ucyate yogi
sama-lostrasma-kancanah

Simple Interpretation

A person is said to be established in self-realization and is called a yogi [or mystic] when he is fully satisfied by virtue of acquired knowledge and realization. Such a person is situated in transcendence and is self-controlled. He sees everything--whether it be pebbles, stones or gold--as the same.

Hindi Interpretation

एक व्यक्ति को आत्म-साक्षात्कार में स्थापित होने के लिए कहा जाता है और वह अर्जित ज्ञान और प्राप्ति के आधार पर पूरी तरह से संतुष्ट हो जाता है जब एक योगी [या फकीर] कहा जाता है। इस तरह के एक व्यक्ति अतिक्रमण में स्थित है और आत्म-नियंत्रित है। वह सब कुछ देखता है - यह कंकड़, पत्थर या सोने - चाहे वह उसी के रूप में

Chapter 6 Verse 9

Chapter Name -Sankhya-yoga

Sanskrit English
suhrn-mitrary-udasina-
madhyastha-dvesya-bandhusu
sadhusv api ca papesu
sama-buddhir visisyate

Simple Interpretation

A person is said to be still further advanced when he regards all--the honest well-wisher, friends and enemies, the envious, the pious, the sinner and those who are indifferent and impartial--with an equal mind.

Hindi Interpretation

ईमानदार शुभचिंतक, दोस्तों और दुश्मनों, ईर्ष्या, पवित्र, पापी और उदासीन और निष्पक्ष रहे हैं जो उन - - एक समान दिमाग के साथ "एक व्यक्ति वह सभी का संबंध है जब अभी भी आगे उन्नत होने के लिए कहा जाता है।

Chapter 6 Verse 10
Chapter Name -Sankhya-yoga

Sanskrit English
yogi yunjita satatam
atmanam rahasi sthitah
ekaki yata-cittatma
nirasir aparigraha

Simple Interpretation

A transcendentalist should always try to concentrate his mind on the Supreme Self; he should live alone in a secluded place and should always carefully control his mind. He should be free from desires and feelings of possessiveness.

Hindi Interpretation

एक transcendentalist हमेशा सुप्रीम स्व पर अपने मन ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करनी चाहिए; वह एक सुनसान जगह में अकेले रहना चाहिए और हमेशा ध्यान से अपने मन पर नियंत्रण करना चाहिए। उन्होंने कहा कि इच्छाओं और अधिकार की भावना की भावनाओं से मुक्त किया जाना चाहिए।

Chapter 6 Verse 41955
Chapter Name -Sankhya-yoga

Sanskrit English
sucou dese pratisthapy
sthiram asanam atmanah
naty-ucchritam nati-nicam
cailajina-kusottaram

tatraikagram manah krtva
yata-cittendriya-kriyah

upavisyasane yunjyad
yogam atma-visuddhaye

Simple Interpretation

To practice yoga, one should go to a secluded place and should lay kusa-grass on the ground and then cover it with a deerskin and a soft cloth. The seat should neither be too high nor too low and should be situated in a sacred place. The yogi should then sit on it very firmly and should practice yoga by controlling the mind and the senses, purifying the heart and fixing the mind on one point.

Hindi Interpretation

योग का अभ्यास करने के लिए, एक एक सुनसान जगह पर जाना चाहिए और जमीन पर कुश घास रखना और फिर एक साबर और एक नरम कपड़े से कवर किया जाना चाहिए। सीट न तो बहुत अधिक और न ही बहुत कम किया जाना चाहिए और एक पवित्र स्थान में स्थित होना चाहिए। योगी तो बहुत मजबूती से उस पर बैठना चाहिए और, मन और इंद्रियों को नियंत्रित करने के हृदय शुद्ध और एक बिंद

Chapter 6 Verse 13-14
Chapter Name -Sankhya-yoga

Sanskrit English
samam kaya-siro-grivam
dharayann acalam sthirah
sampireksya nasikagram svam
disas canavalokayan

prasantatma vigata-bhir
brahmacari-vrate sthitah
manah samyamya mac-citto
yukta asita mat-parah

Simple Interpretation

One should hold one's body, neck and head erect in a straight line and stare steadily at the tip of the nose. Thus, with an unagitated, subdued mind, devoid of fear, completely free from sex life, one should meditate upon Me within the heart and make Me the ultimate goal of life.

Hindi Interpretation

एक के बाद एक के शरीर, गर्दन और सिर एक सीधी रेखा में खड़ा करना और नाक की नोक पर तेजी से ताक धारण करना चाहिए। इस प्रकार, यौन जीवन से पूरी तरह से मुक्त एक unagitated, वश मन, भय से रहित, साथ, एक दिल के भीतर मुझे पर ध्यान और मुझे जीवन का अंतिम लक्ष्य बनाना चाहिए।

Chapter 6 Verse 15
Chapter Name -Sankhya-yoga

Sanskrit English
yunjann evam sadatmanam
yogi niyata-manasah
santim nirvana-paramam

mat-samstham adhigacchati

Simple Interpretation

Thus practicing control of the body, mind and activities, the mystic transcendentalist attains to the kingdom of God [or the abode of Krsna] by cessation of material existence.

Hindi Interpretation

इस प्रकार शरीर, मन और गतिविधियों के नियंत्रण का अभ्यास, रहस्यवादी transcendentalist सामग्री अस्तित्व की समाप्ति के द्वारा परमेश्वर के राज्य [या कृष्ण के निवास] को पा लेता है।

Chapter 6 Verse 16

Chapter Name -Sankhya-yoga

Sanskrit English

naty-asnatas 'tu yogo 'sti
na caikantam anasnatah
na cati-svapna-silasya
jagrato naiva carjuna

Simple Interpretation

There is no possibility of one's becoming a yogi, O Arjuna, if one eats too much, or eats too little, sleeps too much or does not sleep enough.

Hindi Interpretation

एक के एक योगी बनने की कोई संभावना नहीं है, हे अर्जुन, एक बहुत अधिक खाता है, या बहुत कम, बहुत अधिक सोता है या पर्याप्त नींद नहीं करता खाती है।

Chapter 6 Verse 17

Chapter Name -Sankhya-yoga

Sanskrit English

yuktahara-viharasya
yukta-cestasya karmasu
yukta-svapnavabodhasya
yogo bhavati dukkha-ha

Simple Interpretation

He who is temperate in his habits of eating, sleeping, working and recreation can mitigate all material pains by practicing the yoga system.

Hindi Interpretation

खाने, सो, काम और मनोरंजन योग प्रणाली का अभ्यास करके सभी सामग्री दर्द को कम कर सकते हैं के बारे में उनकी आदतों में समशीतोष्ण है वह जो।

Chapter 6 Verse 18
Chapter Name -Sankhya-yoga

Sanskrit English
yada viniyatam cittam
atmany evavatisthate
nisprah sarva-kamebhyo
yukta ity ucyate tada

Simple Interpretation

When the yogi, by practice of yoga, disciplines his mental activities and becomes situated in Transcendence-- devoid of all material desires--he is said to have attained yoga.

Hindi Interpretation

योगी, योग के अभ्यास से, उसकी मानसिक गतिविधियों विषयों और अतिक्रमण में स्थित हो जाता है - सभी सामग्री इच्छाओं से रहित है - वह योग प्राप्त किया है कहा जाता है।

Chapter 6 Verse 19
Chapter Name -Sankhya-yoga

Sanskrit English
yatha dipo nivata-stho
nengate sopama smrta
yogino yata-cittasya
yunjato yogam atmanah

Simple Interpretation

As a lamp in a windless place does not waver, so the transcendentalist, whose mind is controlled, remains always steady in his meditation on the transcendent Self.

Hindi Interpretation

डगमगाने नहीं करता है एक windless जगह में एक दीपक, इसलिए जिसका मन नियंत्रित किया जाता है transcendentalist, के रूप में, उत्कृष्ट स्व पर उसका ध्यान में हमेशा से स्थिर बनी हुई है।

Chapter 6 Verse 20-23
Chapter Name -Sankhya-yoga

Sanskrit English
yatroparamate cittam
niruddham yoga-sevaya
yatra caivatmanatmanam
pasyann atmani tusyati

sukham atyantikam yat tad
buddhi-grahyam atindriyam
vetti yatra na caivayam
sthitas calati tattvatah

yam labdhva caparam labham
manyate nadhikam tatah
yasmin sthito na duhkkena
gurunapi vicalyate

tam vidyad duhkha-samyoga-
viyogam yoga-samjnitam

Simple Interpretation

The stage of perfection is called trance, or samadhi, when one's mind is completely restrained from material mental activities by practice of yoga. This is characterized by one's ability to see the self by the pure mind and to relish and rejoice in the self. In that joyous state, one is situated in boundless transcendental happiness and enjoys himself through transcendental senses. Established thus, one never departs from the truth and upon gaining this he thinks there is no greater gain. Being situated in such a position, one is never shaken, even in the midst of greatest difficulty. This indeed is actual freedom from all miseries arising from material contact.

Hindi Interpretation

किसी के मन पूरी तरह से योग के अभ्यास के द्वारा सामग्री मानसिक गतिविधियों से रोका जाता है जब पूर्णता के मंच, ट्रांस कहा जाता है, या समाधि है। यह शुद्ध मन से स्वयं को देखने के लिए और स्वाद और स्वयं में आनन्दित करने की क्षमता की विशेषता है। खुशी है कि राज्य में, एक असीम दिव्य खुशी में स्थित है और दिव्य इंद्रियों के माध्यम से खुद को प्राप्त है। इस प्रकार, एक कभी नहीं सच्चाई से और

Chapter 6 Verse 24

Chapter Name -Sankhya-yoga

Sanskrit English

sa niscayena yuktavyo
yogo 'nirvinna-cetasa
sankalpa-prabhavan kamams
tyaktva sarvan asesatah
manasaivendriya-gramam
viniyamya samantatah

Simple Interpretation

One should engage oneself in the practice of yoga with undeviating determination and faith. One should abandon, without exception, all material desires born of false ego and thus control all the senses on all sides by the mind.

Hindi Interpretation

एक दृढ़ संकल्प और विश्वास undeviating के साथ योग के अभ्यास में किसी को शामिल करना चाहिए। एक, बिना किसी अपवाद के, झूठे अहंकार का जन्म सभी भौतिक इच्छाओं छोड़ देना चाहिए और इस प्रकार मन से सभी पक्षों पर सभी इंद्रियों पर नियंत्रण करना चाहिए।

Chapter 6 Verse 25

Chapter Name -Sankhya-yoga

Sanskrit English
sanaih sanair upamed
buddhya dhrti-grhitaya
atma-samstham manah krtva
na kincid api cintayet

Simple Interpretation

Gradually, step by step, with full conviction, one should become situated in trance by means of intelligence, and thus the mind should be fixed on the Self alone and should think of nothing else.

Hindi Interpretation

धीरे धीरे, कदम से कदम, पूर्ण विश्वास के साथ, एक खुफिया के माध्यम से समाधि में स्थित हो जाना चाहिए, और इस प्रकार मन अकेला स्व पर तय की जानी चाहिए और कुछ नहीं के बारे में सोचना चाहिए।

Chapter 6 Verse 26
Chapter Name -Sankhya-yoga

Sanskrit English
yato yato niscalati
manas cancelam asthiram
tatas tato niyamyaitad
atmany eva vasam nayet

Simple Interpretation

From whatever and wherever the mind wanders due to its flickering and unsteady nature, one must certainly withdraw it and bring it back under the control of the Self.

Hindi Interpretation

मन अपने चंचल और अस्थिर स्वभाव के कारण भटक जहाँ भी जो कुछ से, एक निश्चित रूप से इसे वापस लेने चाहिए और और स्वयं के नियंत्रण में वापस लाने के लिए।

Chapter 6 Verse 27
Chapter Name -Sankhya-yoga

Sanskrit English
prasanta-manasam hy enam
yoginam sukham uttamam
upaiti santa-rajasm
brahma-bhutam akalmasam

Simple Interpretation

The yogi whose mind is fixed on Me verily attains the highest happiness. By virtue of his identity with Brahman, he is liberated; his mind is peaceful, his passions are quieted, and he is freed from sin.

Hindi Interpretation

जिसका मन मुझ पर तय हो गई है योगी वास्तव में सर्वोच्च खुशी पा लेता है। ब्रह्म के साथ अपनी पहचान के आधार पर, वह

मुक्त है; उनके मन में अपने जुनून को ठण्डा कर रहे हैं, और वह पाप से मुक्त है, शांतिपूर्ण है।

Chapter 6 Verse 28
Chapter Name -Sankhya-yoga

Sanskrit English
yunjann evam sadatmanam
yogi vigata-kalmasah
sukhena brahma-samsparsam
atyantam sukham asnute

Simple Interpretation
Steady in the Self, being freed from all material contamination, the yogi achieves the highest perfectional stage of happiness in touch with the Supreme Consciousness.

Hindi Interpretation
स्व में संभल, सभी सामग्री के संक्रमण से मुक्त किया जा रहा है, योगी सुप्रीम चेतना के साथ संपर्क में खुशी का उच्चतम perfectional मंच प्राप्त होता है।

Chapter 6 Verse 29
Chapter Name -Sankhya-yoga

Sanskrit English
sarva-bhuta-stham atmanam
sarva-bhutani catmani
iksate yoga-yuktatma
sarvatra sama-darsanah

Simple Interpretation
A true yogi observes Me in all beings, and also sees every being in Me. Indeed, the self-realized man sees Me everywhere.

Hindi Interpretation
एक सच्चा योगी सभी प्राणियों में मुझे देखने को मिलती है, और यह भी मुझ में हर जा रहा है देखता है। दरअसल, आत्म एहसास हुआ आदमी हर जगह मुझे देखता है।

Chapter 6 Verse 30
Chapter Name -Sankhya-yoga

Sanskrit English
yo mam pasyati sarvatra
sarvam ca mayi pasyati
tasyaham na pranasyami
sa ca me na pranasyati

Simple Interpretation

For one who sees Me everywhere and sees everything in Me, I am never lost, nor is he ever lost to Me.

Hindi Interpretation

हर जगह मुझे देखता है और मुझ में सब कुछ देखता है जो एक के लिए, मैं हार कभी नहीं हूँ, न ही वह कभी भी मेरे लिए खो दिया है।

Chapter 6 Verse 31

Chapter Name -Sankhya-yoga

Sanskrit English

sarva-bhuta-sthitam yo mam
bhajaty ekatvam asthitah
sarvatha vartamano 'pi
sa yogi mayi vartate

Simple Interpretation

The yogi who knows that I and the Supersoul within all creatures are one worships Me and remains always in Me in all circumstances.

Hindi Interpretation

मैं और सभी प्राणियों के भीतर Supersoul एक ने मुझे पूजा और सभी परिस्थितियों में मुझ में हमेशा रहता है कि कौन जानता है कि योगी।

Chapter 6 Verse 32

Chapter Name -Sankhya-yoga

Sanskrit English

atmaupamyena sarvatra
samam pasyati yo 'rjuna
sukham va yadi va dukkham
sa yogi paramo matah

Simple Interpretation

He is a perfect yogi who, by comparison to his own self, sees the true equality of all beings, both in their happiness and distress, O Arjuna!

Hindi Interpretation

वह अपने स्वयं की तुलना द्वारा, उनकी खुशी और संकट, हे अर्जुन, दोनों में सभी प्राणियों के सच्चे समानता देखता है जो एक सही योगी है!

Chapter 6 Verse 33

Chapter Name -Sankhya-yoga

Sanskrit English
arjuna uvaca
yo 'yam yogas tvaya proktah
samyena madhusudana
etasyaham na pasyami
cancalatvat sthitim sthiram

Simple Interpretation

Arjuna said: O Madhusudana, the system of yoga which You have summarized appears impractical and unendurable to me, for the mind is restless and unsteady.

Hindi Interpretation

अर्जुन ने कहा: मन बेचैन और अस्थिर है के लिए हे मधुसूदन, आप का सार है, जो योग की प्रणाली, मेरे लिए अव्यावहारिक और बेहद प्रकट होता है।

Chapter 6 Verse 34
Chapter Name -Sankhya-yoga

Sanskrit English
cancalam hi manah krsna
pramathi balavad drdham
tasyaham nigraham manye
vayor iva su-duskaram

Simple Interpretation

For the mind is restless, turbulent, obstinate and very strong, O Krsna, and to subdue it is, it seems to me, more difficult than controlling the wind.

Hindi Interpretation

मन बेचैन अशांत, हठी और बहुत मजबूत है, हे कृष्ण, और यह है, यह मुझे लगता है, हवा को नियंत्रित करने की तुलना में अधिक कठिन है वश में करने के लिए।

Chapter 6 Verse 35
Chapter Name -Sankhya-yoga

Sanskrit English
sri-bhagavan uvaca
asamsayam maha-baho
mano durnigraham calam
abhyasena tu kaunteya
vairagyena ca grhyate

Simple Interpretation

The Blessed Lord said: O mighty-armed son of Kunti, it is undoubtedly very difficult to curb the restless mind, but it is possible by constant practice and by detachment.

Hindi Interpretation

धन्य है प्रभु ने कहा: कुंती के शक्तिशाली हथियारों से लैस बेटा है, यह बेचैन मन पर अंकुश लगाने के लिए निस्संदेह बहुत मुश्किल है, लेकिन यह निरंतर अभ्यास से और सेना की टुकड़ी के द्वारा ही संभव है।

Chapter 6 Verse 36
Chapter Name -Sankhya-yoga

Sanskrit English
asamyatatmana yogo
dusprapa iti me matih
vasyatmana tu yatata
sakyo 'vaptum upayatah

Simple Interpretation
For one whose mind is unbridled, self-realization is difficult work. But he whose mind is controlled and who strives by right means is assured of success. That is My opinion.

Hindi Interpretation
जिसका मन निरंकुश है एक के लिए, आत्म-साक्षात्कार के लिए मुश्किल काम है। लेकिन जिसका मन नियंत्रित किया जाता है और जो प्रयास सही साधन के द्वारा वह सफलता का आश्वासन दिया है। यही कारण है कि मेरी राय है।

Chapter 6 Verse 37
Chapter Name -Sankhya-yoga

Sanskrit English
arjuna uvaca
ayatih sraddhayopeto
yogac calita-manasah
aprapya yoga-samsiddhim
kam gatim krsna gacchati

Simple Interpretation
Arjuna said: What is the destination of the man of faith who does not persevere, who in the beginning takes to the process of self-realization but who later desists due to worldly-mindedness and thus does not attain perfection in mysticism?

Hindi Interpretation
अर्जुन ने कहा: रहस्यवाद में पूर्णता प्राप्त नहीं करता है, इस प्रकार शुरुआत में आत्म-साक्षात्कार की प्रक्रिया के लिए लेता है, लेकिन बाद में जो कारण सांसारिक उदारता के लिए desists और जो दृढ़ रहना नहीं करता है जो विश्वास के आदमी, गंतव्य क्या है?

Chapter 6 Verse 38
Chapter Name -Sankhya-yoga

Sanskrit English

kaccin nobhaya-vibhrastas
chinnabhram iva nasyati
apratistho maha-baho
vimudho brahmanah pathi

Simple Interpretation

O mighty-armed Krsna, does not such a man, being deviated from the path of Transcendence, perish like a riven cloud, with no position in any sphere?

Hindi Interpretation

शक्तिशाली हथियारों से लैस कृष्ण है, इस तरह के एक आदमी, अतिक्रमण की राह से भटक नहीं किया जा रहा है, किसी भी क्षेत्र में कोई स्थिति के साथ, एक विखंडित बादल की तरह नष्ट हो?

Chapter 6 Verse 39

Chapter Name -Sankhya-yoga

Sanskrit English

etan me samsayam krsna
chettum arhasy asesatah
tvad-anyah samsayasyasya
chetta na hy upapadyate

Simple Interpretation

This is my doubt, O Krsna, and I ask You to dispel it completely. But for Yourself, no one is to be found who can destroy this doubt.

Hindi Interpretation

यह मेरा संदेह नहीं है, हे कृष्ण है, और मैं पूरी तरह से इसे दूर करने के लिए आप से पूछना। लेकिन खुद के लिए, कोई भी इस संदेह को नष्ट कर सकते हैं, जो पाया जा सकता है।

Chapter 6 Verse 40

Chapter Name -Sankhya-yoga

Sanskrit English

sri-bhagavan uvaca
partha naiveha namutra
vinasas tasya vidyate
na hi kalyana-krt kascid
durgatim tata gacchati

Simple Interpretation

The Blessed Lord said: Son of Prtha, a transcendentalist engaged in auspicious activities does not meet with destruction either in this world or in the spiritual world; one who does good, My friend, is never overcome by evil.

Hindi Interpretation

धन्य है प्रभु ने कहा: बेटा Prtha की, एक transcendentalist विनाश इस दुनिया में या आध्यात्मिक दुनिया में किसी के साथ

पूरा नहीं करता शुभ गतिविधियों में लगे; अच्छा करता है जो एक, मेरे दोस्त, बुराई से उबरने कभी नहीं रहा है।

Chapter 6 Verse 41
Chapter Name -Sankhya-yoga

Sanskrit English
prapya punya-krtam lokan
usitva sasvatih samah
sucinam srimatam gehe
yoga-bhrasto 'bhijayate

Simple Interpretation
The unsuccessful yogi, after many, many years of enjoyment on the planets of the pious living entities, is born into a family of righteous people, or into a family of rich aristocracy.

Hindi Interpretation
असफल योगी, पवित्र रहने वाले संस्थाओं के ग्रहों पर आनंद के कई, कई वर्षों के बाद, धर्मी लोगों के एक परिवार में पैदा हुआ था, या अमीर अभिजात वर्ग के एक परिवार में है।

Chapter 6 Verse 42
Chapter Name -Sankhya-yoga

Sanskrit English
atha va yoginam eva
kule bhavati dhimatam
etad dhi durlabhataram
loke janma yad idrsam

Simple Interpretation
Or he takes his birth in a family of transcendentalists who are surely great in wisdom. Verily, such a birth is rare in this world.

Hindi Interpretation
या वह ज्ञान में निश्चित रूप से महान हैं जो transcendentalists के एक परिवार में उनके जन्म लेता है। वास्तव में, इस तरह के एक जन्म इस दुनिया में दुर्लभ है।

Chapter 6 Verse 43
Chapter Name -Sankhya-yoga

Sanskrit English
tatra tam buddhi-samyogam
labhate paurva-dehikam
yatate ca tato bhuyah
samsiddhau kuru-nandana

Simple Interpretation

On taking such a birth, he again revives the divine consciousness of his previous life, and he tries to make further progress in order to achieve complete success, O son of Kuru.

Hindi Interpretation

इस तरह के एक जन्म लेने पर, वह फिर से अपने पिछले जीवन की दिव्य चेतना जान, और वह पूरी तरह सफल, कुरु के हे पुत्र को प्राप्त करने के क्रम में आगे प्रगति करने की कोशिश करता है।

Chapter 6 Verse 44

Chapter Name -Sankhya-yoga

Sanskrit English

purvabhyasena tenaiva
hriyate hy avaso 'pi sah
jijnasur api yogasya
sabda-brahmativartate

Simple Interpretation

By virtue of the divine consciousness of his previous life, he automatically becomes attracted to the yogic principles--even without seeking them. Such an inquisitive transcendentalist, striving for yoga, stands always above the ritualistic principles of the scriptures.

Hindi Interpretation

अपने पिछले जीवन की दिव्य चेतना के आधार पर, वह अपने आप योग सिद्धांतों की ओर आकर्षित हो जाता है - यहां तक कि उन्हें मांग के बिना। इस तरह के एक जिज्ञासु transcendentalist, योग के लिए प्रयास कर रहा है, हमेशा शास्त्रों के कर्मकांडों सिद्धांतों से ऊपर खड़ा है।

Chapter 6 Verse 45

Chapter Name -Sankhya-yoga

Sanskrit English

prayatnad yatamanas tu
yogi samsuddha-kilbisah
aneka-janma-samsiddhas
tato yati param gatim

Simple Interpretation

But when the yogi engages himself with sincere endeavor in making further progress, being washed of all contaminations, then ultimately, after many, many births of practice, he attains the supreme goal.

Hindi Interpretation

योगी सभी संदूषण की धोया जा रहा है, आगे प्रगति करने में ईमानदारी से प्रयास के साथ खुद को संलग्न है लेकिन जब, तो अंत में, अभ्यास के बहुत से, कई जन्मों के बाद उन्होंने सर्वोच्च लक्ष्य को पा लेता है।

Chapter 6 Verse 46
Chapter Name -Sankhya-yoga

Sanskrit English
tapasvibhyo 'dhiko yogi
jnanibhyo 'pi mato 'dhikah
karmibhyas cadhiko yogi
tasmad yogi bhavarjuna

Simple Interpretation
A yogi is greater than the ascetic, greater than the empiricist and greater than the fruitive worker. Therefore, O Arjuna, in all circumstances, be a yogi.

Hindi Interpretation
एक योगी fruitive कार्यकर्ता से अनुभववादी से अधिक से अधिक, तपस्वी की तुलना में अधिक से अधिक और अधिक से अधिक है। इसलिए, हे अर्जुन, सभी परिस्थितियों में, एक योगी हो।

Chapter 6 Verse 47
Chapter Name -Knowledge of the Absolute

Sanskrit English
yoginam api sarvesam
mad-gatenantar-atmana
sraddhavan bhajate yo mam
sa me yuktatamo matah

Simple Interpretation
And of all yogis, he who always abides in Me with great faith, worshiping Me in transcendental loving service, is most intimately united with Me in yoga and is the highest of all.

Hindi Interpretation
और यह सब योगियों की, वह हमेशा की तरह, ट्रान्सेडेंटल प्यार सेवा में मुझे पूजा, महान विश्वास के साथ मुझ में abides, जो योग में मेरे साथ सबसे अच्छी यूनाइटेड है और सभी का सबसे अधिक है।

Chapter 7 Verse 1
Chapter Name -Knowledge of the Absolute

Sanskrit English
sri-bhagavan uvaca
mayy asakta-manah partha
yogam yunjan mad-asrayah
asamsayam samagram mam
yatha jnasyasi tac chrnu

Simple Interpretation
Now hear, O son of Prtha [Arjuna], how by practicing yoga in full consciousness of Me, with mind attached to Me, you can know Me in full, free from doubt.

Hindi Interpretation

अब Prtha के हे पुत्र [अर्जुन], मुझे कैसे संलग्न करने के लिए मन के साथ, मेरे पूरे होश में योग का अभ्यास करके, आप संदेह से मुक्त, पूर्ण में मुझे पता कर सकते हैं, सुनते हैं।

Chapter 7 Verse 2

Chapter Name -Knowledge of the Absolute

Sanskrit English

jnanam te 'ham sa-vijnanam
idam vaksyamy asesatah
yaj jnatva neha bhuyo 'nyaj
jnatavyam avasisyate

Simple Interpretation

I shall now declare unto you in full this knowledge both phenomenal and noumenal, by knowing which there shall remain nothing further to be known.

Hindi Interpretation

में अब नाम से जाना आगे कुछ भी नहीं रहेगा जो जानने के द्वारा पूर्ण में तुमसे कहता अभूतपूर्व और noumenal दोनों इस ज्ञान, घोषित करेगा।

Chapter 7 Verse 3

Chapter Name -Knowledge of the Absolute

Sanskrit English

manusyanam sahasresu
kascid yatati siddhaye
yatatam api siddhanam
kascin mam vetti tattvatah

Simple Interpretation

Out of many thousands among men, one may endeavor for perfection, and of those who have achieved perfection, hardly one knows Me in truth.

Hindi Interpretation

लोगों के बीच कई हजारों में से, एक पूर्णता के लिए प्रयास कर सकते हैं और पूर्णता प्राप्त कर ली है, जो उन लोगों की है, शायद ही एक सच में मुझे जानता है।

Chapter 7 Verse 4

Chapter Name -Knowledge of the Absolute

Sanskrit English

bhumir apo 'nalo vayuh

kham mano buddhir eva ca
ahankara itiyam me
bhinna prakrtir astadha

Simple Interpretation

Earth, water, fire, air, ether, mind, intelligence and false ego--all together these eight comprise My separated material energies.

Hindi Interpretation

पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और झूठे अहंकार - सब एक साथ इन आठ मेरा अलग सामग्री ऊर्जा शामिल हैं।

Chapter 7 Verse 5

Chapter Name -Knowledge of the Absolute

Sanskrit English

apareyam itas tv anyam
prakrtim viddhi me param
jiva-bhutam maha-baho
yayedam dharyate jagat

Simple Interpretation

Besides this inferior nature, O mighty-armed Arjuna, there is a superior energy of Mine, which are all living entities who are struggling with material nature and are sustaining the universe.

Hindi Interpretation

इस अवर प्रकृति, हे शक्तिशाली हथियारों से लैस अर्जुन के अलावा, सामग्री प्रकृति के साथ संघर्ष कर रहे हैं और ब्रह्मांड को बनाए रखने रहे हैं, जो सभी जीवित संस्थाओं हैं जो मेरा एक बेहतर ऊर्जा, वहाँ है।

Chapter 7 Verse 6

Chapter Name -Knowledge of the Absolute

Sanskrit English

etad-yonini bhutani
sarvanity upadharaya
aham krtsnasya jagatah
prabhavah pralayas tatha

Simple Interpretation

Of all that is material and all that is spiritual in this world, know for certain that I am both its origin and dissolution.

Hindi Interpretation

सभी सामग्री है कि और कहा कि सभी इस दुनिया में आध्यात्मिक है, मैं अपने मूल और विघटन दोनों हूँ कि कुछ के लिए पता।

Chapter 7 Verse 7

Chapter Name -Knowledge of the Absolute

Sanskrit English
mattah parataram nanyat
kincid asti dhananjaya
mayi sarvam idam protam
sutre mani-gana iva

Simple Interpretation

O conqueror of wealth [Arjuna], there is no Truth superior to Me. Everything rests upon Me, as pearls are strung on a thread.

Hindi Interpretation

धन के हे विजेता [अर्जुन], मुझसे बेहतर कोई सच्चाई नहीं है। मोती एक धागे पर महसूस कर रहे हैं के रूप में सब कुछ मुझ पर टिकी हुई है।

Chapter 7 Verse 8

Chapter Name -Knowledge of the Absolute

Sanskrit English
raso 'ham apsu kaunteya
prabhasmi sasi-suryayoh
pranavah sarva-vedesu
sabdah khe paurusam nrsu

Simple Interpretation

O son of Kunti [Arjuna], I am the taste of water, the light of the sun and the moon, the syllable om in the Vedic mantras; I am the sound in ether and ability in man.

Hindi Interpretation

कुंती [अर्जुन] के हे पुत्र, मैं पानी के स्वाद, सूर्य और चंद्रमा, वैदिक मंत्रों में शब्दांश ओम की रोशनी हूँ; मैं आदमी में आकाश और क्षमता में ध्वनि हूँ।

Chapter 7 Verse 9

Chapter Name -Knowledge of the Absolute

Sanskrit English
punyo gandhah prthivyam ca
tejas casmi vibhavasau
jivanam sarva-bhutesu
tapas casmi tapasvisu

Simple Interpretation

I am the original fragrance of the earth, and I am the heat in fire. I am the life of all that lives, and I am the penances of all ascetics.

Hindi Interpretation

में पृथ्वी के मूल खुशबू हूँ, और मैं आग में गर्मी हूँ। मैं रहता है कि सभी के जीवन हूँ, और मैं सभी संन्यासियों की तपस्या कर रहा हूँ।

Chapter 7 Verse 10

Chapter Name -Knowledge of the Absolute

Sanskrit English

bijam mam sarva-bhutanam
viddhi partha sanatanam
buddhir buddhimatam asmi
tejas tejasvinam aham

Simple Interpretation

O son of Prtha, know that I am the original seed of all existences, the intelligence of the intelligent, and the prowess of all powerful men.

Hindi Interpretation

Prtha के हे पुत्र, मैं सभी अस्तित्व के मूल बीज, बुद्धिमान की बुद्धि, और सभी शक्तिशाली पुरुषों के कौशल हूँ कि पता है।

Chapter 7 Verse 11

Chapter Name -Knowledge of the Absolute

Sanskrit English

balam balavatam caham
kama-raga-vivarjitam
dharmaviruddho bhutesu
kamo 'smi bharatarsabha

Simple Interpretation

I am the strength of the strong, devoid of passion and desire. I am sex life which is not contrary to religious principles, O Lord of the Bharatas [Arjuna].

Hindi Interpretation

मैं जुनून और इच्छा से रहित मजबूत की ताकत है, कर रहा हूँ। मैं धार्मिक सिद्धांतों के विपरीत नहीं है जो सेक्स जीवन, Bharatas [अर्जुन] के हे प्रभु हूँ।

Chapter 7 Verse 12

Chapter Name -Knowledge of the Absolute

Sanskrit English

ye caiva sattvika bhava
rajasas tamahas ca ye
matta eveti tan viddhi
na tv aham tesu te mayi

Simple Interpretation

All states of being--be they of goodness, passion or ignorance--are manifested by My energy. I am, in one sense, everything--but I am independent. I am not under the modes of this material nature.

Hindi Interpretation

होने के सभी राज्यों - अच्छाई, जुनून या अज्ञान के वे हो - मेरी ऊर्जा से प्रकट होते हैं। मैं एक भावना है, हर चीज में, कर रहा हूँ - लेकिन मैं स्वतंत्र हूँ। मैं इस सामग्री प्रकृति के मोड के तहत नहीं कर रहा हूँ।

Chapter 7 Verse 13

Chapter Name -Knowledge of the Absolute

Sanskrit English

tribhir guna-mayair bhavair
ebhiih sarvam idam jagat
mohitam nabhijanati
mam ebhyah param avyayam

Simple Interpretation

Deluded by the three modes [goodness, passion and ignorance], the whole world does not know Me who am above the modes and inexhaustible.

Hindi Interpretation

मोड और अटूट ऊपर हूँ जो तीन मोड [अच्छाई, जुनून और अज्ञान], पूरी दुनिया मुझे पता नहीं है द्वारा मोहित।

Chapter 7 Verse 14

Chapter Name -Knowledge of the Absolute

Sanskrit English

daivi hy esa guna-mayi
mama maya duratyaya
mam eva ye prapadyante
mayam etam taranti te

Simple Interpretation

This divine energy of Mine, consisting of the three modes of material nature, is difficult to overcome. But those who have surrendered unto Me can easily cross beyond it.

Hindi Interpretation

मेरी इस दिव्य ऊर्जा, सामग्री प्रकृति के तीन मोड से मिलकर, पर काबू पाने के लिए मुश्किल है। लेकिन मुझे पर्यंत आत्मसमर्पण कर दिया है जो लोग इसे आसानी से परे पार कर सकते हैं।

Chapter 7 Verse 15

Chapter Name -Knowledge of the Absolute

Sanskrit English

na mam duskrino mudhah
prapadyante naradhamah
mayayapahrta-jnana
asuram bhavam asritah

Simple Interpretation

Those miscreants who are grossly foolish, lowest among mankind, whose knowledge is stolen by illusion, and who partake of the atheistic nature of demons, do not surrender unto Me.

Hindi Interpretation

जिसका ज्ञान भ्रम से चोरी हो रही है, और जो राक्षसों के नास्तिक स्वभाव का हिस्सा लेना निहायत मूर्ख लोग हैं, जो शरारती तत्वों, मानव जाति में सबसे कम, मेरे पास आत्मसमर्पण नहीं करते।

Chapter 7 Verse 15

Chapter Name -Knowledge of the Absolute

Sanskrit English

na mam duskrino mudhah
prapadyante naradhamah
mayayapahrta-jnana
asuram bhavam asritah

Simple Interpretation

Those miscreants who are grossly foolish, lowest among mankind, whose knowledge is stolen by illusion, and who partake of the atheistic nature of demons, do not surrender unto Me

Hindi Interpretation

निहायत मूर्ख लोग हैं, जो शरारती तत्वों, जिसका ज्ञान भ्रम द्वारा चोरी, और जो है राक्षसों के नास्तिक स्वभाव का हिस्सा लेना मेरे पास आत्मसमर्पण नहीं करते मानव जाति, में सबसे कम

Chapter 7 Verse 16

Chapter Name -Knowledge of the Absolute

Sanskrit English

catur-vidha bhajante mam
janah sukrino 'rjuna
arto jijnasur arthartha
jnani ca bharatarsabha

Simple Interpretation

O best among the Bharatas [Arjuna], four kinds of pious men render devotional service unto Me--the distressed, the desirer of wealth, the inquisitive, and he who is searching for knowledge of the Absolute.

Hindi Interpretation

हे मुझे पर्यंत Bharatas [अर्जुन], पवित्र पुरुषों के चार प्रकार प्रस्तुत करना भक्ति सेवा के बीच सबसे अच्छा - धन का व्यथित, desirer, जिज्ञासु, और वह जो निरपेक्ष के ज्ञान के लिए खोज रहा है।

Chapter 7 Verse 17

Chapter Name -Knowledge of the Absolute

Sanskrit English
tesam jnani nitya-yukta
eka-bhaktir visisyate
priyo hi jnanino 'tyartham
aham sa ca mama priyah

Simple Interpretation

Of these, the wise one who is in full knowledge in union with Me through pure devotional service is the best. For I am very dear to him, and he is dear to Me.

Hindi Interpretation

इनमें से शुद्ध भक्ति सेवा के माध्यम से मेरे साथ संघ में पूर्ण ज्ञान में है जो बुद्धिमान एक सबसे अच्छा है। के लिए मैं उसे करने के लिए बहुत प्रिय हूँ, और वह मुझे प्रिय है।

Chapter 7 Verse 18

Chapter Name -Knowledge of the Absolute

Sanskrit English
udarah sarva evaite
jnani tv atmaiva me matam
asthitah sa hi yuktatma
mam evanuttamam gatim

Simple Interpretation

All these devotees are undoubtedly magnanimous souls, but he who is situated in knowledge of Me I consider verily to dwell in Me. Being engaged in My transcendental service, he attains Me.

Hindi Interpretation

इन सभी भक्तों निस्संदेह उदार आत्मा हैं, लेकिन मेरे ज्ञान में स्थित है, जो वह मैं मुझ में ध्यान केन्द्रित करने के लिए वास्तव में विचार करें। मेरा दिव्य सेवा में लगे हुए किया जा रहा है, वह मुझे पा लेता है।

Chapter 7 Verse 19

Chapter Name -Knowledge of the Absolute

Sanskrit English
bahunam janmanam ante
jnanavan mam prapadyate
vasudevah sarvam iti
sa mahatma su-durlabhah

Simple Interpretation

After many births and deaths, he who is actually in knowledge surrenders unto Me, knowing Me to be the cause

of all causes and all that is. Such a great soul is very rare.

Hindi Interpretation

ज्ञान मुझे सब कारणों के कारण हो, यह जानकर मुझे पर्यंत समर्पण और वह सब है में कई जन्म और मृत्यु के बाद उन्होंने जो वास्तव में है। इस तरह के एक महान आत्मा बहुत दुर्लभ है।

Chapter 7 Verse 20

Chapter Name -Knowledge of the Absolute

Sanskrit English

kamais tais tair hrta-jnanah
prapadyante 'nya-devatah
tam tam niyamam asthaya
prakrtya niyatah svaya

Simple Interpretation

Those whose minds are distorted by material desires surrender unto demigods and follow the particular rules and regulations of worship according to their own natures.

Hindi Interpretation

जिसका मन भौतिक इच्छाओं से विकृत कर रहे हैं उन लोगों के लिए अपने स्वयं के स्वभाव के अनुसार विशेष नियम और पूजा के नियमों demigods पर्यंत आत्मसमर्पण और का पालन करें।

Chapter 7 Verse 21

Chapter Name -Knowledge of the Absolute

Sanskrit English

yo yo yam yam tanum bhaktah
sraddhayarcitum icchati
tasya tasyacalam sraddham
tam eva vidadhamy aham

Simple Interpretation

I am in everyone's heart as the Supersoul. As soon as one desires to worship the demigods, I make his faith steady so that he can devote himself to some particular deity.

Hindi Interpretation

मैं Supersoul के रूप में हर किसी के दिल में हूँ। जैसे ही वह कुछ विशेष देवता के लिए खुद को समर्पित कर सकते हैं इतना है कि मैं अपने विश्वास स्थिर बनाने के लिए, demigods के पूजा करने के लिए इच्छाओं के रूप में।

Chapter 7 Verse 22

Chapter Name -Knowledge of the Absolute

Sanskrit English

sa taya sraddhaya yuktas
tasyaradhanam ihate
labhate ca tatah kaman
mayaiva vihitan hi tan

Simple Interpretation

Endowed with such a faith, he seeks favors of a particular demigod and obtains his desires. But in actuality these benefits are bestowed by Me alone.

Hindi Interpretation

इस तरह के एक विश्वास के साथ संपन्न है, वह एक विशेष यक्ष के एहसान करना चाहता है और अपनी इच्छाओं को प्राप्त करता है। लेकिन वास्तविकता में इन लाभों मुझे अकेला द्वारा सम्मानित कर रहे हैं।

Chapter 7 Verse 23

Chapter Name -Knowledge of the Absolute

Sanskrit English

antavat tu phalam tesam
tad bhavaty alpa-medhasam
devan deva-yajo yanti
mad-bhakta yanti mam api

Simple Interpretation

Men of small intelligence worship the demigods, and their fruits are limited and temporary. Those who worship the demigods go to the planets of the demigods, but My devotees ultimately reach My supreme planet.

Hindi Interpretation

छोटे बुद्धि के पुरुषों demigods की पूजा, और उनके फल सीमित है और अस्थायी हैं। Demigods जो पूजा उन demigods के ग्रहों के लिए जाना है, लेकिन मेरे भक्तों अंततः मेरे सुप्रीम ग्रह तक पहुँचने।

Chapter 7 Verse 24

Chapter Name -Knowledge of the Absolute

Sanskrit English

avyaktam vyaktim apannam
manyante mam abuddhayah
param bhavam ajananto
mamavyayam anuttamam

Simple Interpretation

Unintelligent men, who know Me not, think that I have assumed this form and personality. Due to their small knowledge, they do not know My higher nature, which is changeless and supreme.

Hindi Interpretation

मुझे नहीं पता है कि कौन मूर्ख पुरुषों, मैं इस फार्म और व्यक्तित्व मान लिया है कि लगता है। कारण उनके छोटे ज्ञान के लिए, वे निरंतर और सर्वोच्च है, जो अपने उच्च प्रकृति, पता नहीं है।

Chapter 7 Verse 25

Chapter Name -Knowledge of the Absolute

Sanskrit English

naham prakasah sarvasya
yoga-maya-samavrtah
mudho 'yam nabhijanati
loko mam ajam avyayam

Simple Interpretation

I am never manifest to the foolish and unintelligent. For them I am covered by My eternal creative potency [yoga-maya]; and so the deluded world knows Me not, who am unborn and infallible.

Hindi Interpretation

मैं मूर्ख और मूर्ख करने के लिए कभी नहीं प्रकट कर रहा हूँ। उनके लिए मैं मेरे अनन्त रचनात्मक शक्ति के द्वारा कवर कर रहा हूँ [योग-माया]; और इतने मोहित दुनिया अजन्मे और अचूक कौन हूँ, मुझे नहीं जानता है।

Chapter 7 Verse 26

Chapter Name -Knowledge of the Absolute

Sanskrit English

vedaham samatitani
vartamanani carjuna
bhavisyani ca bhutani
mam tu veda na kascana

Simple Interpretation

O Arjuna, as the Supreme Personality of Godhead, I know everything that has happened in the past, all that is happening in the present, and all things that are yet to come. I also know all living entities; but Me no one knows.

Hindi Interpretation

हे अर्जुन, देवत्व की सुप्रीम व्यक्तित्व के रूप में, मैं सभी वर्तमान में हो रहा है कि अतीत में क्या हुआ है कि सब कुछ पता है, और अभी तक कर रहे हैं कि सभी चीजें हैं जो आने के लिए। मैं भी सभी जीवित संस्थाओं जानते हैं; लेकिन मुझे कोई नहीं जानता।

Chapter 7 Verse 27

Chapter Name -Knowledge of the Absolute

Sanskrit English

iccha-dvesa-samutthena
dvandva-mohena bhārata
sarva-bhūtanī sammoham
sarge yanti parantapa

Simple Interpretation

O scion of Bharata [Arjuna], O conqueror of the foe, all living entities are born into delusion, overcome by the dualities of desire and hate.

Hindi Interpretation

हे भरत वंशज [अर्जुन], हे दुश्मन के विजेता, सभी जीवित संस्थाओं की इच्छा और नफरत के द्वंद्व से उबरने, भ्रम में पैदा होते हैं।

Chapter 7 Verse 28

Chapter Name -Knowledge of the Absolute

Sanskrit English

yesam tv anta-gatam papam
jananam punya-karmanam
te dvandva-moha-nirmukta
bhajante mam drdha-vratah

Simple Interpretation

Persons who have acted piously in previous lives and in this life, whose sinful actions are completely eradicated and who are freed from the duality of delusion, engage themselves in My service with determination.

Hindi Interpretation

पिछले जीवन में और जिसका पापी कार्यों को पूरी तरह से नाश कर रहे हैं और जो भ्रम के द्वंद्व से मुक्त कर रहे हैं इस जीवन में पवित्रता से काम किया है जो व्यक्ति, दृढ़ संकल्प के साथ मेरी सेवा में खुद को व्यस्त हैं।

Chapter 7 Verse 29

Chapter Name -Knowledge of the Absolute

Sanskrit English

jara-marana-moksaya
mam asritya yatanti ye
te brahma tad viduh krtsnam
adhyatmam karma cakhilam

Simple Interpretation

Intelligent persons who are endeavoring for liberation from old age and death take refuge in Me in devotional service. They are actually Brahman because they entirely know everything about transcendental and fruitive activities.

Hindi Interpretation

बुढ़ापे और मृत्यु से मुक्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं जो बुद्धिमान व्यक्तियों भक्ति सेवा में मुझ में शरण लेते हैं। वे पूरी तरह से दिव्य और fruitive गतिविधियों के बारे में सब कुछ जानते हैं क्योंकि वे वास्तव में ब्रह्म हैं।

Chapter 7 Verse 30
Chapter Name -Attaining the Supreme

Sanskrit English
sadhibhutadhidaivam mam
sadiyahnam ca ye viduh
prayana-kale 'pi ca mam
te vidur yukta-cetasah

Simple Interpretation
Those who know Me as the Supreme Lord, as the governing principle of the material manifestation, who know Me as the one underlying all the demigods and as the one sustaining all sacrifices, can, with steadfast mind, understand and know Me even at the time of death.

Hindi Interpretation
सभी demigods के अंतर्निहित एक के रूप में है और सभी बलिदानों को बनाए रखना एक के रूप में जो मुझे पता है सामग्री अभिव्यक्ति की गवर्निंग सिद्धांत के रूप में सुप्रीम भगवान के रूप में जो लोग मुझे जानते,,,, दृढ़ मन के साथ, समझते हैं और यहां तक कि समय पर मुझे पता कर सकते हैं मौत का।

Chapter 8 Verse 1
Chapter Name -Attaining the Supreme

Sanskrit English
arjuna uvaca
kim tad brahma kim adhyatmam
kim karma purusottama
adhibhutam ca kim proktam
adhidaivam kim ucyate

Simple Interpretation
Arjuna inquired: O my Lord, O Supreme Person, what is Brahman? What is the self? What are fruitive activities? What is this material manifestation? And what are the demigods? Please explain this to me.

Hindi Interpretation
अर्जुन पूछा: मेरे भगवान, हे सुप्रीम व्यक्ति हे, ब्रह्म क्या है? आत्म क्या है? Fruitive गतिविधियों क्या हैं? इस सामग्री अभिव्यक्ति क्या है? और demigods क्या कर रहे हैं? मुझे यह समझा दें।

Chapter 8 Verse 2
Chapter Name -Attaining the Supreme

Sanskrit English
adhiyajnah katham ko 'tra
dehe 'smin madhusudana
prayana-kale ca katham
jneyo 'si niyatatmabhih

Simple Interpretation

How does this Lord of sacrifice live in the body, and in which part does He live, O Madhusudana? And how can those engaged in devotional service know You at the time of death?

Hindi Interpretation

यह कैसे प्रभु बलिदान के शरीर में रहता है, और जिसमें हिस्सा, लाइव उन्होंने कहा कि हे मधुसूदन करता है? और भक्ति सेवा में लगे उन तुम मृत्यु के समय कैसे पता कर सकते हैं?

Chapter 8 Verse 3

Chapter Name -Attaining the Supreme

Sanskrit English

sri-bhagavan uvaca

aksaram brahma paramam

svabhavo 'dhyatmam ucyate

bhuta-bhavodbhava-karo

visargah karma-samjnitah

Simple Interpretation

The Supreme Lord said, The indestructible, transcendental living entity is called Brahman, and his eternal nature is called the self. Action pertaining to the development of these material bodies is called karma, or fruitive activities.

Hindi Interpretation

सुप्रीम भगवान अविनाशी, दिव्य रहने इकाई ब्रह्म कहा जाता है, और उसकी अनन्त प्रकृति स्वयं कहा जाता है, ने कहा। इन सामग्री निकायों के विकास से संबंधित क्रिया कर्म, या fruitive गतिविधियों कहा जाता है।

Chapter 8 Verse 4

Chapter Name -Attaining the Supreme

Sanskrit English

adhibhutam ksaro bhavah

purusas cadhidaivatam

adhiyajno 'ham evatra

dehe deha-bhrtam vara

Simple Interpretation

Physical nature is known to be endlessly mutable. The universe is the cosmic form of the Supreme Lord, and I am that Lord represented as the Supersoul, dwelling in the heart of every embodied being.

Hindi Interpretation

शारीरिक प्रकृति बेहद परिवर्तनशील होने के लिए जाना जाता है। ब्रह्मांड सुप्रीम प्रभु के लौकिक रूप है, और मुझे लगता है कि प्रभु हर सन्निहित किया जा रहा है के दिल में रहने वाली, Supersoul के रूप में प्रतिनिधित्व किया है कि कर रहा हूँ।

Chapter 8 Verse 5

Chapter Name -Attaining the Supreme

Sanskrit English
anta-kale ca mam eva
smaran muktva kalevaram
yah prayati sa mad-bhavam
yati nasty atra samsayah

Simple Interpretation

And whoever, at the time of death, quits his body, remembering Me alone, at once attains My nature. Of this there is no doubt.

Hindi Interpretation

और जो कोई भी, मृत्यु के समय, मुझे अकेला याद कर, उसके शरीर से इस्तीफा दिया, पर एक बार मेरे स्वभाव को पा लेता है।
इस बात का कोई संदेह नहीं है।

Chapter 8 Verse 6

Chapter Name -Attaining the Supreme

Sanskrit English
yam yam vapi smaran bhavam
tyajaty ante kalevaram
tam tam evaiti kaunteya
sada tad-bhava-bhavitah

Simple Interpretation

Whatever state of being one remembers when he quits his body, that state he will attain without fail.

Hindi Interpretation

वह अपने शरीर, वह असफल बिना प्राप्त होगा कि राज्य इस्तीफा जब एक होने का जो भी राज्य याद है।

Chapter 8 Verse 7

Chapter Name -Attaining the Supreme

Sanskrit English
tasmāt sarvesu kalesu
mam anusmara yudhya ca
mayy arpita-mano-buddhir
mam evaisyasy asamsayah

Simple Interpretation

Therefore, Arjuna, you should always think of Me in the form of Krsna and at the same time carry out your prescribed duty of fighting. With your activities dedicated to Me and your mind and intelligence fixed on Me, you will attain Me without doubt.

Hindi Interpretation

इसलिए, अर्जुन, तुम हमेशा कृष्ण के रूप में मुझे लगता है कि और एक ही समय में लड़ने के लिए अपने निर्धारित ड्यूटी के

लिए बाहर ले जाना चाहिए। अपनी गतिविधियों मुझे और अपने मन और मुझ पर तय की खुफिया करने के लिए समर्पित के साथ, आप शक के बिना मुझे प्राप्त होगा।

Chapter 8 Verse 8

Chapter Name -Attaining the Supreme

Sanskrit English
abhyasa-yoga-yuktena
cetasa nanya-gamina
paramam purusam divyam
yati parthanucintayan

Simple Interpretation

He who meditates on the Supreme Personality of Godhead, his mind constantly engaged in remembering Me, undeviated from the path, he, O Partha [Arjuna], is sure to reach Me.

Hindi Interpretation

देवत्व की सुप्रीम व्यक्तित्व पर ध्यान करता है जो वह अपने मन में लगातार, मुझे याद करने में लगे हुए रास्ते से undeviated, वह है, हे पार्थ [अर्जुन], मुझ तक पहुँचने के लिए निश्चित है।

Chapter 8 Verse 9

Chapter Name -Attaining the Supreme

Sanskrit English
kavim puranam anusasitaram
anor aniyamsam anusmared yah
sarvasya dhataram acintya-rupam
aditya-varnam tamasah parastat

Simple Interpretation

One should meditate upon the Supreme Person as the one who knows everything, as He who is the oldest, who is the controller, who is smaller than the smallest, who is the maintainer of everything, who is beyond all material conception, who is inconceivable, and who is always a person. He is luminous like the sun and, being transcendental, is beyond this material nature.

Hindi Interpretation

उन्होंने कहा कि सबसे पुराना है, जो एक के रूप में सभी सामग्री गर्भाधान से परे है, जो सब कुछ के अनुरक्षक है जो नियंत्रक, छोटी से छोटी है, जो है, जो सब कुछ जानता है, जो एक के रूप में सुप्रीम व्यक्ति पर ध्यान देना चाहिए, जो समझ से बाहर है है, और हमेशा एक व्यक्ति कौन है। सूर्य और जा रहा है, दिव्य, इस सामग्री को प्रकृति से परे है जैसे वह चमकदार है

Chapter 8 Verse 10

Chapter Name -Attaining the Supreme

Sanskrit English

prayana-kale manasacalena
bhaktya yukto yoga-balena caiva
bhruvor madhye pranam avesya samyak
sa tam param purusam upaiti divyam

Simple Interpretation

One who, at the time of death, fixes his life air between the eyebrows and in full devotion engages himself in remembering the Supreme Lord, will certainly attain to the Supreme Personality of Godhead.

Hindi Interpretation

मृत्यु के समय, भौंहों के बीच और पूर्ण भक्ति में अपने जीवन हवा को हल करता है सुप्रीम भगवान को याद करने में खुद को संलग्न है, जो एक, निश्चित रूप से देवत्व की सुप्रीम व्यक्तित्व को प्राप्त होगा।

Chapter 8 Verse 11

Chapter Name -Attaining the Supreme

Sanskrit English

yad aksaram veda-vido vadanti
visanti yad yatayo vita-ragah
yad icchanto brahmacaryam caranti
tat te padam sangraheṇa pravaksye

Simple Interpretation

Persons learned in the Vedas, who utter omkara and who are great sages in the renounced order, enter into Brahman. Desiring such perfection, one practices celibacy. I shall now explain to you this process by which one may attain salvation.

Hindi Interpretation

व्यक्तियों ब्रह्म में प्रवेश, त्याग क्रम में महान ऋषियों हैं जो बोलना ओमकारा और जो वेदों में सीखा है। ऐसे पूर्णता इच्छा एक ब्रह्मचर्य प्रथाओं। अब मैं तुम्हें करने के लिए एक मोक्ष प्राप्त हो सकता है जिसके द्वारा इस प्रक्रिया की व्याख्या करेगा।

Chapter 8 Verse 12

Chapter Name -Attaining the Supreme

Sanskrit English

sarva-dvarani samyamya
mano hr̥di nirudhya ca
murdhny adhayatmanah pranam
asthito yoga-dharanam

Simple Interpretation

The yogic situation is that of detachment from all sensual engagements. Closing all the doors of the senses and fixing the mind on the heart and the life air at the top of the head, one establishes himself in yoga.

Hindi Interpretation

योग स्थिति है कि सभी कामुक सगाई से सेना की टुकड़ी की है। , एक इंद्रियों के सभी दरवाजे बंद करने और सिर के शीर्ष पर

दिल और जीवन हवा पर मन फिक्सिंग योग में खुद को स्थापित करता है।

Chapter 8 Verse 13

Chapter Name -Attaining the Supreme

Sanskrit English
om ity ekaksaram brahma
vyaharan mam anusmaran
yah prayati tyajan deham
sa yati paramam gatim

Simple Interpretation

After being situated in this yoga practice and vibrating the sacred syllable om, the supreme combination of letters, if one thinks of the Supreme Personality of Godhead and quits his body, he will certainly reach the spiritual planets.

Hindi Interpretation

एक देवत्व की सुप्रीम व्यक्तित्व के बारे में सोचती है और उसके शरीर से इस्तीफा दिया है, तो इस योग के अभ्यास में स्थित होने के नाते और पवित्र शब्दांश ओम, पत्र के सर्वोच्च संयोजन हिल के बाद, वह निश्चित रूप से आध्यात्मिक ग्रहों तक पहुंच जाएगा।

Chapter 8 Verse 14

Chapter Name -Attaining the Supreme

Sanskrit English
ananya-cetah satatam
yo mam smarati nityasah
tasyaham sulabhah partha
nitya-yuktasya yoginah

Simple Interpretation

For one who remembers Me without deviation, I am easy to obtain, O son of Prtha, because of his constant engagement in devotional service.

Hindi Interpretation

विचलन के बिना मुझे याद है जो एक के लिए, मैं क्योंकि भक्ति सेवा में उसके निरंतर सगाई की, Prtha के हे पुत्र प्राप्त करने के लिए आसान रहा हूँ।

Chapter 8 Verse 15

Chapter Name -Attaining the Supreme

Sanskrit English
mam upetya punar janma

duhkhalayam asasvatam
napnuvanti mahatmanah
samsiddhim paramam gatah

Simple Interpretation

After attaining Me, the great souls, who are yogis in devotion, never return to this temporary world, which is full of miseries, because they have attained the highest perfection.

Hindi Interpretation

वे उच्चतम पूर्णता प्राप्त किया है क्योंकि मुझे प्राप्त करने के बाद, भक्ति में योगी हैं, जो महान आत्माओं, दुखों से भरा है जो इस अस्थायी दुनिया, पर लौटने के लिए कभी नहीं।

Chapter 8 Verse 16

Chapter Name -Attaining the Supreme

Sanskrit English
abrahma-bhuvanal lokah
punar avartino 'rjuna
mam upetya tu kaunteya
punar janma na vidyate

Simple Interpretation

From the highest planet in the material world down to the lowest, all are places of misery wherein repeated birth and death take place. But one who attains to My abode, O son of Kunti, never takes birth again.

Hindi Interpretation

नीचे सबसे कम करने के लिए सामग्री दुनिया में सबसे अधिक ग्रह से, सब दोहराया जन्म और मृत्यु जगह ले जिसमें दुख के स्थानों रहे हैं। लेकिन, मेरे निवास, कुंती के हे पुत्र को कभी नहीं उपलब्ध हो जाता है, जो एक फिर से जन्म लेता है।

Chapter 8 Verse 17

Chapter Name -Attaining the Supreme

Sanskrit English
sahasra-yuga-paryantam
ahar yad brahmano viduh
ratrim yuga-sahasrantam
te 'ho-ratra-vido janah

Simple Interpretation

By human calculation, a thousand ages taken together is the duration of Brahma's one day. And such also is the duration of his night.

Hindi Interpretation

मानव हिसाब से, एक साथ लिया एक हजार उम्र ब्रह्मा के एक दिन की अवधि है। और ऐसे भी उसकी रात की अवधि है।

Chapter 8 Verse 18
Chapter Name -Attaining the Supreme

Sanskrit English
avyaktad vyaktayah sarvah
prabhavanty ahar-agame
ratry-agame praliyante
tatraivavyakta-samjnake

Simple Interpretation
When Brahma's day is manifest, this multitude of living entities comes into being, and at the arrival of Brahma's night they are all annihilated.

Hindi Interpretation
"ब्रह्मा के एक दिन प्रकट होता है, तो रहने वाले संस्थाओं की इस भीड़ अस्तित्व में आता है, और ब्रह्मा की रात के आगमन पर वे सब सत्यानाश कर रहे हैं।

Chapter 8 Verse 19
Chapter Name -Attaining the Supreme

Sanskrit English
bhuta-gramah sa evayam
bhutva bhutva praliyate
ratry-agame 'vasah partha
prabhavaty ahar-agame

Simple Interpretation
Again and again the day comes, and this host of beings is active; and again the night falls, O Partha, and they are helplessly dissolved.

Hindi Interpretation
"फिर से और फिर दिन आता है, और प्राणियों के इस मेजबान सक्रिय है, और फिर रात, हे पार्थ गिरता है, और वे असहाय भंग कर रहे हैं।

Chapter 8 Verse 19
Chapter Name -Attaining the Supreme

Sanskrit English
paras tasmāt tu bhavo 'nyo
'vyakto 'vyaktat sanatanah
yah sa sarvesu bhutesu

nasyatsu na vinasyati

Simple Interpretation

Yet there is another nature, which is eternal and is transcendental to this manifested and unmanifested matter. It is supreme and is never annihilated. When all in this world is annihilated, that part remains as it is.

Hindi Interpretation

फिर भी शाश्वत है और इस प्रगट व अव्यक्त बात करने के लिए दिव्य है जो एक और प्रकृति, वहाँ है। यह सर्वोच्च है और सत्यानाश कभी नहीं रहा है। इस दुनिया में सब सत्यानाश कर डाला जाता है, तो उस भाग के रूप में यह बनी हुई है।

Chapter 8 Verse 21

Chapter Name -Attaining the Supreme

Sanskrit English

avyakto 'ksara ity uktas
tam ahuh paramam gatim
yam prapya na nivartante
tad dhama paramam mama

Simple Interpretation

That supreme abode is called unmanifested and infallible, and it is the supreme destination. When one goes there, he never comes back. That is My supreme abode.

Hindi Interpretation

सुप्रीम निवास अव्यक्त और अचूक कहा जाता है, और यह सर्वोच्च स्थान है। वहाँ एक हो जाता है, वह वापस कभी नहीं आता है। कि मेरी सर्वोच्च निवास स्थान है।

Chapter 8 Verse 22

Chapter Name -Attaining the Supreme

Sanskrit English

purusah sa parah partha
bhaktya labhyas tv ananyaya
yasyantah-sthani bhutani
yena sarvam idam tatam

Simple Interpretation

The Supreme Personality of Godhead, who is greater than all, is attainable by unalloyed devotion. Although He is present in His abode, He is all-pervading, and everything is situated within Him.

Hindi Interpretation

सब से बड़ा है, जो देवत्व की सुप्रीम व्यक्तित्व, विशुद्ध भक्ति से प्राप्य है। उन्होंने अपने निवास में मौजूद है, वह सभी सर्वव्यापी है, और सब कुछ उसके भीतर स्थित है।

Chapter 8 Verse 23

Chapter Name -Attaining the Supreme

Sanskrit English
yatra kale tv anavrttim
avrttim caiva yoginah
prayata yanti tam kalam
vaksyami bharatarsabha

Simple Interpretation

O best of the Bharatas, I shall now explain to you the different times at which, passing away from this world, one does or does not come back.

Hindi Interpretation

Bharatas का सबसे अच्छा हे, अब मैं तुम्हें करने के लिए, दूर इस दुनिया से गुजर रहा है, एक करता है या वापस नहीं आया है, जिस पर अलग-अलग समय की व्याख्या करेगा।

Chapter 8 Verse 24

Chapter Name -Attaining the Supreme

Sanskrit English
agnir jyotir ahah suklah
san-masa uttarayanam
tatra prayata gacchanti
brahma brahma-vido janah

Simple Interpretation

Those who know the Supreme Brahman pass away from the world during the influence of the fiery god, in the light, at an auspicious moment, during the fortnight of the moon and the six months when the sun travels in the north.

Hindi Interpretation

सूर्य उत्तर में यात्रा करता है जब सुप्रीम ब्रह्म जो लोग जानते हैं चाँद के पखवाड़े और छह महीनों के दौरान, एक शुभ क्षण में, प्रकाश में, उग्र भगवान के प्रभाव के दौरान दुनिया से दूर गुजरती हैं।

Chapter 8 Verse 25

Chapter Name -Attaining the Supreme

Sanskrit English
dhumo rattris tatha krsnah
san-masa daksinayanam
tatra candramasam jyotir
yogi prapya nivartate

Simple Interpretation

The mystic who passes away from this world during the smoke, the night, the moonless fortnight, or in the six months when the sun passes to the south, or who reaches the moon planet, again comes back.

Hindi Interpretation

धुआं, रात, अमावस पखवाड़े के दौरान दूर इस दुनिया से गुजरता है, या छह महीने में सूर्य दक्षिण की ओर गुजरता है, या चंद्रमा ग्रह तक पहुँच जाता है, जो जब जो रहस्यवादी, फिर वापस आता है।

Chapter 8 Verse 26

Chapter Name -Attaining the Supreme

Sanskrit English

sukla-krsne gati hy ete
jagatah sasvate mate
ekaya yaty anavrttim
anyayavartate punah

Simple Interpretation

According to the Vedas, there are two ways of passing from this world--one in the light and one in darkness. When one passes in light, he does not come back; but when one passes in darkness, he returns.

Hindi Interpretation

रोशनी में एक और अंधेरे में एक - वेदों के अनुसार, इस दुनिया से गुजर के दो तरीके हैं। एक प्रकाश में गुजरता है, वह वापस नहीं आया है; एक अंधेरे में बीत जाता है लेकिन जब वह वापस आती है।

Chapter 8 Verse 27

Chapter Name -Attaining the Supreme

Sanskrit English

naite srti partha janan
yogi muhyati kascana
tasmata sarvesu kalesu
yoga-yukto bhavarjuna

Simple Interpretation

The devotees who know these two paths, O Arjuna, are never bewildered. Therefore be always fixed in devotion.

Hindi Interpretation

इन दो रास्तों जो जानते हैं कि भक्तों, हे अर्जुन, घबराए नहीं कर रहे हैं। इसलिए हमेशा भक्ति में तय हो।

Chapter 8 Verse 28

Chapter Name -The Most Confidential Knowledge

Sanskrit English

vedesu yajnesu tapahsu caiva
danesu yat punya-phalam pradistam
atyeti tat sarvam idam viditva

yogi param sthanam upaiti cadyam

Simple Interpretation

A person who accepts the path of devotional service is not bereft of the results derived from studying the Vedas, performing austere sacrifices, giving charity or pursuing philosophical and fruitive activities. At the end he reaches the supreme abode.

Hindi Interpretation

भक्ति सेवा के पथ को स्वीकार करता है एक व्यक्ति, जो वेदों का अध्ययन तपस्या बलिदान प्रदर्शन, दान देने या दार्शनिक और fruitive गतिविधियों को संचालित करने से प्राप्त होता परिणामों से महरूम नहीं है। अंत में वह सुप्रीम निवास तक पहुँचता है।

Chapter 9 Verse 1

Chapter Name -The Most Confidential Knowledge

Sanskrit English

sri-bhagavan uvaca

idam tu te guhyatamam

pravaksyamy anasuyave

jnanam vijnana-sahitam

yaj jnatva moksyase 'subhat

Simple Interpretation

The Supreme Lord said: My dear Arjuna, because you are never envious of Me, I shall impart to you this most secret wisdom, knowing which you shall be relieved of the miseries of material existence.

Hindi Interpretation

सुप्रीम प्रभु ने कहा: मेरे प्यारे अर्जुन, तुम मेरे बारे में कभी नहीं जलते हैं, क्योंकि मैं तुम्हें सामग्री अस्तित्व के कष्टों से मुक्त किया जाएगा, जो जानते हुए भी, यह आप के लिए सबसे गुप्त ज्ञान प्रदान करेगा।

Chapter 9 Verse 2

Chapter Name -The Most Confidential Knowledge

Sanskrit English

raja-vidya raja-guhyam

pavitram idam uttamam

pratyaksavagamam dharmyam

su-sukham kartum avyayam

Simple Interpretation

This knowledge is the king of education, the most secret of all secrets. It is the purest knowledge, and because it gives direct perception of the self by realization, it is the perfection of religion. It is everlasting, and it is joyfully performed.

Hindi Interpretation

यह ज्ञान शिक्षा का राजा सभी रहस्यों में से ज्यादातर के लिए रहस्य है। यह शुद्ध ज्ञान है, और यह अहसास द्वारा स्वयं के

प्रत्यक्ष धारणा देता है, क्योंकि यह धर्म की पूर्णता है। यह अनन्त है, और यह आनन्द किया जाता है।

Chapter 9 Verse 2

Chapter Name -The Most Confidential Knowledge

Sanskrit English

raja-vidya raja-guhyam

pavitram idam uttamam

pratyaksavagamam dharmyam

su-sukham kartum avyayam

Simple Interpretation

This knowledge is the king of education, the most secret of all secrets. It is the purest knowledge, and because it gives direct perception of the self by realization, it is the perfection of religion. It is everlasting, and it is joyfully performed.

Hindi Interpretation

यह ज्ञान शिक्षा का राजा सभी रहस्यों में से ज्यादातर के लिए रहस्य है। यह शुद्ध ज्ञान है, और यह अहसास द्वारा स्वयं के प्रत्यक्ष धारणा देता है, क्योंकि यह धर्म की पूर्णता है। यह अनन्त है, और यह आनन्द किया जाता है।

Chapter 9 Verse 3

Chapter Name -The Most Confidential Knowledge

Sanskrit English

asraddadhanah purusa

dharmasyasya parantapa

aprapya mam nivartante

mrtyu-samsara-vartmani

Simple Interpretation

Those who are not faithful on the path of devotional service cannot attain Me, O conqueror of foes, but return to birth and death in this material world.

Hindi Interpretation

भक्ति सेवा के पथ पर वफादार नहीं कर रहे हैं जो लोग दुश्मनों के हे विजेता मुझे प्राप्त है, लेकिन इस भौतिक संसार में जन्म और मृत्यु के लिए वापस नहीं कर सकते हैं।

Chapter 9 Verse 4

Chapter Name -The Most Confidential Knowledge

Sanskrit English

maya tatam idam sarvam

jagad avyakta-murtina

mat-sthani sarva-bhutani

na caham tesv avasthitah

Simple Interpretation

By Me, in My unmanifested form, this entire universe is pervaded. All beings are in Me, but I am not in them.

Hindi Interpretation

मेरे द्वारा मेरे अव्यक्त रूप में, इस पूरे ब्रह्मांड व्याप्त है। सभी प्राणियों मुझ में हैं, लेकिन मैं उन्हें में नहीं हूँ।

Chapter 9 Verse 5

Chapter Name -The Most Confidential Knowledge

Sanskrit English

na ca mat-sthani bhutani
pasya me yogam aisvaram
bhuta-bhrn na ca bhuta-stho
mamatma bhuta-bhavanah

Simple Interpretation

And yet everything that is created does not rest in Me. Behold My mystic opulence! Although I am the maintainer of all living entities, and although I am everywhere, still My Self is the very source of creation.

Hindi Interpretation

और बनाया जाता है कि अभी तक सब कुछ मुझ में आराम नहीं करता है। मेरा रहस्यवादी संपन्नता निहारना! मैं सभी जीवित संस्थाओं के देखभाल कर रहा हूँ, और मैं हर जगह हूँ हालांकि, अभी भी मेरे आत्म सृजन का बहुत अच्छा स्रोत है यद्यपि।

Chapter 9 Verse 6

Chapter Name -The Most Confidential Knowledge

Sanskrit English

yathakasa-sthito nityam
vayuh sarvatra-go mahan
tatha sarvani bhutani
mat-sthanity upadharaya

Simple Interpretation

As the mighty wind, blowing everywhere, always rests in ethereal space, know that in the same manner all beings rest in Me.

Hindi Interpretation

पराक्रमी हवा के रूप में, हर जगह उड़ाने, हमेशा ईथर अंतरिक्ष में टिकी हुई है, पता है कि मुझ में एक ही तरीके से सभी प्राणियों बाकी है।

Chapter 9 Verse 7

Chapter Name -The Most Confidential Knowledge

Sanskrit English

sarva-bhutani kaunteya

prakrtim yanti mamikam
kalpa-ksaye punas tani
kalpadau visrjamy aham

Simple Interpretation

O son of Kunti, at the end of the millennium every material manifestation enters into My nature, and at the beginning of another millennium, by My potency I again create.

Hindi Interpretation

कुंती के हे पुत्र, सहस्राब्दी के अंत में हर सामग्री अभिव्यक्ति मेरे स्वभाव में प्रवेश करता है, और एक अन्य सहस्राब्दी की शुरुआत में, मेरी शक्ति से मैं फिर से बनाने के लिए।

Chapter 9 Verse 8

Chapter Name -The Most Confidential Knowledge

Sanskrit English
prakrtim svam avastabhya
visrjami punah punah
bhuta-gramam imam krtsnam
avasam prakrter vasat

Simple Interpretation

The whole cosmic order is under Me. By My will it is manifested again and again, and by My will it is annihilated at the end.

Hindi Interpretation

पूरे कॉस्मिक आदेश मुझे के अंतर्गत है। मेरी इच्छा से यह फिर से और फिर से प्रकट होता है, और मेरा यह अंत में सत्यानाश कर डाला है जाएगा द्वारा किया जाता है।

Chapter 9 Verse 9

Chapter Name -The Most Confidential Knowledge

Sanskrit English
na ca mam tani karmani
nibadhnanti dhananjaya
udasina-vad asinam
asaktam tesu karmasu

Simple Interpretation

O Dhananjaya, all this work cannot bind Me. I am ever detached, seated as though neutral.

Hindi Interpretation

हे धनंजय, यह सब काम मुझे बाध्य नहीं कर सकते। मैं कभी भी, अलग तटस्थ रूप में हालांकि बैठा हूँ।

Chapter 9 Verse 10

Chapter Name -The Most Confidential Knowledge

Sanskrit English
mayadhyaksena prakrtih
suyate sa-caracaram
hetunanena kaunteya
jagad viparivartate

Simple Interpretation

This material nature is working under My direction, O son of Kunti, and it is producing all moving and unmoving beings. By its rule this manifestation is created and annihilated again and again.

Hindi Interpretation

इस सामग्री को प्रकृति मेरी दिशा, कुंती के हे पुत्र के तहत काम कर रहा है, और यह सब चल रहा है और unmoving प्राणियों का उत्पादन होता है। अपने शासन द्वारा इस अभिव्यक्ति बनाया और फिर और फिर सत्यानाश कर डाला है।

Chapter 9 Verse 11

Chapter Name -The Most Confidential Knowledge

Sanskrit English
avajananti mam mudha
manusim tanum asritam
param bhavam ajananto
mama bhuta-mahesvaram

Simple Interpretation

Fools deride Me when I descend in the human form. They do not know My transcendental nature and My supreme dominion over all that be.

Hindi Interpretation

मैं मनुष्य के रूप में उतरना जब मूर्खों मुझे उपहास। वे मेरे दिव्य प्रकृति और हो सकता है कि सब कुछ खत्म हो मेरी सर्वोच्च प्रभुता पता नहीं है।

Chapter 9 Verse 12

Chapter Name -The Most Confidential Knowledge

Sanskrit English
moghasa mogha-karmano
mogha-jnana vicetasah
raksasim asurim caiva
prakrtim mohinim sritah

Simple Interpretation

Those who are thus bewildered are attracted by demonic and atheistic views. In that deluded condition, their hopes for liberation, their fruitive activities, and their culture of knowledge are all defeated.

Hindi Interpretation

इस प्रकार घबराए हुए हैं जो लोग राक्षसी और नास्तिक विचारों से आकर्षित कर रहे हैं। कि मोहित हालत में, मुक्ति के लिए उनकी उम्मीदें, उनके fruitive गतिविधियों, और ज्ञान की अपनी संस्कृति सभी को पराजित कर रहे हैं।

Chapter 9 Verse 13

Chapter Name -The Most Confidential Knowledge

Sanskrit English

mahatmanas tu mam partha
daivim prakrtim asritah
bhajanty ananya-manaso
jnatva bhutadim avyayam

Simple Interpretation

O son of Prtha, those who are not deluded, the great souls, are under the protection of the divine nature. They are fully engaged in devotional service because they know Me as the Supreme Personality of Godhead, original and inexhaustible.

Hindi Interpretation

Prtha के हे पुत्र, मोहित नहीं कर रहे हैं जो उन लोगों, महान आत्मा, परमात्मा प्रकृति के संरक्षण के तहत कर रहे हैं। वे मूल और अटूट देवत्व की सुप्रीम व्यक्तित्व के रूप में मुझे पता है, क्योंकि वे पूरी तरह से भक्ति सेवा में लगे हुए हैं।

Chapter 9 Verse 14

Chapter Name -The Most Confidential Knowledge

Sanskrit English

satatam kirtayanto mam
yatantas ca drdha-vratah
namasyantas ca mam bhaktya
nitya-yukta upasate

Simple Interpretation

Always chanting My glories, endeavoring with great determination, bowing down before Me, these great souls perpetually worship Me with devotion.

Hindi Interpretation

मुझे हमेशा से पहले नीचे झुकने, महान दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास, मेरा गौरव जप, इन महान आत्माओं को सदा भक्ति के साथ मुझे पूजा।

Chapter 9 Verse 15

Chapter Name -The Most Confidential Knowledge

Sanskrit English

jnana-yajnena capy anye

yajanto mam upasate
ekatvena prthaktvena
bahudha visvato-mukham

Simple Interpretation

Others, who are engaged in the cultivation of knowledge, worship the Supreme Lord as the one without a second, diverse in many, and in the universal form.

Hindi Interpretation

ज्ञान की खेती में लगे हुए हैं, जो दूसरों को, कई में विविध, और सार्वभौमिक रूप में एक दूसरे के बिना एक के रूप में सुप्रीम भगवान की पूजा करते हैं।

Chapter 9 Verse 16

Chapter Name -The Most Confidential Knowledge

Sanskrit English

aham kratur aham yajnah
svadhaham aham ausadham
mantra 'ham aham evajyam
aham agnir aham hutam

Simple Interpretation

But it is I who am the ritual, I the sacrifice, the offering to the ancestors, the healing herb, the transcendental chant. I am the butter and the fire and the offering.

Hindi Interpretation

लेकिन यह अनुष्ठान, मैं बलिदान, पूर्वजों को प्रसाद, चिकित्सा जड़ी बूटी, दिव्य मंत्र कौन हूँ मैं है। मैं मक्खन और आग और पेशकश कर रहा हूँ।

Chapter 9 Verse 17

Chapter Name -The Most Confidential Knowledge

Sanskrit English

pitaham asya jagato
mata dhata pitamahah
vedyam pavitram omkara
rk sama yajur eva ca

Simple Interpretation

I am the father of this universe, the mother, the support, and the grandsire. I am the object of knowledge, the purifier and the syllable om. I am also the Rg, the Sama, and the Yajur [Vedas].

Hindi Interpretation

मैं इस ब्रह्मांड, मां, समर्थन, और पितामह का पिता हूँ। मैं ज्ञान, शुद्ध और शब्दांश ओम की वस्तु हूँ। मैं भी आरजी, समा, और Yajur [वेदों] हूँ।

Chapter 9 Verse 18

Chapter Name -The Most Confidential Knowledge

Sanskrit English

gatir bharta prabhuh saksi
nivasah saranam suhrt
prabhavah pralayah sthanam
nidhanam bijam avyayam

Simple Interpretation

I am the goal, the sustainer, the master, the witness, the abode, the refuge and the most dear friend. I am the creation and the annihilation, the basis of everything, the resting place and the eternal seed.

Hindi Interpretation

मैं लक्ष्य, निर्वाहक, गुरु, साक्षी, निवास, शरण और सबसे प्रिय दोस्त हूँ। मैं सृजन और विनाश, सब कुछ का आधार, विश्राम के लिए जगह और अनन्त बीज हूँ।

Chapter 9 Verse 19

Chapter Name -The Most Confidential Knowledge

Sanskrit English

tapamy aham aham varsam
nigrhnamy utsrjami ca
amrtam caiva mrtyus ca
sad asac caham arjuna

Simple Interpretation

O Arjuna, I control heat, the rain and the drought. I am immortality, and I am also death personified. Both being and nonbeing are in Me.

Hindi Interpretation

हे अर्जुन, मैं गर्मी, बारिश और सूखे नियंत्रित करते हूँ। मैं अमरत्व हूँ, और मैं भी मौत व्यक्ति हूँ। दोनों की जा रही है और nonbeing मुझ में हैं।

Chapter 9 Verse 20

Chapter Name -The Most Confidential Knowledge

Sanskrit English

traividyam aham soma-pah putrapapam
yajnair istva svar-gatim prarthayante
te punyam asadya surendra-lokam
asnanti divyan divi deva-bhogan

Simple Interpretation

Those who study the Vedas and drink the soma juice, seeking the heavenly planets, worship Me indirectly. They

take birth on the planet of Indra, where they enjoy godly delights.

Hindi Interpretation

वेदों का अध्ययन करने और स्वर्गीय ग्रहों की मांग, सोम रस पीने वालों में परोक्ष रूप से मुझे पूजा। उन्होंने कहा कि वे धर्मी प्रसन्न जहां आनंद इंद्र के ग्रह पर जन्म लेते हैं।

Chapter 9 Verse 21

Chapter Name -The Most Confidential Knowledge

Sanskrit English

te tam bhuktva svarga-lokam visalam
ksine punye martya-lokam visanti
evam trayi-dharmam anuprapanna
gatagatam kama-kama labhante

Simple Interpretation

When they have thus enjoyed heavenly sense pleasure, they return to this mortal planet again. Thus, through the Vedic principles, they achieve only flickering happiness.

Hindi Interpretation

वे इस प्रकार स्वर्गीय भावना खुशी का आनंद लिया है, तो वे फिर से इस नश्वर ग्रह के लिए वापसी। इस प्रकार, वैदिक सिद्धांतों के माध्यम से, वे ही खुशी चंचल पाना।

Chapter 9 Verse 22

Chapter Name -The Most Confidential Knowledge

Sanskrit English

ananyas cintayanto mam
ye janah paryupasate
tesam nityabhiyuktanam
yoga-ksemam vahamy aham

Simple Interpretation

But those who worship Me with devotion, meditating on My transcendental form--to them I carry what they lack and preserve what they have.

Hindi Interpretation

लेकिन मेरे दिव्य फार्म पर ध्यान, भक्ति के साथ मुझे पूजा जो लोग - उन्हें मुझे लगता है वे की कमी है और वे क्या बनाए रखने के लिए क्या ले।

Chapter 9 Verse 23

Chapter Name -The Most Confidential Knowledge

Sanskrit English

ye 'py anya-devata-bhakta
yajante sraddhayanvitah
te 'pi mam eva kaunteya
yajanty avidhi-purvakam

Simple Interpretation

Whatever a man may sacrifice to other gods, O son of Kunti, is really meant for Me alone, but it is offered without true understanding.

Hindi Interpretation

एक आदमी दूसरे देवताओं के बलिदान हो सकता है जो भी हो, कुंती के हे पुत्र, वास्तव में मुझे अकेला के लिए है, लेकिन यह सच समझ के बिना की पेशकश की है।

Chapter 9 Verse 24

Chapter Name -The Most Confidential Knowledge

Sanskrit English

aham hi sarva-yajnanam
bhokta ca prabhur eva ca
na tu mam abhijananti
tattvenatas cyavanti te

Simple Interpretation

I am the only enjoyer and the only object of sacrifice. Those who do not recognize My true transcendental nature fall down.

Hindi Interpretation

मैं केवल enjoyer और बलिदान की ही वस्तु हूँ। मेरा सच्चा दिव्य प्रकृति पहचान नहीं है जो लोग नीचे गिर जाते हैं।

Chapter 9 Verse 25

Chapter Name -The Most Confidential Knowledge

Sanskrit English

yanti deva-vrata devan
pitrn yanti pitr-vratah
bhutani yanti bhutejya
yanti mad-yajino 'pi mam

Simple Interpretation

Those who worship the demigods will take birth among the demigods; those who worship ghosts and spirits will take birth among such beings; those who worship ancestors go to the ancestors; and those who worship Me will live with Me.

Hindi Interpretation

Demigods जो पूजा उन demigods के बीच जन्म ले जाएगा; भूतों और आत्माओं की पूजा करते हैं जो लोग इस तरह के प्राणियों के बीच में जन्म ले जाएगा; पूर्वजों की पूजा करते हैं जो उन लोगों के पूर्वजों के लिए जाना; और मुझे पूजा जो लोग मेरे

साथ लाइव जाएगा।

Chapter 9 Verse 26

Chapter Name -The Most Confidential Knowledge

Sanskrit English

patram puspam phalam toyam
yo me bhaktya prayacchati
tad aham bhakty-upahrtam
asnami prayatatmanah

Simple Interpretation

If one offers Me with love and devotion a leaf, a flower, fruit or water, I will accept it.

Hindi Interpretation

एक प्रेम और भक्ति एक पत्ता, एक फूल, फल या पानी के साथ मुझे प्रदान करता है, तो मैं इसे स्वीकार करेंगे।

Chapter 9 Verse 27

Chapter Name -The Most Confidential Knowledge

Sanskrit English

yat karosi yad asnasi
yaj juhosi dadasi yat
yat tapasyasi kaunteya
tat kuruva mad-arpanam

Simple Interpretation

O son of Kunti, all that you do, all that you eat, all that you offer and give away, as well as all austerities that you may perform, should be done as an offering unto Me.

Hindi Interpretation

कुंती, हे बेटा तुम सब करना है कि, तुम सब खाना है कि आप की पेशकश, और दूर दे, साथ ही आप प्रदर्शन कर सकते हैं कि सब तपस्या है कि सब मेरे पास एक भेंट के रूप में किया जाना चाहिए।

Chapter 9 Verse 28

Chapter Name -The Most Confidential Knowledge

Sanskrit English

subhasubha-phalair evam
moksya karma-bandhanaih
sannyasa-yoga-yuktatma
vimukto mam upaisyasi

Simple Interpretation

In this way you will be freed from all reactions to good and evil deeds, and by this principle of renunciation you

will be liberated and come to Me.

Hindi Interpretation

इस तरह आप अच्छे और बुरे कामों के लिए सभी प्रतिक्रियाओं से मुक्त हो जाएगा, और त्याग के इस सिद्धांत से आप मुक्त हो जाएगा और मेरे पास आओ।

Chapter 9 Verse 29

Chapter Name -The Most Confidential Knowledge

Sanskrit English

samo 'ham sarva-bhutesu
na me dvesyo 'sti na priyah
ye bhajanti tu mam bhaktya
mayi te tesu capy aham

Simple Interpretation

I envy no one, nor am I partial to anyone. I am equal to all. But whoever renders service unto Me in devotion is a friend, is in Me, and I am also a friend to him.

Hindi Interpretation

मैं कोई भी ईर्ष्या, और न ही मैं किसी को आंशिक हूँ। मैं सभी के लिए बराबर हो रही है। लेकिन जो कोई भी भक्ति में मुझे पर्यत सेवा renders, एक दोस्त है मुझ में है, और मैं भी उसे करने के लिए एक दोस्त हूँ।

Chapter 9 Verse 30

Chapter Name -The Most Confidential Knowledge

Sanskrit English

api cet su-duracaro
bhajate mam ananya-bhak
sadhur eva sa mantavyah
samyag vyavasito hi sah

Simple Interpretation

Even if one commits the most abominable actions, if he is engaged in devotional service, he is to be considered saintly because he is properly situated.

Hindi Interpretation

एक सबसे घृणित कार्यो करता है यहां तक कि अगर वह भक्ति सेवा में लगे हुए है, तो उन्होंने कहा कि वह ठीक से स्थित है, क्योंकि पुण्य माना जा रहा है।

Chapter 9 Verse 31

Chapter Name -The Most Confidential Knowledge

Sanskrit English

ksipram bhavati dharmatma
sasvac-chantim nigacchati
kaunteya pratijanihi
na me bhaktah pranasyati

Simple Interpretation

He quickly becomes righteous and attains lasting peace. O son of Kunti, declare it boldly that My devotee never perishes.

Hindi Interpretation

वह जल्दी से धर्मी हो जाता है और स्थायी शांति पा लेता है। कुंती के हे पुत्र, मेरा भक्त नहीं बचेगा कि कभी हिम्मत से यह घोषणा।

Chapter 9 Verse 32

Chapter Name -The Most Confidential Knowledge

Sanskrit English

mam hi partha vyapasritya
ye 'pi syuh papa-yonayah
striyo vaisyas tatha sudras
te 'pi yanti param gatim

Simple Interpretation

O son of Prtha, those who take shelter in Me, though they be of lower birth--women, vaisyas [merchants], as well as sudras [workers]--can approach the supreme destination.

Hindi Interpretation

Prtha के हे पुत्र, वे कम जन्म का हो, यद्यपि मुझ में शरण लेने के लिए जो लोग - महिलाओं, vaisyas [व्यापारियों], साथ ही sudras [कार्यकर्ताओं] - सुप्रीम गंतव्य रुख कर सकते हैं।

Chapter 9 Verse 33

Chapter Name -The Most Confidential Knowledge

Sanskrit English

kim punar brahmanah punya
bhakta rajarsayas tatha
anityam asukham lokam
imam prapya bhajasva mam

Simple Interpretation

How much greater then are the brahmanas, the righteous, the devotees and saintly kings who in this temporary miserable world engage in loving service unto Me.

Hindi Interpretation

उसके बाद इस अस्थायी दुखी दुनिया में मुझे पर्यंत सेवा प्यार में संलग्न हैं, जो ब्राह्मण, धर्मी, भक्तों और पुण्य राजाओं रहे कितना भी बड़ा।

Chapter 9 Verse 33

Chapter Name -The Opulence of the Absolute

Sanskrit English

man-mana bhava mad-bhakto
mad-yaji mam namaskuru
mam evaisyasi yuktvaivam
atmanam mat-parayanah

Simple Interpretation

Engage your mind always in thinking of Me, offer obeisances and worship Me. Being completely absorbed in Me, surely you will come to Me.

Hindi Interpretation

मेरे बारे में सोच में हमेशा अपने मन लगाना, दण्डवत प्रणाम प्रदान करते हैं और मुझे पूजा। मुझे पूरी तरह से अवशोषित किया जा रहा है, निश्चित रूप से आप मेरे पास आ जाएगा।

Chapter 10 Verse 1

Chapter Name -The Opulence of the Absolute

Sanskrit English

sri-bhagavan uvaca
bhuya eva maha-baho
srnu me paramam vacah
yat te 'ham priyamanaya
vaksyami hita-kamyaya

Simple Interpretation

The Supreme Lord said: My dear friend, mighty-armed Arjuna, listen again to My supreme word, which I shall impart to you for your benefit and which will give you great joy.

Hindi Interpretation

सुप्रीम प्रभु ने कहा: मेरे प्रिय मित्र, शक्तिशाली हथियारों से लैस अर्जुन, मैं अपने लाभ के लिए आप के लिए प्रदान की जाएगी और जो आपको बड़ी खुशी दे देंगे जो मेरे सुप्रीम शब्द है, को फिर से सुनने के लिए।

Chapter 10 Verse 2

Chapter Name -The Opulence of the Absolute

Sanskrit English

na me viduh sura-ganah
prabhavam na maharsayah
aham adir hi devanam
maharsinam ca sarvasah

Simple Interpretation

Neither the hosts of demigods nor the great sages know My origin, for, in every respect, I am the source of the demigods and the sages.

Hindi Interpretation

न तो demigods के मेजबान और न ही महान संतों के लिए, हर मामले में, मुझे लगता है कि demigods और संतों का स्रोत रहा हूँ, मेरा मूल पता है।

Chapter 10 Verse 3

Chapter Name -The Opulence of the Absolute

Sanskrit English

yo mam ajam anadim ca
vetti loka-mahesvaram
asammudhah sa martyesu
sarva-papaih pramucyate

Simple Interpretation

He who knows Me as the unborn, as the beginningless, as the Supreme Lord of all the worlds--he, undeluded among men, is freed from all sins.

Hindi Interpretation

Beginningless के रूप में, अजन्मे के रूप में मुझे जानता है वह जो, सब संसार के सुप्रीम भगवान के रूप में - वह लोगों के बीच undeluded, सब पापों से मुक्त हो जाता है।

Chapter 10 Verse 41734

Chapter Name -The Opulence of the Absolute

Sanskrit English

buddam asammohah
ksama satyam damah samah
sukham dukkham bhavo 'bhavo
bhayam cabhayam eva ca

Simple Interpretation

Intelligence, knowledge, freedom from doubt and delusion, forgiveness, truthfulness, self-control and calmness, pleasure and pain, birth, death, fear, fearlessness, nonviolence, equanimity, satisfaction, austerity, charity, fame and infamy are created by Me alone.

Hindi Interpretation

खुफिया, संदेह और भ्रम, क्षमा, सत्यवादिता, आत्म नियंत्रण और शांति, खुशी और दर्द, जन्म, मृत्यु, भय, निर्भयता, अहिंसा,

धैर्य, संतोष, तपस्या, दान, शोहरत और बदनामी से ज्ञान, स्वतंत्रता मुझे अकेला द्वारा बनाई गई हैं ।

Chapter 10 Verse 41734

Chapter Name -The Opulence of the Absolute

Sanskrit English

jnanam asammohah
ksama satyam damah samah
sukham duhkham bhavo 'bhavo
bhayam cabhayam eva ca

ahimsa samata tustis
tapo danam yaso 'yasah
bhavanti bhava bhutanam
matta eva prthag-vidh

Simple Interpretation

Intelligence, knowledge, freedom from doubt and delusion, forgiveness, truthfulness, self-control and calmness, pleasure and pain, birth, death, fear, fearlessness, nonviolence, equanimity, satisfaction, austerity, charity, fame and infamy are created by Me alone

Hindi Interpretation

खुफिया, संदेह और भ्रम, क्षमा, सत्यवादिता, आत्म नियंत्रण और शांति, खुशी और दर्द, जन्म, मृत्यु, भय, निर्भयता, अहिंसा, धैर्य, संतोष, तपस्या, दान, शोहरत और बदनामी से ज्ञान, स्वतंत्रता मुझे अकेला द्वारा बनाई गई हैं

Chapter 10 Verse 6

Chapter Name -The Opulence of the Absolute

Sanskrit English

maharsayah sapta purve
catvaro manavas tatha
mad-bhava manasa jata
yesam loka imah prajah

Simple Interpretation

The seven great sages and before them the four other great sages and the Manus [progenitors of mankind] are born out of My mind, and all creatures in these planets descend from them.

Hindi Interpretation

सात महान संतों और उन्हें पहले चार अन्य महान संतों और मानुस [मानव जाति के progenitors] मेरे दिमाग से बाहर पैदा हुआ था, और इन ग्रहों में सभी प्राणियों के लिए उन लोगों से उतर रहे हैं।

Chapter 10 Verse 7

Chapter Name -The Opulence of the Absolute

Sanskrit English

etam vibhutim yogam ca
mama yo vetti tattvatah
so 'vikalpena yogena
yujyate natra samsayah

Simple Interpretation

He who knows in truth this glory and power of Mine engages in unalloyed devotional service; of this there is no doubt.

Hindi Interpretation

सच में मेरा यह महिमा और शक्ति है जो जानता है वह विशुद्ध भक्ति सेवा में संलग्न है; इस बात का कोई संदेह नहीं है।

Chapter 10 Verse 8

Chapter Name -The Opulence of the Absolute

Sanskrit English

aham sarvasya prabhavo
mattah sarvam pravartate
iti matva bhajante mam
budha bhava-samanvitah

Simple Interpretation

I am the source of all spiritual and material worlds. Everything emanates from Me. The wise who know this perfectly engage in My devotional service and worship Me with all their hearts.

Hindi Interpretation

मैं सभी आध्यात्मिक और भौतिक संसार का स्रोत रहा हूँ। सब कुछ मेरे से उत्पन्न। यह जानते हैं जो बुद्धिमान पूरी तरह से मेरी भक्ति सेवा में संलग्न हैं और अपने सभी दिल के साथ मुझे पूजा।

Chapter 10 Verse 9

Chapter Name -The Opulence of the Absolute

Sanskrit English

mac-citta mad-gata-prana
bodhayantah parasparam
kathayantas ca mam nityam
tusyanti ca ramanti ca

Simple Interpretation

The thoughts of My pure devotees dwell in Me, their lives are surrendered to Me, and they derive great satisfaction and bliss enlightening one another and conversing about Me.

Hindi Interpretation

मेरा शुद्ध भक्तों के विचारों को अपने जीवन में मुझे के समक्ष आत्मसमर्पण कर रहे हैं, मुझ में ध्यान केन्द्रित करना है, और वे महान संतुष्टि और आनंद शिक्षाप्रद एक दूसरे के और मेरे बारे में बातचीत निकाले जाते हैं।

Chapter 10 Verse 10

Chapter Name -The Opulence of the Absolute

Sanskrit English
tesam satata-yuktanam
bhajatam priti-purvakam
dadami buddhi-yogam tam
yena mam upayanti te

Simple Interpretation

To those who are constantly devoted and worship Me with love, I give the understanding by which they can come to Me.

Hindi Interpretation

प्यार से मुझे लगातार समर्पित कर रहे हैं और पूजा करते हैं जो उन लोगों के लिए, मुझे लगता है वे मुझे करने के लिए आ सकता है जिसके द्वारा समझ दे।

Chapter 10 Verse 11

Chapter Name -The Opulence of the Absolute

Sanskrit English
tesam evanukampartham
aham ajnana-jam tamah
nasayamy atma-bhavastho
jnana-dipena bhasvata

Simple Interpretation

Out of compassion for them, I, dwelling in their hearts, destroy with the shining lamp of knowledge the darkness born of ignorance.

Hindi Interpretation

उनके लिए करुणा के बाहर, मैं उनके दिल में रहने वाली, ज्ञान की चमक दीपक अज्ञान का जन्म अंधेरे के साथ नष्ट कर।

Chapter 10 Verse 41986

Chapter Name -The Opulence of the Absolute

Sanskrit English
arjuna uvaca
param brahma param dhama
pavitram paramam bhavan
purusam sasvatam divyam
adi-devam ajam vibhum

ahus tvam rsayah sarve
devarsir naradas tatha
asito devalo vyasah

svayam caiva bravisi me

Simple Interpretation

Arjuna said: You are the Supreme Brahman, the ultimate, the supreme abode and purifier, the Absolute Truth and the eternal divine person. You are the primal God, transcendental and original, and You are the unborn and all-pervading beauty. All the great sages such as Narada, Asita, Devala, and Vyasa proclaim this of You, and now You Yourself are declaring it to me.

Hindi Interpretation

अर्जुन ने कहा: आप सुप्रीम ब्रह्म, परम, सुप्रीम निवास और शुद्ध, परम सत्य और अनन्त दिव्य व्यक्ति हैं। आप मौलिक भगवान, दिव्य और मूल हैं, और आप अजन्मे और सभी सर्वव्यापी सौंदर्य हैं। ऐसे नारद, असिता, देवल ऋषि, और व्यास के रूप में सभी महान संतों आप के इस प्रचार, और अब आप खुद मेरे लिए यह घोषणा कर रहे हैं

Chapter 10 Verse 14

Chapter Name -The Opulence of the Absolute

Sanskrit English

sarvam etad rtam manye
yan mam vadasi kesava
na hi te bhagavan vyaktim
vidur deva na danavah

Simple Interpretation

O Krsna, I totally accept as truth all that You have told me. Neither the gods nor demons, O Lord, know Thy personality.

Hindi Interpretation

हे कृष्ण, मैं पूरी तरह से आप ने मुझे बताया है कि सभी के सत्य के रूप में स्वीकार करते हैं। न तो देवताओं और न ही राक्षसों, हे प्रभु, तेरा व्यक्तित्व पता है।

Chapter 10 Verse 15

Chapter Name -The Opulence of the Absolute

Sanskrit English

svayam evatmanatmanam
vettha tvam purusottama
bhuta-bhavana bhutesa
deva-deva jagat-pate

Simple Interpretation

Indeed, You alone know Yourself by Your own potencies, O origin of all, Lord of all beings, God of gods, O Supreme Person, Lord of the universe!

Hindi Interpretation

वास्तव में, तुम अकेले अपने स्वयं के potencies द्वारा अपने आप को पता है, सभी के हे मूल, सभी प्राणियों के भगवान, देवताओं के परमेश्वर, हे श्रीभगवान, ब्रह्मांड के भगवान!

Chapter 10 Verse 16

Chapter Name -The Opulence of the Absolute

Sanskrit English
vaktum arhasy asesena
divya hy atma-vibhutayah
yabhir vibhutibhir lokan
imams tvam vyapya tisthasi

Simple Interpretation

Please tell me in detail of Your divine powers by which You pervade all these worlds and abide in them.

Hindi Interpretation

आप इन सब संसार व्याप्त हैं जिसके द्वारा अपनी दिव्य शक्तियों का विस्तार से मुझे बताओ और उन में पालन करें।

Chapter 10 Verse 17

Chapter Name -The Opulence of the Absolute

Sanskrit English
katham vidyam aham yogims
tvam sada paricintayan
kesu kesu ca bhavesu
cintyo 'si bhagavan maya

Simple Interpretation

How should I meditate on You? In what various forms are You to be contemplated, O Blessed Lord?

Hindi Interpretation

में तुम पर कैसे ध्यान करना चाहिए? विभिन्न क्या रूपों में तुम ओ धन्य हे प्रभु, विचार किया जा करने के लिए कर रहे हैं?

Chapter 10 Verse 18

Chapter Name -The Opulence of the Absolute

Sanskrit English
vistarenatmano yogam
vibhutim ca janardana
bhuyah kathaya trptir hi
srnvato nasti me 'mrtam

Simple Interpretation

Tell me again in detail, O Janardana [Krsna], of Your mighty potencies and glories, for I never tire of hearing Your ambrosial words.

Hindi Interpretation

अपने पराक्रम potencies और गौरव की, विस्तार से फिर हे जनार्दन [कृष्ण] मुझे बताओ, अपने दिव्य शब्दों को सुनने की मैं

कभी नहीं टायर के लिए।

Chapter 10 Verse 19

Chapter Name -The Opulence of the Absolute

Sanskrit English
sri-bhagavan uvaca
hanta te kathayisyami
divya hy atma-vibhutayah
pradhanyatah kuru-srestha
nasty anto vistarasya me

Simple Interpretation

The Blessed Lord said: Yes, I will tell you of My splendid manifestations, but only of those which are prominent, O Arjuna, for My opulence is limitless.

Hindi Interpretation

धन्य है प्रभु ने कहा: हां, मैं, लेकिन केवल हे अर्जुन, मेरा संपन्नता के लिए असीम है प्रमुख हैं जो उन लोगों की, मेरी भव्य अभिव्यक्तियों के लिए आपको बता देगा।

Chapter 10 Verse 20

Chapter Name -The Opulence of the Absolute

Sanskrit English
aham atma gudakesa
sarva-bhutasaya-sthitah
aham adis ca madhyam ca
bhutanam anta eva ca

Simple Interpretation

I am the Self, O Gudakesa, seated in the hearts of all creatures. I am the beginning, the middle and the end of all beings.

Hindi Interpretation

मैं सभी प्राणियों के दिलों में बैठा स्व, हे Gudakesa हूँ। मैं शुरुआत, मध्य और सभी प्राणियों के अंत हूँ।

Chapter 10 Verse 21

Chapter Name -The Opulence of the Absolute

Sanskrit English
adityanam aham visnur
jyotisam ravir amsuman
maricir marutam asmi
naksatranam aham sasi

Simple Interpretation

Of the Adityas I am Visnu, of lights I am the radiant sun, I am Marici of the Maruts, and among the stars I am the moon.

Hindi Interpretation

आदित्यों की मैं रोशनी की मैं उज्ज्वल सूरज हूँ, Visnu हूँ, मैं मरुद्गण की Marici हूँ, और सितारों के बीच मैं चाँद हूँ।

Chapter 10 Verse 22

Chapter Name -The Opulence of the Absolute

Sanskrit English

vedanam sama-vedo 'smi
devanam asmi vasavah
indriyanam manas casmi
bhutanam asmi cetana

Simple Interpretation

Of the Vedas I am the Sama-veda; of the demigods I am Indra; of the senses I am the mind, and in living beings I am the living force [knowledge].

Hindi Interpretation

वेदों का मैं समा-वेद हूँ; demigods की मैं इंद्र हूँ; इंद्रियों की मैं मन कर रहा हूँ, और जीवित प्राणियों में मैं जीवित बल [ज्ञान] हूँ।

Chapter 10 Verse 23

Chapter Name -The Opulence of the Absolute

Sanskrit English

rudranam sankaras casmi
vitteso yaksa-raksasam
vasunam pavakas casmi
meruh sikharinam aham

Simple Interpretation

Of all the Rudras I am Lord Siva; of the Yaksas and Raksasas I am the Lord of wealth [Kuvera]; of the Vasus I am fire [Agni], and of mountains I am Meru.

Hindi Interpretation

सभी रुद्रों की मैं भगवान शिव हूँ; Yaksas और Raksasas की मैं धन [Kuvera] के यहोवा हूँ; वसुओं की मैं आग [अग्नि] हूँ, और पहाड़ों की मैं मेरु हूँ।

Chapter 10 Verse 24

Chapter Name -The Opulence of the Absolute

Sanskrit English

purodhasam ca mukhyam mam

viddhi partha brhaspatim
senaninam aham skandah
sarasam asmi sagarah

Simple Interpretation

Of priests, O Arjuna, know Me to be the chief, Brhaspati, the lord of devotion. Of generals I am Skanda, the lord of war; and of bodies of water I am the ocean.

Hindi Interpretation

पुजारियों के अर्जुन हे, मुझे मुख्यमंत्री, बृहस्पति, भक्ति के प्रभु हो पता है। जनरलों की मैं स्कंद, युद्ध के यहोवा हूँ; और पानी के शव की मैं सागर हूँ।

Chapter 10 Verse 25

Chapter Name -The Opulence of the Absolute

Sanskrit English
maharsinam bhrghur aham
giram asmy ekam aksaram
yajnanam japa-yajno 'smi
sthavaranam himalayah

Simple Interpretation

Of the great sages I am Bhrgu; of vibrations I am the transcendental om. Of sacrifices I am the chanting of the holy names [japa], and of immovable things I am the Himalayas.

Hindi Interpretation

महान संतों की मैं Bhrghu हूँ; कंपन की मैं दिव्य ओम हूँ। बलिदान की मैं [जप] पवित्र नाम का जप कर रहा हूँ, और अचल चीजों की मैं हिमालय हूँ।

Chapter 10 Verse 26

Chapter Name -The Opulence of the Absolute

Sanskrit English
asvatthah sarva-vrksanam
devarsinam ca naradah
gandharvanam citrarathah
siddhanam kapilo munih

Simple Interpretation

Of all trees I am the holy fig tree, and among sages and demigods I am Narada. Of the singers of the gods [Gandharvas] I am Citraratha, and among perfected beings I am the sage Kapila.

Hindi Interpretation

सभी पेड़ों की मैं पवित्र अंजीर के पेड़ हूँ, और संतों और demigods के बीच मैं नारद हूँ। देवताओं के गायकों की [Gandharvas] मैं Citraratha हूँ, और सिद्ध प्राणियों के बीच मैं ऋषि कपिला हूँ।

Chapter 10 Verse 27

Chapter Name -The Opulence of the Absolute

Sanskrit English
uccaihsravasam asvanam
viddhi mam amrtodbhavam
airavatam gajendranam
naranam ca naradhipam

Simple Interpretation

Of horses know Me to be Uccaihsrava, who rose out of the ocean, born of the elixir of immortality; of lordly elephants I am Airavata, and among men I am the monarch.

Hindi Interpretation

घोड़ों मुझे अमरता का अमृत का जन्म हुआ, समुद्र से बाहर गुलाब जो Uccaihsrava, हो पता है की; गर्वित हाथियों की मैं Airavata हूँ, और लोगों के बीच मैं सम्राट हूँ।

Chapter 10 Verse 28

Chapter Name -The Opulence of the Absolute

Sanskrit English
ayudhanam aham vajram
dhenunam asmi kamadhuk
prajanas casmi kandarpah
sarpanam asmi vasukih

Simple Interpretation

Of weapons I am the thunderbolt; among cows I am the surabhi, givers of abundant milk. Of procreators I am Kandarpa, the god of love, and of serpents I am Vasuki, the chief.

Hindi Interpretation

हथियारों की मैं वज्र हूँ; गायों के बीच में मैं सुरभि, प्रचुर मात्रा में दूध के दाता हूँ। Procreators की मैं Kandarpa, प्यार का देवता हूँ, और नागों की मैं वासुकी, मुख्य हूँ।

Chapter 10 Verse 29

Chapter Name -The Opulence of the Absolute

Sanskrit English
anantas casmi naganam
varuno yadasam aham
pitrnam aryama casmi
yamah samyamataham

Simple Interpretation

Of the celestial Naga snakes I am Ananta; of the aquatic deities I am Varuna. Of departed ancestors I am Aryama,

and among the dispensers of law I am Yama, lord of death.

Hindi Interpretation

आकाशीय नगा साँपों से मैं अनंत हूँ; जलीय देवताओं की मैं वरुण हूँ। दिवंगत पूर्वजों की मैं Aryama हूँ, और कानून के dispensers के बीच मैं यम, मृत्यु के देवता हूँ।

Chapter 10 Verse 30

Chapter Name -The Opulence of the Absolute

Sanskrit English

prahladas casmi daityanam
kalah kalayatam aham
mrganam ca mrgendro 'ham
vainateyas ca paksinam

Simple Interpretation

Among the Daitya demons I am the devoted Prahlada; among subduers I am time; among the beasts I am the lion, and among birds I am Garuda, the feathered carrier of Visnu.

Hindi Interpretation

दैत्य राक्षसों के बीच मैं समर्पित प्रह्लाद हूँ; subduers के बीच मैं मैं समय हूँ; जानवरों के बीच मैं मैं शेर हूँ, और पक्षियों के बीच मैं गरुड़, Visnu के पंख वाहक हूँ।

Chapter 10 Verse 31

Chapter Name -The Opulence of the Absolute

Sanskrit English

pavanah pavatam asmi
ramah sastra-bhrtam aham
jhasanam makaras casmi
srotasam asmi jahnavi

Simple Interpretation

Of purifiers I am the wind; of the wielders of weapons I am Rama; of fishes I am the shark, and of flowing rivers I am the Ganges.

Hindi Interpretation

Purifiers की मैं हवा हूँ; हथियारों के wielders की मैं राम हूँ; मछलियों की मैं शार्क हूँ, और बहने वाली नदियों की मैं गंगा हूँ।

Chapter 10 Verse 32

Chapter Name -The Opulence of the Absolute

Sanskrit English

sarganam adir antas ca
madhyam caivaham arjuna

adhyatma-vidya vidyanam
vadah pravadatam aham

Simple Interpretation

Of all creations I am the beginning and the end and also the middle, O Arjuna. Of all sciences I am the spiritual science of the self, and among logicians I am the conclusive truth.

Hindi Interpretation

सभी कृतियों में से मैं शुरुआत और अंत और भी मध्य, हे अर्जुन हूँ। सभी विज्ञान के मैं स्वयं के आध्यात्मिक विज्ञान हूँ, और logicians बीच मैं निर्णायक सच्चाई हूँ।

Chapter 10 Verse 33

Chapter Name -The Opulence of the Absolute

Sanskrit English
aksaranam akaro 'smi
dvandvah samasikasya ca
aham evaksayah kalo
dhataham visvato-mukhah

Simple Interpretation

Of letters I am the letter A, and among compounds I am the dual word. I am also inexhaustible time, and of creators I am Brahma, whose manifold faces turn everywhere.

Hindi Interpretation

पत्र की मैं एक पत्र हूँ, और यौगिकों के बीच मैं दोहरी शब्द हूँ। मैं भी अटूट समय हूँ, और रचनाकारों की मैं जिनके कई गुना चेहरों हर जगह बारी ब्रह्मा, हूँ।

Chapter 10 Verse 34

Chapter Name -The Opulence of the Absolute

Sanskrit English
mrtyuh sarva-haras caham
udbhavas ca bhavisyatam
kirtih srir vak ca narinam
smrtir medha dhrtih ksama

Simple Interpretation

I am all-devouring death, and I am the generator of all things yet to be. Among women I am fame, fortune, speech, memory, intelligence, faithfulness and patience.

Hindi Interpretation

मैं मौत के सब-भक्षण कर रहा हूँ, और मैं सब बातों का जनरेटर अभी तक होने के लिए कर रहा हूँ। महिलाओं के बीच मैं प्रसिद्धि, भाग्य, भाषण, स्मृति, बुद्धि, सच्चाई और धैर्य हूँ।

Chapter 10 Verse 35

Chapter Name -The Opulence of the Absolute

Sanskrit English
brhat-sama tatha samnam
gayatri chandasam aham
masanam marga-sirso 'ham
rtunam kusumakarah

Simple Interpretation

Of hymns I am the Brhat-sama sung to the Lord Indra, and of poetry I am the Gayatri verse, sung daily by Brahmanas. Of months I am November and December, and of seasons I am flower-bearing spring.

Hindi Interpretation

भजन में भगवान इंद्र को गाया Brhat-sama के हूँ, और कविता की मैं ब्राह्मण द्वारा दैनिक गाया गायत्री कविता, कर रहा हूँ।
महीने की मैं नवंबर और दिसंबर हूँ, और मौसम की मैं फूल असर वसंत हूँ।

Chapter 10 Verse 36

Chapter Name -The Opulence of the Absolute

Sanskrit English
dyutam chalayatam asmi
tejas tejasvinam aham
jayo 'smi vyavasayo 'smi
sattvam sattvavatam aham

Simple Interpretation

I am also the gambling of cheats, and of the splendid I am the splendor. I am victory, I am adventure, and I am the strength of the strong.

Hindi Interpretation

मैं भी धोखा देती का जुआ हूँ, और शानदार से मैं वैभव हूँ। मुझे लगता है मैं साहसिक हूँ, जीत हूँ, और मैं मजबूत की ताकत हूँ।

Chapter 10 Verse 37

Chapter Name -The Opulence of the Absolute

Sanskrit English
vrsninam vasudevo 'smi
pandavanam dhananjayah
muninam apy aham vyasah
kavinam usana kavih

Simple Interpretation

Of the descendants of Vrsni I am Vasudeva, and of the Pandavas I am Arjuna. Of the sages I am Vyasa, and among great thinkers I am Usana.

Hindi Interpretation

Vrsni के वंश में मैं वासुदेव हूँ, और पांडवों की मैं अर्जुन हूँ। संतों की मैं व्यास हूँ, और महान विचारकों के बीच मैं Usana हूँ।

Chapter 10 Verse 38

Chapter Name -The Opulence of the Absolute

Sanskrit English

dando damayatam asmi
nitir asmi jigisatam
maunam caivasmi guhyanam
jnanam jnanavatam aham

Simple Interpretation

Among punishments I am the rod of chastisement, and of those who seek victory, I am morality. Of secret things I am silence, and of the wise I am wisdom.

Hindi Interpretation

सजा के अलावा मैं अनुशासनात्मक सज़ा की छड़ी हूँ, और जीत की तलाश है जो उन लोगों की है, मैं नैतिकता हूँ। गुप्त बातों के बारे में मैं मौन हूँ, और बुद्धिमान की मैं जान हूँ।

Chapter 10 Verse 39

Chapter Name -The Opulence of the Absolute

Sanskrit English

yac capi sarva-bhutanam
bijam tad aham arjuna
na tad asti vina yat syan
maya bhutam caracaram

Simple Interpretation

Furthermore, O Arjuna, I am the generating seed of all existences. There is no being--moving or unmoving--that can exist without Me.

Hindi Interpretation

इसके अलावा, हे अर्जुन, मैं सभी अस्तित्व का सृजन बीज हूँ। चलती है या unmoving - - मेरे बिना कर सकते हैं कि कोई जा रहा है।

Chapter 10 Verse 40

Chapter Name -The Opulence of the Absolute

Sanskrit English

nanto 'sti mama divyanam
vibhutinam parantapa
esa tuddesatah prokto
vibhuter vistaro maya

Simple Interpretation

O mighty conqueror of enemies, there is no end to My divine manifestations. What I have spoken to you is but a mere indication of My infinite opulences.

Hindi Interpretation

दुश्मनों के हे पराक्रमी विजेता, मेरा परमात्मा अभिव्यक्तियों का कोई अंत नहीं है। क्या मैं आप से बात की है मेरे अनंत opulences का एक मात्र संकेत है लेकिन है।

Chapter 10 Verse 41

Chapter Name -The Opulence of the Absolute

Sanskrit English

yad yad vibhutam sattvam
srimad urjitam eva va
tat tad evavagaccha tvam
mama tejo-'msa-sambhavam

Simple Interpretation

Know that all beautiful, glorious, and mighty creations spring from but a spark of My splendor.

Hindi Interpretation

सभी, सुंदर गौरवशाली, और पराक्रमी कृतियों मेरा वैभव की एक चिंगारी लेकिन से वसंत पता है।

Chapter 10 Verse 42

Chapter Name -The Universal Form

Sanskrit English

atha va bahunaitena
kim jnatena tavarjuna
vistabhyaham idam krtsnam
ekamsena sthito jagat

Simple Interpretation

But what need is there, Arjuna, for all this detailed knowledge? With a single fragment of Myself I pervade and support this entire universe.

Hindi Interpretation

लेकिन इस सब के बारे में विस्तृत ज्ञान के लिए, वहाँ अर्जुन क्या जरूरत है? खुद के बारे में एक भी टुकड़ा के साथ मैं व्याप्त है और इस पूरे ब्रह्मांड का समर्थन है।

Chapter 11 Verse 1

Chapter Name -The Universal Form

Sanskrit English

arjuna uvaca
mad-anugrahaya paramam
guhyam adhyatma-samjnitam
yat tvayoktam vacas tena
moho 'yam vigato mama

Simple Interpretation

Arjuna said: I have heard Your instruction on confidential spiritual matters which You have so kindly delivered unto me, and my illusion is now dispelled.

Hindi Interpretation

अर्जुन ने कहा: मैं तुम्हें इतनी कृपया मुझे पर्यंत दिया है जो गोपनीय आध्यात्मिक मामलों पर अपने निर्देश में सुना है, और मेरा भ्रम अब dispelled है।

Chapter 11 Verse 2

Chapter Name -The Universal Form

Sanskrit English
bhavapyayau hi bhutanam
srutau vistaraso maya
tvattah kamala-patraksa
mahatmyam api cavyayam

Simple Interpretation

O lotus-eyed one, I have heard from You in detail about the appearance and disappearance of every living entity, as realized through Your inexhaustible glories.

Hindi Interpretation

आपका अटूट गौरव के माध्यम से एहसास के रूप में हे कमल आंखों से एक है, मैं हर जीवित इकाई की उपस्थिति और लापता होने के बारे में विस्तार से तुम से सुना है।

Chapter 11 Verse 3

Chapter Name -The Universal Form

Sanskrit English
evam etad yathattha tvam
atmanam paramesvara
drastum icchami te rupam
aisvaram purusottama

Simple Interpretation

O greatest of all personalities, O supreme form, though I see here before me Your actual position, I wish to see how You have entered into this cosmic manifestation. I want to see that form of Yours.

Hindi Interpretation

मैं मुझे यहाँ से पहले आपका वास्तविक स्थिति देखने हालांकि हे सब व्यक्तित्व की सबसे बड़ी, हे सर्वोच्च रूप है, मैं तुम्हें यह

लौकिक अभिव्यक्ति में प्रवेश किया है कि कैसे देखना चाहते हैं। मैं तुम्हारी कि फार्म देखना चाहते हैं।

Chapter 11 Verse 4

Chapter Name -The Universal Form

Sanskrit English
manyase yadi tac chakyam
maya drastum iti prabho
yogesvara tato me tvam
darsayatmanam avyayam

Simple Interpretation

If You think that I am able to behold Your cosmic form, O my Lord, O master of all mystic power, then kindly show me that universal Self.

Hindi Interpretation

तुम्हें पता है मैं अपने ब्रह्मांडीय फार्म निहारना करने में सक्षम हूँ कि लगता है, हे मेरे प्रभु, सभी रहस्यवादी सत्ता की हे गुरु, तो कृपया यूनिवर्सल स्व कि मुझे दिखाओ।

Chapter 11 Verse 5

Chapter Name -The Universal Form

Sanskrit English
sri-bhagavan uvaca
pasya me partha rupani
satasa 'tha sahasrasah
nana-vidhani divyani
nana-varnakrtini ca

Simple Interpretation

The Blessed Lord said: My dear Arjuna, O son of Prtha, behold now My opulences, hundreds of thousands of varied divine forms, multicolored like the sea.

Hindi Interpretation

धन्य है प्रभु ने कहा: मेरे प्यारे अर्जुन, Prtha के हे बेटा, अब समुद्र की तरह बहुरंगी विभिन्न दिव्य रूपों के हजारों की सैकड़ों मेरा opulences निहारना।

Chapter 11 Verse 6

Chapter Name -The Universal Form

Sanskrit English
pasyadityan vasun rudran
asvinau marutas tatha
bahuny adrsta-purvani
pasyascaryani bharata

Simple Interpretation

O best of the Bharatas, see here the different manifestations of Adityas, Rudras, and all the demigods. Behold the many things which no one has ever seen or heard before.

Hindi Interpretation

Bharatas का सबसे अच्छा है, यहाँ आदित्यों, रुद्रों की विभिन्न अभिव्यक्तियों, और सभी demigods देखते हैं। कोई भी कभी देखा है या पहले सुना गया है, जो कई बातें देख सकूँ।

Chapter 11 Verse 7

Chapter Name -The Universal Form

Sanskrit English

ihaika-stham jagat krtsnam
pasyadya sa-caracaram
mama dehe gudakesa
yac canyad drastum icchasi

Simple Interpretation

Whatever you wish to see can be seen all at once in this body. This universal form can show you all that you now desire, as well as whatever you may desire in the future. Everything is here completely.

Hindi Interpretation

आप सभी को एक बार इस शरीर में देखा जा सकता है देखना चाहते हैं जो भी हो। यह सार्वभौमिक रूप से आप अब आप भविष्य में इच्छा हो सकती है, जो कुछ भी है, साथ ही इच्छा है कि आप सभी को दिखा सकते हैं। सब कुछ पूरी तरह से यहाँ है।

Chapter 11 Verse 8

Chapter Name -The Universal Form

Sanskrit English

8

na tu mam sakyase drastum
anenaiva sva-caksusa
divyam dadami te caksuh
pasya me yogam aisvaram

Simple Interpretation

But you cannot see Me with your present eyes. Therefore I give to you divine eyes by which you can behold My mystic opulence.

Hindi Interpretation

लेकिन अगर आप अपने वर्तमान आंखों से मुझे नहीं देख सकते हैं। इसलिए मैं तुम्हें करने के लिए आप मेरे फकीर संपन्नता निहारना कर सकते हैं जिसके द्वारा दिव्य आँखें दे।

Chapter 11 Verse 9
Chapter Name -The Universal Form

Sanskrit English
sanjaya uvaca
evam uktva tato rajan
maha-yogesvaro harih
darsayam asa parthaya
paramam rupam aisvaram

Simple Interpretation
Sanjaya said: O King, speaking thus, the Supreme, the Lord of all mystic power, the Personality of Godhead, displayed His universal form to Arjuna.

Hindi Interpretation
"संजय ने कहा: हे राजा, इस प्रकार बोल रहा है, सुप्रीम, सभी रहस्यवादी सत्ता के प्रभु, देवत्व के व्यक्तित्व, अर्जुन को उसकी सार्वभौमिक फार्म का प्रदर्शन किया।

Chapter 11 Verse 9
Chapter Name -The Universal Form

Sanskrit English
aneka-vaktra-nayanam
anekadbhuta-darsanam
aneka-divyabharanam
divyanekodyatayudham

divya-malyambara-dharam
divya-gandhanulepanam
sarvascarya-mayam devam
anantam visvato-mukham

Simple Interpretation
Arjuna saw in that universal form unlimited mouths and unlimited eyes. It was all wondrous. The form was decorated with divine, dazzling ornaments and arrayed in many garbs. He was garlanded gloriously, and there were many scents smeared over His body. All was magnificent, all-expanding, unlimited. This was seen by Arjuna.

Hindi Interpretation
अर्जुन कि सार्वभौमिक रूप असीमित मुंह और असीमित आँखों में देखा। यह सब चमत्कारिक था। फार्म परमात्मा, चमकदार गहनों के साथ सजाया गया है और कई garbs में arrayed गया था। वह महाप्रतापी पर माल्यार्पण किया गया था, और उसके शरीर पर लिप्त कई scents के थे। सभी असीमित, सभी विस्तार, शानदार था। यह अर्जुन द्वारा देखा गया था

Chapter 11 Verse 12
Chapter Name -The Universal Form

Sanskrit English
divi surya-sahasrasya
bhaved yugapad utthita
yadi bhah sadrsi sa syad
bhasas tasya mahatmanah

Simple Interpretation
If hundreds of thousands of suns rose up at once into the sky, they might resemble the effulgence of the Supreme Person in that universal form.

Hindi Interpretation
सैकड़ों सूर्य के हजारों के आकाश में एक ही बार में उठकर, तो वे कहते हैं कि सार्वभौमिक रूप में सुप्रीम व्यक्ति की प्रभा सदृश हो सकता है।

Chapter 11 Verse 13
Chapter Name -The Universal Form

Sanskrit English
tatraika-stham jagat krtsnam
pravibhaktam anekadha
apasyad deva-devasya
sarire pandavas tada

Simple Interpretation
At that time Arjuna could see in the universal form of the Lord the unlimited expansions of the universe situated in one place although divided into many, many thousands.

Hindi Interpretation
बहुत से, कई हजारों में बांटा गया है, हालांकि उस समय अर्जुन प्रभु एक ही स्थान में स्थित ब्रह्मांड के असीमित विस्तार के सार्वभौमिक रूप में देख सकता है।

Chapter 11 Verse 14
Chapter Name -The Universal Form

Sanskrit English
tatah sa vismayavisto
hrsta-roma dhananjayah
pranamyasirasa devam
krtanjalis abhasata

Simple Interpretation
Then, bewildered and astonished, his hair standing on end, Arjuna began to pray with folded hands, offering

obeisances to the Supreme Lord.

Hindi Interpretation

फिर, घबराए और चकित, छोर पर खड़े उसके बाल, अर्जुन सुप्रीम प्रभु को दण्डवत प्रणाम पेशकश, हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे।

Chapter 11 Verse 15

Chapter Name -The Universal Form

Sanskrit English

arjuna uvaca

pasyami devams tava deva dehe
sarvams tatha bhuta-visesa-sanghan
brahmanam isam kamalāsana-stham
rsims ca sarvan uragams ca divyan

Simple Interpretation

Arjuna said: My dear Lord Krsna, I see assembled together in Your body all the demigods and various other living entities. I see Brahma sitting on the lotus flower as well as Lord Siva and many sages and divine serpents.

Hindi Interpretation

अर्जुन ने कहा: मेरे प्यारे प्रभु श्री कृष्ण, मैं अपने शरीर सब demigods और विभिन्न अन्य जीवित संस्थाओं में एक साथ इकट्ठे देखें। मैं ब्रह्मा कमल के फूल के साथ ही भगवान शिव और कई संतों और दिव्य नागों पर बैठे देखा।

Chapter 11 Verse 16

Chapter Name -The Universal Form

Sanskrit English

aneka-bahudara-vaktra-netram
pasyami tvam sarvato 'nanta-rupam
nantam na madhyam na punas tavadim
pasyami visvesvara visva-rupa

Simple Interpretation

O Lord of the universe, I see in Your universal body many, many forms--bellies, mouths, eyes--expanded without limit. There is no end, there is no beginning, and there is no middle to all this.

Hindi Interpretation

सीमा के बिना विस्तारित - आंख, पेट, मुंह - ब्रह्मांड की हे भगवान, मैं अपने सार्वभौमिक शरीर बहुत से, कई रूपों में देखते हैं। कोई अंत नहीं कोई शुरुआत है, वहाँ है, और यह सब करने के लिए कोई बीच है।

Chapter 11 Verse 17

Chapter Name -The Universal Form

Sanskrit English

kiritinam gadinam cakrinam ca
tejo-rasim sarvato diptimantam
pasyami tvam durniriksyam samantad
diptanalarka-dyutim aprameyam

Simple Interpretation

Your form, adorned with various crowns, clubs and discs, is difficult to see because of its glaring effulgence, which is fiery and immeasurable like the sun.

Hindi Interpretation

"विभिन्न मुकुट, क्लबों और डिस्क के साथ सजी आपका रूप है, क्योंकि उग्र और सूरज की तरह बहुत बड़ा है जो इसकी स्पष्ट प्रभा, देखने के लिए मुश्किल है।

Chapter 11 Verse 18

Chapter Name -The Universal Form

Sanskrit English

tvam aksaram paramam veditavyam
tvam asya visvasya param nidhanam
tvam avyayah sasvata-dharma-gopta
sanatanas tvam puruso mato me

Simple Interpretation

You are the supreme primal objective; You are the best in all the universes; You are inexhaustible, and You are the oldest; You are the maintainer of religion, the eternal Personality of Godhead.

Hindi Interpretation

"आप सर्वोच्च मौलिक उद्देश्य हैं, आप सभी ब्रह्मांडों में सबसे अच्छा कर रहे हैं, आप अटूट हैं, और आप सबसे पुराने हैं, आप धर्म के अनुरक्षक, देवत्व के शाश्वत व्यक्तित्व हैं।

Chapter 11 Verse 19

Chapter Name -The Universal Form

Sanskrit English

anadi-madhyantam ananta-viryam
ananta-bahum sasi-surya-netram
pasyami tvam dipta-hutasa-vaktram
sva-tejasa visvam idam tapantam

Simple Interpretation

You are the origin without beginning, middle or end. You have numberless arms, and the sun and moon are among Your great unlimited eyes. By Your own radiance You are heating this entire universe.

Hindi Interpretation

आप शुरुआत, मध्य या अंत के बिना मूल के हैं। आप अगणित हथियार हैं, और सूर्य और चंद्रमा आपके महान असीमित आंखों के बीच में हैं। अपनी खुद की चमक करके इस पूरे ब्रह्मांड गर्म कर रहे हैं।

Chapter 11 Verse 20

Chapter Name -The Universal Form

Sanskrit English

dyav a-prthivyor idam antaram hi
vyaptam tvayaikena disas ca sarvah
drstvadbhutam rupam ugram tavedam
loka-trayam pravyathitam mahatman

Simple Interpretation

Although You are one, You are spread throughout the sky and the planets and all space between. O great one, as I behold this terrible form, I see that all the planetary systems are perplexed.

Hindi Interpretation

आप एक कर रहे हैं, आप आकाश और ग्रहों के बीच सभी जगह भर में फैले हुए हैं। मैं इस भयानक रूप निहारना रूप हे महान एक है, मैं सभी ग्रह प्रणालियों उलझन में हैं कि देखते हैं।

Chapter 11 Verse 21

Chapter Name -The Universal Form

Sanskrit English

ami hi tvam sura-sangha visanti
kecid bhitah pranjalayo grnanti
svastity uktva maharsi-siddha-sanghah
stuvanti tvam stutibhih puskalabhih

Simple Interpretation

All the demigods are surrendering and entering into You. They are very much afraid, and with folded hands they are singing the Vedic hymns.

Hindi Interpretation

सभी demigods के समर्पण और आप में प्रवेश कर रहे हैं। वे बहुत ज्यादा डरते हैं, और हाथ जोड़कर वे वैदिक भजन गा रहे हैं।

Chapter 11 Verse 22

Chapter Name -The Universal Form

Sanskrit English

rudraditya vasavo ye ca sadhya

visve 'svinau marutas cosmapas ca
gandharva-yaksasura-siddha-sangha
viksante tvam vismitas caiva sarve

Simple Interpretation

The different manifestations of Lord Siva, the Adityas, the Vasus, the Sadhyas, the Visvedevas, the two Asvis, the Maruts, the forefathers and the Gandharvas, the Yaksas, Asuras, and all perfected demigods are beholding You in wonder.

Hindi Interpretation

"भगवान शिव, आदित्यों, वसुओं, Sadhyas, विश्वेदेव, दो Asvis, मरुद्गण, पूर्वजों और Gandharvas, Yaksas, Asuras, और सभी सिद्ध demigods की विभिन्न अभिव्यक्तियों आश्चर्य में आप beholding रहे हैं।

Chapter 11 Verse 23

Chapter Name -The Universal Form

Sanskrit English

rupam mahat te bahu-vaktra-netram
maha-baho bahu-bahuru-padam
bahudaram bahu-damstra-karalam
drstva lokah pravyathitas tathaham

Simple Interpretation

O mighty-armed one, all the planets with their demigods are disturbed at seeing Your many faces, eyes, arms, bellies and legs and Your terrible teeth, and as they are disturbed, so am I.

Hindi Interpretation

"हे शक्तिशाली हथियारों से लैस एक, उनके demigods के साथ सभी ग्रहों अपने कई चेहरे, आंखों, हाथ, पेट और पैरों और अपने भयानक दांत देखकर परेशान है, और वे परेशान कर रहे हैं, इसलिए मैं कर रहा हूँ रहे हैं

Chapter 11 Verse 24

Chapter Name -The Universal Form

Sanskrit English

nabhah-sprsam diptam aneka-varnam
vyattananam dipta-visala-netram
drstva hi tvam pravyathitantar-atma

dhrtim na vindami samam ca visno

Simple Interpretation

O all-pervading Visnu, I can no longer maintain my equilibrium. Seeing Your radiant colors fill the skies and beholding Your eyes and mouths, I am afraid.

Hindi Interpretation

"हे Visnu सभी सर्वव्यापी, मैं अब अपने संतुलन बनाए रख सकते हैं। अपने उज्ज्वल रंग आसमान भरने देखकर और अपनी आंखों और मुंह beholding, मुझे डर लग रहा।

Chapter 11 Verse 25

Chapter Name -The Universal Form

Sanskrit English

damstra-karalani ca te mukhani
drstvaiva kalanala-sannibhani
diso na jane na labhe ca sarma
prasida devesa jagan-nivasa

Simple Interpretation

O Lord of lords, O refuge of the worlds, please be gracious to me. I cannot keep my balance seeing thus Your blazing deathlike faces and awful teeth. In all directions I am bewildered.

Hindi Interpretation

"हे प्रभु यहोवा की, दुनिया की हे शरण, मेरे लिए अनुग्रह करें। मैं इस तरह देखकर अपने चेहरे और भयानक दांत मौत के अनुरूप प्रज्वलन अपना संतुलन नहीं रख सकते हैं। सभी दिशाओं में मैं व्यग्र हूँ।

Chapter 11 Verse 26-27

Chapter Name -The Universal Form

Sanskrit English

ami ca tvam dhrtarastrasya putrah
sarve sahaivavani-pala-sanghaih
bhismo dronah suta-putras tathasau
sahasmadiyair api yodha-mukhyaih

vaktrani te tvaramana visanti
damstra-karalani bhayanakani
kecid vilagna dasanantaresu
sandsyante curnitair uttamangaih

Simple Interpretation

All the sons of Dhrtarastra along with their allied kings, and Bhishma, Drona and Karna, and all our soldiers are rushing into Your mouths, their heads smashed by Your fearful teeth. I see that some are being crushed between Your teeth as well.

Hindi Interpretation

सभी उनके संबद्ध राजाओं के साथ साथ Dhrtarastra के बेटों, और भीष्म, द्रोण और कर्ण, और हमारे सभी सैनिकों को अपने मुंह में प्रवेश कर रहे हैं, उनके सिर आपका भयभीत दांत से तोड़ी। मैं कुछ के रूप में अच्छी तरह से अपने दांतों के बीच कुचल दिया जा रहा है कि देखते हैं।

Chapter 11 Verse 28

Chapter Name -The Universal Form

Sanskrit English

yatha nadinam bahavo 'mbu-vegah
samudram evabhimukha dravanti
tatha tavami nara-loka-vira
visanti vaktrany abhivijvalanti

Simple Interpretation

As the rivers flow into the sea, so all these great warriors enter Your blazing mouths and perish.

Hindi Interpretation

नदियों समुद्र में प्रवाह के रूप में ", तो इन सभी महान योद्धाओं आपका प्रज्वलन मुंह में प्रवेश और नाश।

Chapter 11 Verse 29

Chapter Name -The Universal Form

Sanskrit English

yatha pradiptam jvalanam patanga
visanti nasaya samrddha-vegah
tathaiva nasaya visanti lokas
tavapi vaktrani samrddha-vegah

Simple Interpretation

I see all people rushing with full speed into Your mouths as moths dash into a blazing fire.

Hindi Interpretation

"मैं पतंगों एक धधकते आग में पानी का छींटा के रूप में सभी लोगों को अपने मुंह में पूरी गति के साथ भागने में देखते हैं।

Chapter 11 Verse 30
Chapter Name -The Universal Form

Sanskrit English
lelihyase grasamanah samantal
lokan samagran vadanair jvaladbhih
tejobhir apurya jagat samagram
bhasas tavograh pratapanti visno

Simple Interpretation
O Visnu, I see You devouring all people in Your flaming mouths and covering the universe with Your immeasurable rays. Scorching the worlds, You are manifest.

Hindi Interpretation
"हे Visnu, मैं तुम्हें अपने ज्वलंत मुंह में सभी लोगों भक्षण और अपने अथाह किरणों के साथ ब्रह्मांड को कवर। दुनिया चिलचिलाती देखते हैं, आप प्रकट कर रहे हैं।

Chapter 11 Verse 31
Chapter Name -The Universal Form

Sanskrit English
akhyahi me ko bhavan ugra-rupo
namo 'stu te deva-vara prasida
vijnatum icchami bhavantam adyam
na hi prajanami tava pravrttim

Simple Interpretation
O Lord of lords, so fierce of form, please tell me who You are. I offer my obeisances unto You; please be gracious to me. I do not know what Your mission is, and I desire to hear of it.

Hindi Interpretation
। मेरे लिए अनुग्रह हो तो कृपया मैं अपने मिशन के लिए क्या है पता नहीं है, और मैं इसके बारे में सुनने के लिए इच्छा;। "लॉर्ड्स के हे प्रभु, फार्म की इतनी भयंकर, मैं तुमसे कहता मेरे obeisances प्रस्ताव आप कौन हैं कृपया मुझे बताओ।

Chapter 11 Verse 32
Chapter Name -The Universal Form

Sanskrit English
sri-bhagavan uvaca
kalo 'smi loka-ksaya-krt pravrdhho
lokan samahartum iha pravrttah

rte 'pi tvam na bhavisyanti sarve
ye 'vasthitah pratyanyikesu yodhah

Simple Interpretation

The Blessed Lord said: Time I am, destroyer of the worlds, and I have come to engage all people. With the exception of you [the Pandavas], all the soldiers here on both sides will be slain.

Hindi Interpretation

धन्य है प्रभु ने कहा: मैं, दुनिया का नाश कर रहा हूँ, और मैं सभी लोगों को शामिल करने के लिए आए हूँ समय। आप [पांडवों] के अपवाद के साथ, दोनों पक्षों पर यहाँ सभी सैनिकों को मार डाला किया जाएगा।

Chapter 11 Verse 33

Chapter Name -The Universal Form

Sanskrit English

tasmat tvam uttistha yaso labhasva
jitva satrun bhunksva rajyam samrddham
mayaivaite nihatah purvam eva
nimitta-matram bhava savya-sacin

Simple Interpretation

Therefore get up and prepare to fight. After conquering your enemies you will enjoy a flourishing kingdom. They are already put to death by My arrangement, and you, O Savyasaci, can be but an instrument in the fight.

Hindi Interpretation

इसलिए उठो और लड़ने के लिए तैयार करते हैं। अपने दुश्मनों को जीतने के बाद आप एक समृद्ध राज्य मज़ा आएगा। वे पहले से ही मेरे व्यवस्था से मौत के लिए डाल रहे हैं, और तुम, हे Savyasaci, हो सकता है लेकिन लड़ाई में एक साधन।

Chapter 11 Verse 34

Chapter Name -The Universal Form

Sanskrit English

dronam ca bhisam ca jayadratham ca
karnam tathanyan api yodha-viran
maya hatams tvam jahi ma vyathistha
yudhyasva jetasi rane sapatnan

Simple Interpretation

The Blessed Lord said: All the great warriors--Drona, Bhishma, Jayadratha, Karna--are already destroyed. Simply fight, and you will vanquish your enemies.

Hindi Interpretation

धन्य है प्रभु ने कहा: सभी महान योद्धाओं - द्रोण, भीष्म, Jayadratha, कर्ण - पहले से ही नष्ट कर रहे हैं। बस लड़ना है, और आप अपने दुश्मनों को जीतना होगा।

Chapter 11 Verse 35
Chapter Name -The Universal Form

Sanskrit English
sanjaya uvaca
etac chrutva vacanam kesavasya
krtanjalis vepamanah kiriti
namaskrtva bhuya evaha krsnam
sa-gadgadam bhita-bhitah pranamy

Simple Interpretation

Sanjaya said to Dhrtarastra: O King, after hearing these words from the Supreme Personality of Godhead, Arjuna trembled, fearfully offered obeisances with folded hands and began, falteringly, to speak as follows:

Hindi Interpretation

संजय Dhrtarastra से कहा: राजा हे, देवत्व की सुप्रीम व्यक्तित्व से इन शब्दों को सुनने के बाद, अर्जुन के रूप में निम्नानुसार बात करने के लिए, falteringly, हाथ जोड़कर भय सहित पेशकश दण्डवत प्रणाम कांप रहा और शुरू किया:

Chapter 11 Verse 36
Chapter Name -The Universal Form

Sanskrit English
arjuna uvaca
sthane hrsikesa tava prakirtya
jagat prahrsyaty anurajyate ca
raksamsi bhitani diso dravanti
sarve namasyanti ca siddha-sanghah

Simple Interpretation

O Hrsikesa, the world becomes joyful upon hearing Your name, and thus everyone becomes attached to You. Although the perfected beings offer You their respectful homage, the demons are afraid, and they flee here and there. All this is rightly done.

Hindi Interpretation

हे Hrsikesa, दुनिया को अपने नाम सुनने पर हर्षित हो जाता है, और इस तरह हर कोई आप से जुड़ी हो जाता है। सिद्ध प्राणियों आप उनके सम्मान श्रद्धांजलि प्रस्तुत करते हैं, राक्षसों से डर रहे हैं, और वे यहाँ और वहाँ से पलायन। यह सब ठीक ही किया जाता है।

Chapter 11 Verse 37
Chapter Name -The Universal Form

Sanskrit English
kasmac ca te na nameran mahatman
gariyase brahmano 'py adi-kartre
ananta devesa jagan-nivasa

tvam aksaram sad-asat tat param yat

Simple Interpretation

O great one, who stands above even Brahma, You are the original master. Why should they not offer their homage up to You, O limitless one? O refuge of the universe, You are the invincible source, the cause of all causes, transcendental to this material manifestation.

Hindi Interpretation

इसके बाद के संस्करण भी ब्रह्मा खड़ा है जो महान एक, आप मूल स्वामी हैं। क्यों वे आप को हे असीम एक उनकी श्रद्धांजलि ऊपर की पेशकश नहीं करनी चाहिए? ब्रह्मांड के ओ शरण, आप इस सामग्री अभिव्यक्ति को अजेय स्रोत, सभी कारणों के कारण, ट्रान्सेंडेंटल हैं।

Chapter 11 Verse 38

Chapter Name -The Universal Form

Sanskrit English

tvam adi-devah purusah puranas
tvam asya visvasya param nidhanam
vettasi vedyam ca param ca dhama
tvaya tatam visvam ananta-rupa

Simple Interpretation

You are the original Personality, the Godhead. You are the only sanctuary of this manifested cosmic world. You know everything, and You are all that is knowable. You are above the material modes O limitless form! This whole cosmic manifestation is pervaded by You!

Hindi Interpretation

आप मूल व्यक्तित्व, देवत्व हैं। आप इस प्रकट ब्रह्मांडीय दुनिया की एकमात्र अभयारण्य हैं। आप सब कुछ जानते हैं, और तुम सब है कि ज्ञेय है कर रहे हैं। आप सामग्री मोड हे असीम फार्म से ऊपर हैं! इस पूरे ब्रह्मांड की अभिव्यक्ति आप के द्वारा व्याप्त है!

Chapter 11 Verse 39

Chapter Name -The Universal Form

Sanskrit English

vayur yamo 'gnir varunah sasankah
prajapatis tvam prapitamahas ca
namo namas te 'stu sahasra-krtvah
punas ca bhuyo 'pi namo namas te

Simple Interpretation

You are air, fire, water, and You are the moon! You are the supreme controller and the grandfather. Thus I offer my respectful obeisances unto You a thousand times, and again and yet again!

Hindi Interpretation

आप वायु, अग्नि, जल रहे हैं, और आप चंद्रमा कर रहे हैं! आप सर्वोच्च नियंत्रक और दादा हैं। इस प्रकार मैं आप तक फिर से

और अभी तक फिर से एक हजार गुना, और मेरे सम्मान दण्डवत प्रणाम की पेशकश!

Chapter 11 Verse 40

Chapter Name -The Universal Form

Sanskrit English

namah purastad atha prsthatas te
namo 'stu te sarvata eva sarva
ananta-viryamita-vikramas tvam
sarvam samapnosi tato 'si sarvah

Simple Interpretation

Obeisances from the front, from behind and from all sides! O unbounded power, You are the master of limitless might! You are all-pervading, and thus You are everything!

Hindi Interpretation

पीछे से और सभी पक्षों से सामने से दण्डवत प्रणाम! हे असीम शक्ति है, तुम असीम शक्ति के मालिक हैं! आप सभी सर्वव्यापी कर रहे हैं, और इस तरह आप सब कुछ कर रहे हैं!

Chapter 11 Verse 41-42

Chapter Name -The Universal Form

Sanskrit English

sakheti matva prasabham yad uktam
he krsna he yadava he sakheti
ajanata mahimanam tavedam
maya pramadat pranayena vapi

yac cavahasartham asat-krto 'si
vihara-sayyasana-bhojanesu
eko 'tha vapy acyuta tat-samaksam
tat ksamaye tvam aham aprameyam

Simple Interpretation

I have in the past addressed You as "O Krsna," "O Yadava," "O my friend," without knowing Your glories. Please forgive whatever I may have done in madness or in love. I have dishonored You many times while relaxing or while lying on the same bed or eating together, sometimes alone and sometimes in front of many friends. Please excuse me for all my offenses.

Hindi Interpretation

मैं अपने अतीत गौरव जानने के बिना "हे कृष्ण," "हे यादव," "हे मेरे दोस्त," के रूप में आप को संबोधित में है। मैं पागलपन में या प्यार में किया हो सकता है जो कुछ भी माफ कर दीजिए। मैं आराम करते हुए या कई दोस्तों के सामने कभी कभी अकेले और कभी कभी, एक ही बिस्तर पर पड़े या एक साथ भोजन करते समय आप कई बार अपमान किया है। मेरे सारे अपराधों के लिए कृपया मुझे माफ करना

Chapter 11 Verse 43
Chapter Name -The Universal Form

Sanskrit English
pitasi lokasya caracarasya
tvam asya pujyas ca gurur gariyan
na tvat-samo 'sty abhyadhikah kuto 'nyo
loka-traye 'py apratima-prabhava

Simple Interpretation

You are the father of this complete cosmic manifestation, the worshipable chief, the spiritual master. No one is equal to You, nor can anyone be one with You. Within the three worlds, You are immeasurable.

Hindi Interpretation

आप इस पूरी लौकिक अभिव्यक्ति के पिता, worshipable प्रमुख आध्यात्मिक गुरु हैं। कोई तुम्हें करने के लिए बराबर है, और न ही किसी को आप के साथ हो सकता है। तीनों लोकों के भीतर, आप अथाह हैं।

Chapter 11 Verse 44
Chapter Name -The Universal Form

Sanskrit English
tasmat pranamya pranidhaya kayam
prasadaye tvam aham isam idyam
piteva putrasya sakheva sakhyuh
priyah priyayarhasi deva sodhum

Simple Interpretation

You are the Supreme Lord, to be worshiped by every living being. Thus I fall down to offer You my respects and ask Your mercy. Please tolerate the wrongs that I may have done to You and bear with me as a father with his son, or a friend with his friend, or a lover with his beloved.

Hindi Interpretation

आप हर प्राणी द्वारा पूजा की जा सुप्रीम प्रभु हैं। इस प्रकार मैं तुम्हें अपने सम्मान प्रदान करते हैं और आपकी दया पूछने के लिए नीचे गिर जाते हैं। मैं अपने बेटे के साथ एक पिता, या अपने दोस्त के साथ एक दोस्त है, या उसकी प्रेमिका के साथ एक प्रेमी के रूप में मेरे साथ आप के लिए किया जाता है और सहन हो सकता है कि खामियों को सहन करें

Chapter 11 Verse 45
Chapter Name -The Universal Form

Sanskrit English
adrsta-purvam hrsito 'smi drstva
bhayena ca pravayathitam mano me
tad eva me darsaya deva rupam
prasida devesa jagan-nivasa

Simple Interpretation

After seeing this universal form, which I have never seen before, I am gladdened, but at the same time my mind is disturbed with fear. Therefore please bestow Your grace upon me and reveal again Your form as the Personality of Godhead, O Lord of lords, O abode of the universe.

Hindi Interpretation

आप हर प्राणी द्वारा पूजा की जा सुप्रीम प्रभु हैं। इस प्रकार मैं तुम्हें अपने सम्मान प्रदान करते हैं और आपकी दया पूछने के लिए नीचे गिर जाते हैं। मैं अपने बेटे के साथ एक पिता, या अपने दोस्त के साथ एक दोस्त हूँ, या उसकी प्रेमिका के साथ एक प्रेमी के रूप में मेरे साथ आप के लिए किया जाता है और सहन हो सकता है कि खामियों को सहन करें।..

Chapter 11 Verse 46

Chapter Name -The Universal Form

Sanskrit English

kiritinam gadinam cakra-hastam
icchami tvam drastum aham tathaiva
tenaiva rupena catur-bhujena
sahasra-baho bhava visva-murte

Simple Interpretation

O universal Lord, I wish to see You in Your four-armed form, with helmeted head and with club, wheel, conch and lotus flower in Your hands. I long to see You in that form.

Hindi Interpretation

आप हर प्राणी द्वारा पूजा की जा सुप्रीम प्रभु हैं। इस प्रकार मैं तुम्हें अपने सम्मान प्रदान करते हैं और आपकी दया पूछने के लिए नीचे गिर जाते हैं। मैं अपने बेटे के साथ एक पिता, या अपने दोस्त के साथ एक दोस्त हूँ, या उसकी प्रेमिका के साथ एक प्रेमी के रूप में मेरे साथ आप के लिए किया जाता है और सहन हो सकता है कि खामियों को सहन करें।.....

Chapter 11 Verse 47

Chapter Name -The Universal Form

Sanskrit English

sri-bhagavan uvaca
maya prasannena tavarjunedam
rupam param darsitam atma-yogat
tejo-mayam visvam anantam adyam
yan me tvad anyena na drsta-purvam

Simple Interpretation

The Blessed Lord said: My dear Arjuna, happily do I show you this universal form within the material world by My internal potency. No one before you has ever seen this unlimited and glaringly effulgent form.

Hindi Interpretation

आप हर प्राणी द्वारा पूजा की जा सुप्रीम प्रभु हैं। इस प्रकार मैं तुम्हें अपने सम्मान प्रदान करते हैं और आपकी दया पूछने के लिए नीचे गिर जाते हैं। मैं अपने बेटे के साथ एक पिता, या अपने दोस्त के साथ एक दोस्त हूँ, या उसकी प्रेमिका के साथ एक

प्रेमी के रूप में मेरे साथ आप के लिए किया जाता है और सहन हो सकता है कि खामियों को सहन करें।.....

Chapter 11 Verse 48

Chapter Name -The Universal Form

Sanskrit English

na veda-yajnadyayanair na danair
na ca kriyabhir na tapobhir ugraih
evam-rupah sakya aham nr-loke
drastum tvad anyena kuru-pravira

Simple Interpretation

O best of the Kuru warriors, no one before you has ever seen this universal form of Mine, for neither by studying the Vedas, nor by performing sacrifices, nor by charities or similar activities can this form be seen. Only you have seen this.

Hindi Interpretation

हे कुरु योद्धाओं का सबसे अच्छा, इससे पहले कि आप कोई भी कभी भी मेरा यह सार्वभौमिक रूप में देखा गया है, न तो वेदों का अध्ययन करके, और न ही प्रदर्शन कर बलिदानों से, और न ही दान या इसी तरह की गतिविधियों के लिए इस प्रपत्र को देखा जा सकता है। सिर्फ आप इस देखा है।

Chapter 11 Verse 49

Chapter Name -The Universal Form

Sanskrit English

ma te vyatha ma ca vimudha-bhavo
drstva rupam ghoram idrn mamedam
vyapeta-bhiih prita-manah punas tvam
tad eva me rupam idam prapasya

Simple Interpretation

Your mind has been perturbed upon seeing this horrible feature of Mine. Now let it be finished. My devotee, be free from all disturbance. With a peaceful mind you can now see the form you desire.

Hindi Interpretation

आपका मन मेरा यह भयानक सुविधा देखने पर परेशान किया गया है। अब यह खत्म हो जाने दो। मेरा भक्त, सभी अशांति से मुक्त हो। एक शांतिपूर्ण मन के साथ आप अब आप की इच्छा प्रपत्र देख सकते हैं।

Chapter 11 Verse 50

Chapter Name -The Universal Form

Sanskrit English

sanjaya uvaca
ity arjunam vasudevas tathoktva

svakam rupam darsayam asa bhuyah
asvasayam asa ca bhitam enam
bhutva punah saumya-vapur mahatma

Simple Interpretation

Sanjaya said to Dhrtarastra: The Supreme Personality of Godhead, Krsna, while speaking thus to Arjuna, displayed His real four-armed form, and at last He showed him His two-armed form, thus encouraging the fearful Arjuna.

Hindi Interpretation

अर्जुन को इस प्रकार से बोल रहा है, जबकि उसका असली चार हथियारबंद प्रपत्र प्रदर्शित, और अंत में वह इस प्रकार भयभीत अर्जुन को प्रोत्साहित करने, उसे अपने दो सशस्त्र फॉर्म दिखाया है, देवत्व, कृष्ण की सुप्रीम व्यक्तित्व: संजय Dhrtarastra करने के लिए कहा।

Chapter 11 Verse 51

Chapter Name -The Universal Form

Sanskrit English

arjuna uvaca
drstvedam manusam rupam
tava saumyam janardana
idanim asmi samvrttah
sa-cetah prakrtim gatah

Simple Interpretation

When Arjuna thus saw Krsna in His original form, he said: Seeing this humanlike form, so very beautiful, my mind is now pacified and I am restored to my original nature.

Hindi Interpretation

अर्जुन इस प्रकार उनके मूल रूप में कृष्ण को देखा, उन्होंने कहा: इस humanlike रूप है, तो बहुत सुंदर है, मेरे मन में अब शांत है और मैं अपने मूल स्वभाव को बहाल कर रहा हूँ देखकर।

Chapter 11 Verse 52

Chapter Name -The Universal Form

Sanskrit English

sri-bhagavan uvaca
su-durdarsam idam rupam
drstavan asi yan mama
deva apy asya rupasya
nityam darsana-kanksinah

Simple Interpretation

The Blessed Lord said: My dear Arjuna, the form which you are now seeing is very difficult to behold. Even the demigods are ever seeking the opportunity to see this form which is so dear.

Hindi Interpretation

धन्य है प्रभु ने कहा: मेरे प्यारे अर्जुन, अब आप देख रहे हैं जो फार्म निहारना करने के लिए बहुत मुश्किल है। यहां तक कि demigods कभी इतनी प्रिय है जो इस प्रपत्र को देखने के लिए अवसर की मांग कर रहे हैं।

Chapter 11 Verse 53

Chapter Name -The Universal Form

Sanskrit English

naham vedair na tapasa
na danena na cejyaya
sakya evam-vidho drastum
drstavan asi mam yatha

Simple Interpretation

The form which you are seeing with your transcendental eyes cannot be understood simply by studying the Vedas, nor by undergoing serious penances, nor by charity, nor by worship. It is not by these means that one can see Me as I am.

Hindi Interpretation

आप अपने दिव्य आँखों से देख रहे हैं जो फार्म बस वेदों का अध्ययन करके, और न ही, और न ही दान से, और न ही पूजा ने गंभीर तपस्या के दौर से गुजर द्वारा नहीं समझा जा सकता। यह मैं हूँ के रूप में एक मुझे देख सकते हैं कि इन तरीकों से नहीं है।

Chapter 11 Verse 54

Chapter Name -The Universal Form

Sanskrit English

bhaktya tv ananyaya sakya
aham evam-vidho 'rjuna
jnatum drastum ca tattvena
pravestum ca parantapa

Simple Interpretation

My dear Arjuna, only by undivided devotional service can I be understood as I am, standing before you, and can thus be seen directly. Only in this way can you enter into the mysteries of My understanding.

Hindi Interpretation

केवल अविभाजित भक्ति सेवा से मेरे प्यारे अर्जुन, मैं कर रहा हूँ के रूप में मैं आप से पहले खड़ा है, समझा जा सकता है, और इस प्रकार सीधे देखा जा सकता है। केवल इस तरह आप मेरी समझ के रहस्यों में प्रवेश कर सकते हैं।

Chapter 11 Verse 55

Chapter Name -Devotional Service

Sanskrit English

mat-karma-krn mat-paramo

mad-bhaktah sanga-varjitah
nirvairah sarva-bhutesu
yah sa mam eti pandava

Simple Interpretation

My dear Arjuna, one who is engaged in My pure devotional service, free from the contaminations of previous activities and from mental speculation, who is friendly to every living entity, certainly comes to Me.

Hindi Interpretation

पिछले गतिविधियों का संदूषण से और रहने वाले हर इकाई के लिए अनुकूल है, जो मानसिक अटकलों से मुक्त मेरे प्यारे अर्जुन, मेरा शुद्ध भक्ति सेवा में लगी हुई है जो एक, निश्चित रूप से मेरे पास आता है।

Chapter 12 Verse 1

Chapter Name -Devotional Service

Sanskrit English
arjuna uvaca
evam satata-yukta ye
bhaktas tvam paryupasate
ye capy aksaram avyaktam
tesam ke yoga-vittamah

Simple Interpretation

Arjuna inquired: Which is considered to be more perfect, those who are properly engaged in Your devotional service, or those who worship the impersonal Brahman, the unmanifested?

Hindi Interpretation

अर्जुन पूछा: अधिक सही माना जाता है, जो ठीक से अपने भक्ति सेवा में लगे हुए हैं, या अवैयक्तिक ब्रह्म की पूजा करते हैं जो लोग, अव्यक्त कर रहे हैं जो लोग?

Chapter 12 Verse 2

Chapter Name -Devotional Service

Sanskrit English
sri-bhagavan uvaca
mayy avesya mano ye mam
nitya-yukta upasate
sraddhaya parayopetas
te me yuktatama matah

Simple Interpretation

The Blessed Lord said: He whose mind is fixed on My personal form, always engaged in worshiping Me with great and transcendental faith, is considered by Me to be most perfect.

Hindi Interpretation

धन्य है प्रभु ने कहा: जिसका मन हमेशा महान और दिव्य विश्वास के साथ मुझे पूजा में लगे हुए मेरा व्यक्तिगत रूप है, पर

तय हो गई है वह सबसे उत्तम होने के लिए मेरे द्वारा माना जाता है।

Chapter 12 Verse 41702
Chapter Name -Devotional Service

Sanskrit English
ye tv aksaram anirdesyam
avyaktam paryupasate
sarvatra-gam acintyam ca
kuta-stham acalam dhruvam

sanniyamyendriya-gramam
sarvatra sama-buddhayah
te prapnuvanti mam eva
sarva-bhuta-hite ratah

Simple Interpretation

But those who fully worship the unmanifested, that which lies beyond the perception of the senses, the all-pervading, inconceivable, fixed and immovable--the impersonal conception of the Absolute Truth--by controlling the various senses and being equally disposed to everyone, such persons, engaged in the welfare of all, at last achieve Me.

Hindi Interpretation

लेकिन होश की धारणा से परे है, जो पूरी तरह से अव्यक्त पूजा जो लोग, कि, सभी सर्वव्यापी, फिक्स्ड और अचल, समझ से बाहर है - निरपेक्ष सत्य के व्यक्तिगत विचारों - विभिन्न इंद्रियों को नियंत्रित करने और सभी के लिए समान रूप से निपटाया जा रहा द्वारा सभी के कल्याण में लगे ऐसे व्यक्तियों, पर पिछली बार मेरे हासिल

Chapter 12 Verse 5
Chapter Name -Devotional Service

Sanskrit English
kleso 'dhikataras tesam
avyaktasakta-cetasam
avyakta hi gatih duhkham
dehavadbhir avapyate

Simple Interpretation

For those whose minds are attached to the unmanifested, impersonal feature of the Supreme, advancement is very troublesome. To make progress in that discipline is always difficult for those who are embodied.

Hindi Interpretation

जिसका मन सुप्रीम की अव्यक्त, अव्यक्तिक सुविधा से जुड़े होते हैं उन लोगों के लिए, उन्नति बहुत परेशानी है। कि अनुशासन में प्रगति करने के लिए सन्निहित हैं जो उन लोगों के लिए हमेशा मुश्किल होता है।

Chapter 12 Verse 41797
Chapter Name -Devotional Service

Sanskrit English
ye tu sarvani karmani
mayi sannyasya mat-parah
ananyenaiva yogena
mam dhyayanta upasate

tesam aham samuddharta
mrtyu-samsara-sagarat
bhavami na cirat partha
mayy avesita-cetasam

Simple Interpretation

For one who worships Me, giving up all his activities unto Me and being devoted to Me without deviation, engaged in devotional service and always meditating upon Me, who has fixed his mind upon Me, O son of Prtha, for him I am the swift deliverer from the ocean of birth and death.

Hindi Interpretation

जिसका मन सुप्रीम की अव्यक्त, अवैयक्तिक सुविधा से जुड़े होते हैं उन लोगों के लिए, उन्नति बहुत परेशानी है। कि अनुशासन में प्रगति करने के लिए सन्निहित हैं जो उन लोगों के लिए हमेशा मुश्किल होता है।...

Chapter 12 Verse 8
Chapter Name -Devotional Service

Sanskrit English
mayy eva mana adhatsva
mayi buddhim nivesaya
nivasisyasi mayy eva
ata urdhvam na samsayah

Simple Interpretation

Just fix your mind upon Me, the Supreme Personality of Godhead, and engage all your intelligence in Me. Thus you will live in Me always, without a doubt.

Hindi Interpretation

बस मुझे पर देवत्व की सुप्रीम व्यक्तित्व अपने मन को ठीक, और मुझ में आपके सभी खुफिया संलग्न हैं। इस प्रकार आप एक शक के बिना, मुझे हमेशा जीवित रहेगा।

Chapter 12 Verse 9
Chapter Name -Devotional Service

Sanskrit English
atha cittam samadhatum
na saknosi mayi sthiram
abhyasa-yogena tato

mam icchaptum dhananjaya

Simple Interpretation

My dear Arjuna, O winner of wealth, if you cannot fix your mind upon Me without deviation, then follow the regulated principles of bhakti-yoga. In this way you will develop a desire to attain to Me.

Hindi Interpretation

आप विचलन के बिना मुझ पर अपने मन ठीक नहीं कर सकता अगर मेरे प्यारे अर्जुन, धन के हे विजेता, तो भक्ति-योग के विनियमित सिद्धांतों का पालन करें। इस तरह तुम मुझे करने को पाने की इच्छा का विकास होगा।

Chapter 12 Verse 10

Chapter Name -Devotional Service

Sanskrit English

abhyase 'py asamartho 'si
mat-karma-paramo bhava
mad-artham api karmani
kurvan siddhim avapsyasi

Simple Interpretation

If you cannot practice the regulations of bhakti-yoga, then just try to work for Me, because by working for Me you will come to the perfect stage.

Hindi Interpretation

आप भक्ति-योग के नियमों का पालन नहीं कर सकते, तो सिर्फ मेरे लिए काम करके आप सही मंच पर आ जाएगा, क्योंकि मेरे लिए काम करने के लिए प्रयास करें।

Chapter 12 Verse 11

Chapter Name -Devotional Service

Sanskrit English

athaitad apy asakto 'si
kartum mad-yogam asritah
sarva-karma-phala-tyagam
tatah kuru yatatmavan

Simple Interpretation

If, however, you are unable to work in this consciousness, then try to act giving up all results of your work and try to be self-situated.

Hindi Interpretation

बहरहाल, आप तो, इस चेतना में काम करने में असमर्थ हैं, तो अपने काम के सभी परिणामों को दे अभिनय और आत्म-स्थित होना करने के लिए प्रयास करने के लिए प्रयास करें।

Chapter 12 Verse 12

Chapter Name -Devotional Service

Sanskrit English

sreyo hi jnanam abhyasaj
jnanad dhyanam visisyate
dhyanat karma-phala-tyagas
tyagac chantir anantaram

Simple Interpretation

If you cannot take to this practice, then engage yourself in the cultivation of knowledge. Better than knowledge, however, is meditation, and better than meditation is renunciation of the fruits of action, for by such renunciation one can attain peace of mind.

Hindi Interpretation

यदि आप इस अभ्यास के लिए नहीं ले जा सकते हैं, तो ज्ञान की खेती में अपने आप को व्यस्त हैं। ज्ञान की तुलना में बेहतर है, हालांकि, ध्यान है, और इस तरह के त्याग से एक मन की शांति प्राप्त कर सकते हैं के लिए ध्यान की तुलना में बेहतर है, कार्रवाई के फल का त्याग है।

Chapter 12 Verse 13-14

Chapter Name -Devotional Service

Sanskrit English

advesta sarva-bhutanam
maitrah karuna eva ca
nirmamo nirahankarah
sama-duhkha-sukhah ksami

santustah satatam yogi
yatatma drdha-niscayah
mayy arpita-mano-buddhir
yo mad-bhaktah sa me priyah

Simple Interpretation

One who is not envious but who is a kind friend to all living entities, who does not think himself a proprietor, who is free from false ego and equal both in happiness and distress, who is always satisfied and engaged in devotional service with determination and whose mind and intelligence are in agreement with Me--he is very dear to Me.

Hindi Interpretation

ईर्ष्या नहीं है, लेकिन जो एक है जो खुद को दोनों हमेशा संतुष्ट और दृढ़ संकल्प और साथ भक्ति सेवा में लगे हुए है, जो खुशी और संकट में बराबर और झूठे अहंकार से मुक्त है, जो एक मालिक, लगता नहीं है जो सभी जीवित संस्थाओं, के लिए एक तरह का दोस्त है जिसका मन और बुद्धि मेरे साथ समझौते में हैं - वह मुझे बहुत प्रिय है

Chapter 12 Verse 15

Chapter Name -Devotional Service

Sanskrit English
yasman nodvijate loko
lokan nodvijate ca yah
harsamarsa-bhayodvegair
mukto yah sa ca me priyah

Simple Interpretation
He for whom no one is put into difficulty and who is not disturbed by anxiety, who is steady in happiness and distress, is very dear to Me.

Hindi Interpretation
उन्होंने कहा कि जिसे कोई भी कठिनाई में डाल दिया है और जो खुशी और संकट में स्थिर है, जो चिंता, से परेशान नहीं है, मुझे बहुत प्रिय है।

Chapter 12 Verse 16
Chapter Name -Devotional Service

Sanskrit English
anapeksah sucir daksa
udasino gata-vyathah
sarvarambha-parityagi
yo mad-bhaktah sa me priyah

Simple Interpretation
A devotee who is not dependent on the ordinary course of activities, who is pure, expert, without cares, free from all pains, and who does not strive for some result, is very dear to Me.

Hindi Interpretation
बिना शुद्ध है, जो गतिविधियों, विशेषज्ञ के सामान्य पाठ्यक्रम पर निर्भर नहीं है, जो एक भक्त सब दर्द से मुक्त, परवाह है, और जो कुछ परिणाम के लिए प्रयास नहीं करता है, मुझे बहुत प्रिय है।

Chapter 12 Verse 17
Chapter Name -Devotional Service

Sanskrit English
yo na hrsyati na dvesti
na socati na kanksati
subhasubha-parityagi
bhaktiman yah sa me priyah

Simple Interpretation
One who neither grasps pleasure or grief, who neither laments nor desires, and who renounces both auspicious and inauspicious things, is very dear to Me.

Hindi Interpretation
शुभ और अशुभ दोनों चीजों का परित्याग, और जो न तो अफसोस जताया है और न ही इच्छाओं, मुझे बहुत प्रिय है, जो खुशी या

दुख, grasps जो न तो एक।

Chapter 12 Verse 18-19
Chapter Name -Devotional Service

Sanskrit English
samah satrau ca mitre ca
tatha manapamanayoh
sitosna-sukha-duhkhesu
samah sanga-vivarjitah

tulya-ninda-stutir mauni
santusto yena kenacit
aniketah sthira-matir
bhaktiman me priyo narah

Simple Interpretation

One who is equal to friends and enemies, who is equipoised in honor and dishonor, heat and cold, happiness and distress, fame and infamy, who is always free from contamination, always silent and satisfied with anything, who doesn't care for any residence, who is fixed in knowledge and engaged in devotional service, is very dear to Me.

Hindi Interpretation

किसी के लिए कोई परवाह नहीं है, जो सम्मान और अपमान, हमेशा चुप और कुछ के साथ संतुष्ट, संक्रमण से हमेशा के लिए मुक्त है, जो गर्मी और सर्दी, खुशी और संकट, शोहरत और बदनामी, मैं equipoised है जो दोस्तों और दुश्मनों के बराबर है जो एक, ज्ञान में तय की और भक्ति सेवा में लगी हुई है, जो निवास, मुझे बहुत प्रिय है

Chapter 12 Verse 20
Chapter Name -Nature, the Enjoyer, and Consciousness

Sanskrit English
ye tu dharmamrtam idam
yathoktam paryupasate
sraddadhana mat-parama
bhaktas te 'tiva me priyah

Simple Interpretation

He who follows this imperishable path of devotional service and who completely engages himself with faith, making Me the supreme goal, is very, very dear to Me.

Hindi Interpretation

भक्ति सेवा के इस अविनाशी पथ का अनुसरण कौन है और मुझे पूरी तरह से सर्वोच्च लक्ष्य बना रही है, विश्वास के साथ खुद को संलग्न है, जो उन्होंने मेरे लिए बहुत, बहुत प्रिय है।

Chapter 13 Verse 41641

Chapter Name -Nature, the Enjoyer, and Consciousness

Sanskrit English
arjuna uvaca
prakrtim purusam caiva
ksetram ksetra-jnam eva ca
etad veditum icchami
jnanam jneyam ca kesava

sri-bhagavan uvaca
idam sariram kaunteya
ksetram ity abhidhiyate
etad yo vetti tam prahuh
ksetra-jna iti tad-vidah

Simple Interpretation

Arjuna said: O my dear Krsna, I wish to know about prakrti [nature], purusa [the enjoyer], and the field and the knower of the field, and of knowledge and the end of knowledge. The Blessed Lord then said: This body, O son of Kunti, is called the field, and one who knows this body is called the knower of the field.

Hindi Interpretation

अर्जुन ने कहा: मेरे प्रिय कृष्ण हे, मैं prakrti [प्रकृति] के बारे में पता करने के लिए, purusa [enjoyer], और मैदान और मैदान के ज्ञाता, और ज्ञान की और ज्ञान का अंत चाहते हैं। धन्य है प्रभु फिर कहा: यह शरीर, कुंती के हे पुत्र, क्षेत्र कहा जाता है, और यह शरीर के कौन जानता है कि एक क्षेत्र का ज्ञाता कहा जाता है

Chapter 13 Verse 3

Chapter Name -Nature, the Enjoyer, and Consciousness

Sanskrit English
ksetra-jnam capi mam viddhi
sarva-ksetresu bhārata
ksetra-ksetrajñayor jñanam
yat taj jñanam matam mama

Simple Interpretation

O scion of Bharata, you should understand that I am also the knower in all bodies, and to understand this body and its owner is called knowledge. That is My opinion.

Hindi Interpretation

हे भरत वंशज, तुम मुझे भी सभी निकायों में ज्ञाता हूँ कि समझना चाहिए, और इस शरीर को समझने के लिए और अपने मालिक ज्ञान कहा जाता है। यही कारण है कि मेरी राय है।

Chapter 13 Verse 4

Chapter Name -Nature, the Enjoyer, and Consciousness

Sanskrit English

tat ksetram yac ca yadrk ca
yad-vikari yatas ca yat
sa ca yo yat-prabhavas ca
tat samasena me srnu

Simple Interpretation

Now please hear My brief description of this field of activity and how it is constituted, what its changes are, whence it is produced, who that knower of the field of activities is, and what his influences are.

Hindi Interpretation

अब गतिविधियों के क्षेत्र की है कि ज्ञाता है, और उसके प्रभावों क्या कर रहे हैं, जो यह उत्पादन किया जाता है जिस कारण से, अपने परिवर्तन कर रहे हैं क्या मेरी संक्षिप्त गतिविधि के इस क्षेत्र का वर्णन है और यह कैसे गठन किया जाता है, सुन करें।

Chapter 13 Verse 5

Chapter Name -Nature, the Enjoyer, and Consciousness

Sanskrit English
rsibhir bahudha gitam
chandobhir vividhah prthak
brahma-sutra-padais caiva
hetumadbhir viniscitaih

Simple Interpretation

That knowledge of the field of activities and of the knower of activities is described by various sages in various Vedic writings--especially in the Vedanta-sutra--and is presented with all reasoning as to cause and effect.

Hindi Interpretation

विशेष रूप से वेदांत-सूत्र में - - गतिविधियों की और गतिविधियों के ज्ञाता के क्षेत्र का ज्ञान है कि विभिन्न वैदिक लेखन में विभिन्न संतों द्वारा वर्णित है और कारण और प्रभाव के रूप में सभी तर्क के साथ प्रस्तुत किया है।

Chapter 13 Verse 41797

Chapter Name -Nature, the Enjoyer, and Consciousness

Sanskrit English
maha-bhutany ahankaro
buddhir avyaktam eva ca
indriyani dasaikam ca
panca cendriya-gocarah

iccha dvesah sukham dukkham
sanghatas cetana dhrtih
etat ksetram samasena
sa-vikaram udahrtam

Simple Interpretation

The five great elements, false ego, intelligence, the unmanifested, the ten senses, the mind, the five sense objects, desire, hatred, happiness, distress, the aggregate, the life symptoms, and convictions--all these are

considered, in summary, to be the field of activities and its interactions.

Hindi Interpretation

पांच महान तत्वों, झूठे अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त, दस इंद्रियों, मन, पांच भावना वस्तुओं, इच्छा, घृणा, खुशी, संकट, कुल, जीवन के लक्षण, और प्रतिबद्धता - इन सभी में, माना जाता है सारांश, गतिविधियों और अपनी बातचीत के क्षेत्र होने के लिए।

Chapter 13 Verse 41863

Chapter Name -Nature, the Enjoyer, and Consciousness

Sanskrit English

amanitvam adambhitvam
ahimsa ksantir arjavam
acaryopasanam saucam
sthairyam atma-vinigraha

indriyarthesu vairagyam
anahankara eva ca
janma-mrtyu-jara-vyadhi-
duhkha-dosanudarsanam

asaktir anabhisvanga
putra-dara-grhadisu
nityam ca sama-cittatvam
istanistopapattisu

mayi cananya-yogena
bhaktir avyabharini
vivikta-desa-sevitvam
aratir jana-samsadi

adhyatma-jnana-nityatvam
tattva-jnanartha-darsanam
etaj jnanam iti proktam
ajnanam yad ato 'nyatha

Simple Interpretation

Humility, pridelessness, nonviolence, tolerance, simplicity, approaching a bona fide spiritual master, cleanliness, steadiness and self-control; renunciation of the objects of sense gratification, absence of false ego, the perception of the evil of birth, death, old age and disease; nonattachment to children, wife, home and the rest, and even-mindedness amid pleasant and unpleasant events; constant and unalloyed devotion to Me, resorting to solitary places, detachment from the general mass of people; accepting the importance of self-realization, and philosophical search for the Absolute Truth--all these I thus declare to be knowledge, and what is contrary to these is ignorance.

Hindi Interpretation

विनम्रता, pridelessness, अहिंसा, सहिष्णुता, सादगी, आ एक सदाशयी आध्यात्मिक गुरु, सफाई, स्थिरता और आत्म नियंत्रण; भावना संतुष्टि, झूठे अहंकार, जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था और बीमारी की बुराई की धारणा के अभाव की वस्तुओं का त्याग; बच्चों, पत्नी, घर और बाकी है, और सुखद और अप्रिय घटनाओं के बीच भी उदारता को अनासक्ति; एकान्त स्थानों,

लोगों के सामान्य जन से सेना की टुकड़

Chapter 13 Verse 13

Chapter Name -Nature, the Enjoyer, and Consciousness

Sanskrit English

jneyam yat tat pravaksyami
yaj jnatvamrtam asnute
anadi mat-param brahma
na sat tan nasad ucyate

Simple Interpretation

I shall now explain the knowable, knowing which you will taste the eternal. This is beginningless, and it is subordinate to Me. It is called Brahman, the spirit, and it lies beyond the cause and effect of this material world.

Hindi Interpretation

में अब, ज्ञेय की व्याख्या आप अनन्त स्वाद होगा जो जानते हुए भी करेगा। इस beginningless है, और यह मेरे लिए अधीनस्थ है। यह ब्रह्म, आत्मा कहा जाता है, और यह कारण है और इस सामग्री दुनिया के प्रभाव से परे निहित है।

Chapter 13 Verse 14

Chapter Name -Nature, the Enjoyer, and Consciousness

Sanskrit English

sarvatah pani-padam tat
sarvato 'ksi-siro-mukham
sarvatah srutimal loka
sarvam avrtya tisthati

Simple Interpretation

Everywhere are His hands and legs, His eyes and faces, and He hears everything. In this way the Supersoul exists.

Hindi Interpretation

हर जगह अपने हाथों और पैरों, उसकी आंखों और चेहरे हैं, और वह सब कुछ सुनता है। इस रास्ते में Supersoul मौजूद है।

Chapter 13 Verse 15

Chapter Name -Nature, the Enjoyer, and Consciousness

Sanskrit English

sarvendriya-gunabhasam
sarvendriya-vivarjitam
asaktam sarva-bhrc caiva
nirgunam guna-bhoktr ca

Simple Interpretation

The Supersoul is the original source of all senses, yet He is without senses. He is unattached, although He is the

maintainer of all living beings. He transcends the modes of nature, and at the same time He is the master of all modes of material nature.

Hindi Interpretation

Supersoul के सभी इंद्रियों के मूल स्रोत है, अभी तक वह होश के बिना है। उन्होंने कहा कि सभी जीवित प्राणियों के अनुरक्षक है, हालांकि वह स्वाधीन है। उन्होंने कहा कि प्रकृति के मोड अतिक्रमण है, और एक ही समय में वह सामग्री प्रकृति के सभी साधनों का गुरु है।

Chapter 13 Verse 16

Chapter Name -Nature, the Enjoyer, and Consciousness

Sanskrit English

bahir antas ca bhutanam
acaram caram eva ca
suksmatvat tad avijneyam
durastham cantike ca tat

Simple Interpretation

The Supreme Truth exists both internally and externally, in the moving and nonmoving. He is beyond the power of the material senses to see or to know. Although far, far away, He is also near to all.

Hindi Interpretation

सुप्रीम सत्य चलती है और nonmoving में, दोनों आंतरिक और बाह्य मौजूद है। सामग्री की शक्ति को देखने के लिए या पता करने के लिए इंद्रियों से परे वह है। अब तक हालांकि, बहुत दूर, वह सब करने के लिए पास भी है।

Chapter 13 Verse 17

Chapter Name -Nature, the Enjoyer, and Consciousness

Sanskrit English

avibhaktam ca bhutesu
vibhaktam iva ca sthitam
bhuta-bhartr ca taj jneyam
grasisnu prabhavisnu ca

Simple Interpretation

Although the Supersoul appears to be divided, He is never divided. He is situated as one. Although He is the maintainer of every living entity, it is to be understood that He devours and develops all.

Hindi Interpretation

Supersoul विभाजित किया जा करने के लिए प्रकट होता है, वह विभाजित नहीं है। उन्होंने कहा कि एक के रूप में स्थित है। उन्होंने कहा कि हर जीवित इकाई के अनुरक्षक है, यह वह निगल और सभी विकसित करता है कि समझ में आ सकता है।

Chapter 13 Verse 18

Chapter Name -Nature, the Enjoyer, and Consciousness

Sanskrit English
jyotisam api taj jyotis
tamasah param ucyate
jnanam jneyam jnana-gamyam
hrdi sarvasya visthitam

Simple Interpretation

He is the source of light in all luminous objects. He is beyond the darkness of matter and is unmanifested. He is knowledge, He is the object of knowledge, and He is the goal of knowledge. He is situated in everyone's heart.

Hindi Interpretation

उन्होंने कहा कि सभी चमकदार वस्तुओं में प्रकाश का स्रोत है। उन्होंने कहा कि इस मामले के अंधकार से परे है और अव्यक्त है। उन्होंने कहा कि वह ज्ञान की वस्तु है, ज्ञान है, और वह ज्ञान का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि हर किसी के दिल में स्थित है।

Chapter 13 Verse 19

Chapter Name -Nature, the Enjoyer, and Consciousness

Sanskrit English
iti ksetram tatha jnanam
jneyam cuktam samasatah
mad-bhakta etad vijnyaya
mad-bhavayopapadyate

Simple Interpretation

Thus the field of activities [the body], knowledge and the knowable have been summarily described by Me. Only My devotees can understand this thoroughly and thus attain to My nature.

Hindi Interpretation

इस प्रकार की गतिविधियों [शरीर], ज्ञान और ज्ञेय के क्षेत्र सरसरी तौर पर मेरे द्वारा वर्णित किया गया है। केवल मेरे भक्तों को अच्छी तरह से इस बात को समझ सकते हैं और इस तरह मेरी प्रकृति को प्राप्त है।

Chapter 13 Verse 20

Chapter Name -Nature, the Enjoyer, and Consciousness

Sanskrit English
prakrtim purusam caiva
viddhy anadi ubhav api
vikarams ca gunams caiva
viddhi prakrti-sambhavan

Simple Interpretation

Material nature and the living entities should be understood to be beginningless. Their transformations and the modes of matter are products of material nature.

Hindi Interpretation

सामग्री प्रकृति और रहने संस्थाओं beginningless होने की समझ में आ जाना चाहिए। उनके परिवर्तनों और इस मामले के

मोड सामग्री प्रकृति के उत्पादों रहे हैं।

Chapter 13 Verse 21

Chapter Name -Nature, the Enjoyer, and Consciousness

Sanskrit English
karya-karana-karttrve
hetuh prakrtir ucyate
purusah sukha-duhkhanam
bhoktrve hetur ucyate

Simple Interpretation

Nature is said to be the cause of all material activities and effects, whereas the living entity is the cause of the various sufferings and enjoyments in this world.

Hindi Interpretation

प्रकृति रह इकाई इस दुनिया में विभिन्न कष्टों और आनंदों का कारण है, जबकि सभी सामग्री गतिविधियों और प्रभाव के कारण होना कहा जाता है।

Chapter 13 Verse 22

Chapter Name -Nature, the Enjoyer, and Consciousness

Sanskrit English
purusah prakrti-stho hi
bhunkte prakrti-jan gunan
karanam guna-sango 'sya
sad-asad-yoni-janmasu

Simple Interpretation

The living entity in material nature thus follows the ways of life, enjoying the three modes of nature. This is due to his association with that material nature. Thus he meets with good and evil amongst various species.

Hindi Interpretation

सामग्री प्रकृति में रहने इकाई इस प्रकार प्रकृति के तीन मोड जीवन का आनंद ले के तरीके, इस प्रकार है। यह सामग्री है कि प्रकृति के साथ अपने जुड़ाव की वजह से है। इस प्रकार वह विभिन्न प्रजातियों के बीच अच्छे और बुरे के साथ मिलता है।

Chapter 13 Verse 23

Chapter Name -Nature, the Enjoyer, and Consciousness

Sanskrit English
upadrastanumanta ca
bharta bhokta mahesvarah
paramatmeti capy ukto
dehe 'smin purusah parah

Simple Interpretation

Yet in this body there is another, a transcendental enjoyer who is the Lord, the supreme proprietor, who exists as the overseer and permitter, and who is known as the Supersoul.

Hindi Interpretation

अभी तक इस शरीर में एक और, ओवरसियर और permitter, और जो Supersoul के रूप में जाना जाता है के रूप में मौजूद हैं, जो प्रभु, सुप्रीम मालिक है, जो एक दिव्य enjoyer है।

Chapter 13 Verse 24

Chapter Name -Nature, the Enjoyer, and Consciousness

Sanskrit English

ya evam vetti purusam
prakrtim ca gunaih saha
sarvatha vartamano 'pi
na sa bhuyo 'bhijayate

Simple Interpretation

One who understands this philosophy concerning material nature, the living entity and the interaction of the modes of nature is sure to attain liberation. He will not take birth here again, regardless of his present position.

Hindi Interpretation

सामग्री प्रकृति, रहने इकाई और प्रकृति के तरीके की बातचीत के विषय में इस दर्शन को समझता है जो मुक्ति पाने के लिए निश्चित है। उन्होंने कहा कि परवाह किए बिना अपने वर्तमान स्थिति के कारण, यहाँ फिर से जन्म नहीं ले जाएगा।

Chapter 13 Verse 25

Chapter Name -Nature, the Enjoyer, and Consciousness

Sanskrit English

dhyanenatmani pasyanti
kecid atmanam atmana
anye sankhyena yogena
karma-yogena capare

Simple Interpretation

That Supersoul is perceived by some through meditation, by some through the cultivation of knowledge, and by others through working without fruitive desire.

Hindi Interpretation

यही Supersoul fruitive इच्छा के बिना काम के माध्यम से दूसरों के द्वारा ज्ञान की खेती के माध्यम से कुछ लोगों द्वारा, ध्यान के माध्यम से कुछ लोगों द्वारा माना जाता है, और है।

Chapter 13 Verse 26

Chapter Name -Nature, the Enjoyer, and Consciousness

Sanskrit English
anye tv evam ajanantah
srutvanyebhya upasate
te 'pi catitaranty eva
mrtyum sruti-parayanah

Simple Interpretation

Again there are those who, although not conversant in spiritual knowledge, begin to worship the Supreme Person upon hearing about Him from others. Because of their tendency to hear from authorities, they also transcend the path of birth and death.

Hindi Interpretation

फिर आध्यात्मिक ज्ञान में दक्ष नहीं हैं, हालांकि, दूसरों से उसके बारे में सुनने पर सुप्रीम व्यक्ति पूजा करने के लिए शुरू हो, जो उन लोगों के होते हैं। क्योंकि अधिकारियों से सुनने के लिए उनकी प्रवृत्ति के हैं, वे भी जन्म और मृत्यु के पथ पार।

Chapter 13 Verse 27

Chapter Name -Nature, the Enjoyer, and Consciousness

Sanskrit English
yavat sanjayate kincit
sattvam sthavara-jangamam
ksetra-ksetrajna-samyogat
tad viddhi bharatarsabha

Simple Interpretation

O chief of the Bharatas, whatever you see in existence, both moving and unmoving, is only the combination of the field of activities and the knower of the field.

Hindi Interpretation

आप अस्तित्व में देखते हैं जो कुछ Bharatas, हे प्रमुख, दोनों आगे बढ़ और unmoving, गतिविधियों के क्षेत्र और क्षेत्र के ज्ञाता का केवल संयोजन है।

Chapter 13 Verse 28

Chapter Name -Nature, the Enjoyer, and Consciousness

Sanskrit English
samam sarvesu bhutesu
tisthantam paramesvaram
vinasyatsv avinasyantam
yah pasyati sa pasyati

Simple Interpretation

One who sees the Supersoul accompanying the individual soul in all bodies, and who understands that neither the soul nor the Supersoul is ever destroyed, actually sees.

Hindi Interpretation

Supersoul के सभी निकायों में व्यक्ति की आत्मा के साथ देखता है, और जो आत्मा है और न ही Supersoul न तो कभी नष्ट हो जाता है जो समझता है कि एक, वास्तव में देखता है।

Chapter 13 Verse 29

Chapter Name -Nature, the Enjoyer, and Consciousness

Sanskrit English
samam pasyan hi sarvatra
samavasthitam isvaram
na hinasty atmanatmanam
tato yati param gatim

Simple Interpretation

One who sees the Supersoul in every living being and equal everywhere does not degrade himself by his mind. Thus he approaches the transcendental destination.

Hindi Interpretation

उसके दिमाग से खुद को नीचा दिखाना नहीं है हर जगह हर प्राणी में Supersoul देखता है और बराबर करने वाला। इस प्रकार वह दिव्य गंतव्य तक पहुंचता है।

Chapter 13 Verse 30

Chapter Name -Nature, the Enjoyer, and Consciousness

Sanskrit English
prakrtyaiva ca karmani
kriyamanani sarvasah
yah pasyati tathatmanam
akartaram sa pasyati

Simple Interpretation

One who can see that all activities are performed by the body, which is created of material nature, and sees that the self does nothing, actually sees.

Hindi Interpretation

सभी गतिविधियों सामग्री प्रकृति की बनाई गई है जो शरीर, द्वारा प्रदर्शन किया है, और स्वयं कुछ नहीं करता देखता है कि देख सकते हैं कि एक है, जो वास्तव में देखता है।

Chapter 13 Verse 31

Chapter Name -Nature, the Enjoyer, and Consciousness

Sanskrit English
yada bhuta-prthag-bhavam
eka-stham anupasyati
tata eva ca vistaram

brahma sampadyate tada

Simple Interpretation

When a sensible man ceases to see different identities, which are due to different material bodies, he attains to the Brahman conception. Thus he sees that beings are expanded everywhere.

Hindi Interpretation

एक समझदार आदमी अलग सामग्री निकार्यों के कारण होते हैं जो अलग पहचान, देखने के लिए रहता है, वह ब्रह्म गर्भाधान के लिए उपलब्ध हो जाता है। इस प्रकार वह प्राणी हर जगह का विस्तार कर रहे हैं कि देखता है।

Chapter 13 Verse 32

Chapter Name -Nature, the Enjoyer, and Consciousness

Sanskrit English
anaditvan nirgunatvat
paramatmayam avyayah
sarira-stho 'pi kaunteya
na karoti na lipyate

Simple Interpretation

Those with the vision of eternity can see that the soul is transcendental, eternal, and beyond the modes of nature. Despite contact with the material body, O Arjuna, the soul neither does anything nor is entangled.

Hindi Interpretation

अनंत काल की दृष्टि से उन लोगों आत्मा, दिव्य अनन्त, और प्रकृति के तरीके से परे है कि देख सकते हैं। भौतिक शरीर, हे अर्जुन, कुछ भी करता है और न ही उलझा है न तो आत्मा के साथ संपर्क के बावजूद।

Chapter 13 Verse 33

Chapter Name -Nature, the Enjoyer, and Consciousness

Sanskrit English
yatha sarva-gatam sauksmyad
akasam nopalipyate
sarvatravasthito dehe
tathatma nopalipyate

Simple Interpretation

The sky, due to its subtle nature, does not mix with anything, although it is all-pervading. Similarly, the soul, situated in Brahman vision, does not mix with the body, though situated in that body.

Hindi Interpretation

यह सभी सर्वव्यापी है, हालांकि आकाश, इसकी वजह से सूक्ष्म प्रकृति के कारण, कुछ के साथ मिश्रण नहीं है। कि शरीर में स्थित है, हालांकि इसी प्रकार, ब्रह्म दृष्टि में स्थित आत्मा, शरीर के साथ मिश्रण नहीं है।

Chapter 13 Verse 34

Chapter Name -Nature, the Enjoyer, and Consciousness

Sanskrit English

yatha prakasayaty ekah
krtsnam lokam imam ravih
ksetram ksetri tatha krtsnam
prakasayati bhārata

Simple Interpretation

O son of Bharata, as the sun alone illuminates all this universe, so does the living entity, one within the body, illuminate the entire body by consciousness.

Hindi Interpretation

हे भरत पुत्र, सूरज अकेले सब इस ब्रह्मांड illuminates के रूप में है, तो रहने की इकाई है, शरीर के भीतर एक, चेतना से पूरे शरीर को रोशन करता है।

Chapter 13 Verse 35

Chapter Name -The Three Modes Of Material Nature

Sanskrit English

ksetra-ksetrajñayor evam
antaram jñāna-caksusa
bhūta-prakṛti-mokṣam ca
ye vidur yanti te param

Simple Interpretation

One who knowingly sees this difference between the body and the owner of the body and can understand the process of liberation from this bondage, also attains to the supreme goal.

Hindi Interpretation

जानबूझकर शरीर और शरीर के मालिक के बीच इस अंतर को देखता है और इस बंधन से मुक्ति की प्रक्रिया को समझ सकते हैं, जो एक, भी सर्वोच्च लक्ष्य को पा लेता है।

Chapter 14 Verse 1

Chapter Name -The Three Modes Of Material Nature

Sanskrit English

sri-bhagavan uvaca
param bhuyah pravakṣyami
jñānam jñānam uttamam
yaj jñatva munayah sarve
param siddhim ito gatah

Simple Interpretation

The Blessed Lord said: Again I shall declare to you this supreme wisdom, the best of all knowledge, knowing which all the sages have attained the supreme perfection.

Hindi Interpretation

धन्य है प्रभु ने कहा: एक बार फिर मैं तुम्हें करने के लिए सभी संतों सुप्रीम पूर्णता प्राप्त किया है जो जानते हुए भी इस सर्वोच्च बुद्धि, ज्ञान का सबसे अच्छा घोषित करेगा।

Chapter 14 Verse 2

Chapter Name -The Three Modes Of Material Nature

Sanskrit English

idam jnanam upasritya
mama sadharmyam agatah
sarge 'pi nopajayante
pralaye na vyathanti ca

Simple Interpretation

By becoming fixed in this knowledge, one can attain to the transcendental nature, which is like My own nature. Thus established, one is not born at the time of creation nor disturbed at the time of dissolution.

Hindi Interpretation

इस ज्ञान में तय बनने से, एक मेरी अपनी प्रकृति की तरह है जो दिव्य प्रकृति, करने के लिए प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार की स्थापना की, एक निर्माण के समय में पैदा हुआ है और न ही विघटन के समय में परेशान नहीं है।

Chapter 14 Verse 3

Chapter Name -The Three Modes Of Material Nature

Sanskrit English

mama yonir mahad brahma
tasmin garbham dadhamy aham
sambhavah sarva-bhutanam
tato bhavati bharata

Simple Interpretation

The total material substance, called Brahman, is the source of birth, and it is that Brahman that I impregnate, making possible the births of all living beings, O son of Bharata.

Hindi Interpretation

ब्रह्म कहा जाता कुल भौतिक पदार्थ, जन्म का स्रोत है, और यह मैं सभी जीवित प्राणियों के जन्मों संभव है, जिससे व्याप्त है कि ब्रह्म है, हे भरत पुत्र।

Chapter 14 Verse 4

Chapter Name -The Three Modes Of Material Nature

Sanskrit English

sarva-yonisu kaunteya

murtayah sambhavanti yah
tasam brahma mahad yonir
aham bija-pradah pita

Simple Interpretation

It should be understood that all species of life, O son of Kunti, are made possible by birth in this material nature, and that I am the seed-giving father.

Hindi Interpretation

यह जीवन की सभी प्रजातियों, कुंती के हे पुत्र, इस सामग्री प्रकृति में जन्म से ही संभव बना रहे हैं कि समझ में आ जाना चाहिए, और मैं बीज देने के पिता हूँ कि।

Chapter 14 Verse 5

Chapter Name -The Three Modes Of Material Nature

Sanskrit English
sattvam rajas tama iti
gunah prakrti-sambhavah
nibadhnanti maha-baho
dehe dehinam avyayam

Simple Interpretation

Material nature consists of the three modes--goodness, passion and ignorance. When the living entity comes in contact with nature, he becomes conditioned by these modes.

Hindi Interpretation

अच्छाई, जुनून और अज्ञान - सामग्री प्रकृति तीन मोड के होते हैं। रह इकाई प्रकृति के साथ संपर्क में आता है, वह इन विधियों से वातानुकूलित हो जाता है।

Chapter 14 Verse 6

Chapter Name -The Three Modes Of Material Nature

Sanskrit English
tatra sattvam nirmalatvat
prakasakam anamayam
sukha-sangena badhnati
jnana-sangena canagha

Simple Interpretation

O sinless one, the mode of goodness being purer than the others, is illuminating, and it frees one from all sinful reactions. Those situated in that mode develop knowledge, but they become conditioned by the concept of happiness.

Hindi Interpretation

हे निष्पाप एक, अच्छाई दूसरों की तुलना में शुद्ध होने का मोड, रोशन है, और यह सब पापी प्रतिक्रियाओं से एक को मुक्त कर देते। उस मोड में स्थित उन ज्ञान का विकास, लेकिन वे खुशी की अवधारणा से वातानुकूलित हो।

Chapter 14 Verse 7

Chapter Name -The Three Modes Of Material Nature

Sanskrit English
rajo ragatmakam viddhi
trsna-sanga-samudbhavam
tan nibadhnati kaunteya
karma-sangena dehinam

Simple Interpretation

The mode of passion is born of unlimited desires and longings, O son of Kunti, and because of this one is bound to material fruitive activities.

Hindi Interpretation

जुनून के मोड असीमित इच्छाओं और लालसा, कुंती के हे पुत्र का जन्म होता है, और इस वजह से एक की सामग्री fruitive गतिविधियों के लिए बाध्य है।

Chapter 14 Verse 8

Chapter Name -The Three Modes Of Material Nature

Sanskrit English
tamas tv ajnana-jam viddhi
mohanam sarva-dehinam
pramadasya-nidrabhis
tan nibadhnati bharata

Simple Interpretation

O son of Bharata, the mode of ignorance causes the delusion of all living entities. The result of this mode is madness, indolence and sleep, which bind the conditioned soul.

Hindi Interpretation

हे भरत पुत्र, अज्ञानता की विधा सभी जीवित संस्थाओं के भ्रम का कारण बनता है। इस विधा का परिणाम वातानुकूलित आत्मा जो बाँध पागलपन, आलस और नींद, है।

Chapter 14 Verse 9

Chapter Name -The Three Modes Of Material Nature

Sanskrit English
sattvam sukhe sanjayati
raja-karmani bharata
jnanam avrtya tu tamah
pramade sanjayaty uta

Simple Interpretation

The mode of goodness conditions one to happiness, passion conditions him to the fruits of action, and ignorance to madness.

Hindi Interpretation

अच्छाई शर्तों के मोड खुशी के लिए एक जुनून कार्रवाई के फल की स्थिति में उसे, और पागलपन के लिए अज्ञान।

Chapter 14 Verse 10

Chapter Name -The Three Modes Of Material Nature

Sanskrit English

rajas tamas cabhibhuya
sattvam bhavati bhārata
rajah sattvam tamas caiva
tamah sattvam rajas tatha

Simple Interpretation

Sometimes the mode of passion becomes prominent, defeating the mode of goodness, O son of Bharata. And sometimes the mode of goodness defeats passion, and at other times the mode of ignorance defeats goodness and passion. In this way there is always competition for supremacy.

Hindi Interpretation

कभी कभी जुनून की विधा अच्छाई की विधा, हे भरत पुत्र को हराने, प्रमुख हो जाता है। और कभी कभी अच्छाई की विधा जुनून धरा, और अन्य समय में अज्ञानता की विधा अच्छाई और जुनून धरा। इस रास्ते में हमेशा के वर्चस्व के लिए प्रतिस्पर्धा है।

Chapter 14 Verse 11

Chapter Name -The Three Modes Of Material Nature

Sanskrit English

sarva-dvaresu dehe 'smin
prakasa upajayate
jnanam yada tada vidyad
vivrddham sattvam ity uta

Simple Interpretation

The manifestations of the mode of goodness can be experienced when all the gates of the body are illuminated by knowledge.

Hindi Interpretation

शरीर के सभी फाटकों ज्ञान से प्रकाशित कर रहे हैं जब अच्छाई की विधा की अभिव्यक्तियों का अनुभव किया जा सकता है।

Chapter 14 Verse 12

Chapter Name -The Three Modes Of Material Nature

Sanskrit English

lobhah pravrttir arambhah

karmanam asamah sprha
rajasy etani jayante
vivrdde bharatarsabha

Simple Interpretation

O chief of the Bharatas, when there is an increase in the mode of passion, the symptoms of great attachment, uncontrollable desire, hankering, and intense endeavor develop.

Hindi Interpretation

जुनून के मोड में वृद्धि हुई है जब Bharatas हे मुखिया, महान लगाव, बेकाबू इच्छा, उत्कंठा, और तीव्र प्रयास के लक्षण विकसित करना।

Chapter 14 Verse 13

Chapter Name -The Three Modes Of Material Nature

Sanskrit English
aprakaso 'pravrttis ca
pramado moha eva ca
tamasy etani jayante
vivrdde kuru-nandana

Simple Interpretation

O son of Kuru, when there is an increase in the mode of ignorance, madness, illusion, inertia and darkness are manifested.

Hindi Interpretation

अज्ञान, पागलपन, भ्रम, जड़ता और अंधकार की विधा में वृद्धि हुई है जब कुरु के हे पुत्र, प्रकट कर रहे हैं।

Chapter 14 Verse 14

Chapter Name -The Three Modes Of Material Nature

Sanskrit English
yada sattve pravrdde tu
pralayam yati deha-bhrt
tadottama-vidam lokan
amalan pratipadyate

Simple Interpretation

When one dies in the mode of goodness, he attains to the pure higher planets.

Hindi Interpretation

एक अच्छाई के मोड में मर जाता है, वह शुद्ध उच्च ग्रहों के लिए उपलब्ध हो जाता है।

Chapter 14 Verse 15

Chapter Name -The Three Modes Of Material Nature

Sanskrit English
rajasi pralayam gatva
karma-sangisu jayate
tatha pralinas tamasi
mudha-yonisu jayate

Simple Interpretation

When one dies in the mode of passion, he takes birth among those engaged in fruitive activities; and when he dies in the mode of ignorance, he takes birth in the animal kingdom.

Hindi Interpretation

एक जुनून के मोड में मर जाता है, वह fruitive गतिविधियों में लगे लोगों के बीच में जन्म लेता है; वह अज्ञान के मोड में मर जाता है और जब वह जानवरों के साम्राज्य में जन्म लेता है।

Chapter 14 Verse 16

Chapter Name -The Three Modes Of Material Nature

Sanskrit English
karmanah sukrtasyahuh
sattvikam nirmalam phalam
rajasas tu phalam dukkham
ajnanam tamasah phalam

Simple Interpretation

By acting in the mode of goodness, one becomes purified. Works done in the mode of passion result in distress, and actions performed in the mode of ignorance result in foolishness.

Hindi Interpretation

अच्छाई की विधा में अभिनय करके, एक शुद्ध हो जाता है। संकट में जुनून परिणाम के मोड में किया काम करता है, और कार्यों मूर्खता में अज्ञान परिणाम के मोड में प्रदर्शन किया।

Chapter 14 Verse 17

Chapter Name -The Three Modes Of Material Nature

Sanskrit English
sattvat sanjayate jnanam
rajaso lobha eva ca
pramada-mohau tamaso
bhavato 'jnanam eva ca

Simple Interpretation

From the mode of goodness, real knowledge develops; from the mode of passion, greed develops; and from the mode of ignorance, foolishness, madness and illusion develop.

Hindi Interpretation

अच्छाई के मोड से, वास्तविक ज्ञान को विकसित करता है; जुनून की विधा से, लालच विकसित; और अज्ञान, मूर्खता,

पागलपन और भ्रम की विधा से विकसित करना।

Chapter 14 Verse 18

Chapter Name -The Three Modes Of Material Nature

Sanskrit English

urdhvam gacchanti sattva-stha
madhye tisthanti rajasah
jaghanya-guna-vrtti-stha
adho gacchanti tamasah

Simple Interpretation

Those situated in the mode of goodness gradually go upward to the higher planets; those in the mode of passion live on the earthly planets; and those in the mode of ignorance go down to the hellish worlds.

Hindi Interpretation

अच्छाई के मोड में स्थित उन धीरे धीरे उच्च ग्रहों के लिए ऊपर की ओर जाना; जुनून के मोड में उन सांसारिक ग्रहों पर रहते हैं; और अज्ञानता के मोड में उन नारकीय दुनिया के लिए नीचे जाओ।

Chapter 14 Verse 19

Chapter Name -The Three Modes Of Material Nature

Sanskrit English

nanyam gunebhyah kartaram
yada drastanupasyati
gunebhyas ca param vetti
mad-bhavam so 'dhigacchati

Simple Interpretation

When you see that there is nothing beyond these modes of nature in all activities and that the Supreme Lord is transcendental to all these modes, then you can know My spiritual nature.

Hindi Interpretation

आप सभी गतिविधियों में और सुप्रीम भगवान इन सभी प्रकार दिव्य हैं कि प्रकृति के इन साधनों से परे कुछ भी नहीं है कि देखते हैं, तो आप मेरे आध्यात्मिक प्रकृति पता कर सकते हैं।

Chapter 14 Verse 20

Chapter Name -The Three Modes Of Material Nature

Sanskrit English

gunan etan atitya trin
dehi deha-samudbhavan
janma-mrtyu-jara-dukhair
vimukto 'mrtam asnute

Simple Interpretation

When the embodied being is able to transcend these three modes, he can become free from birth, death, old age and their distresses and can enjoy nectar even in this life.

Hindi Interpretation

सन्निहित किया जा रहा है कि इन तीन मोड पार करने में सक्षम हो गया है, वह जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था और उनके distresses से मुक्त हो सकते हैं और यहां तक कि इस जीवन में अमृत आनंद ले सकते हैं।

Chapter 14 Verse 21

Chapter Name -The Three Modes Of Material Nature

Sanskrit English

arjuna uvaca

kair lingais trin gunan etan

atito bhavati prabho

kim acarah katham caitams

trin gunan ativartate

Simple Interpretation

Arjuna inquired: O my Lord, by what symptoms is one known who is transcendental to those modes? What is his behavior? And how does he transcend the modes of nature?

Hindi Interpretation

अर्जुन पूछा: मेरे भगवान हे, एक उन मोड के लिए दिव्य है जो जाना जाता है क्या लक्षण हैं? उसका व्यवहार क्या है? और कैसे वह प्रकृति के तरीके को पार करता है?

Chapter 14 Verse 22-25

Chapter Name -The Three Modes Of Material Nature

Sanskrit English

sri-bhagavan uvaca

prakasam ca pravrttim ca

moham eva ca pandava

na dvesti sampravrttani

na nivrttani kanksati

udasina-vad asino

gunair yo na vicalyate

guna vartanta ity evam

yo 'vatisthati nengate

sama-dukhaha-sukhaha sva-sthaha

sama-lostasma-kancanaha

tulya-priyapriyo dhiras

tulya-nindatma-samstutih

manapamanayasya tulyas

tulyo mitrari-paksayoh
sarvarambha-parityagi
gunatitah sa ucyate

Simple Interpretation

The Blessed Lord said: He who does not hate illumination, attachment and delusion when they are present, nor longs for them when they disappear; who is seated like one unconcerned, being situated beyond these material reactions of the modes of nature, who remains firm, knowing that the modes alone are active; who regards alike pleasure and pain, and looks on a clod, a stone and a piece of gold with an equal eye; who is wise and holds praise and blame to be the same; who is unchanged in honor and dishonor, who treats friend and foe alike, who has abandoned all fruitive undertakings--such a man is said to have transcended the modes of nature.

Hindi Interpretation

धन्य है प्रभु ने कहा: वे गायब हो जाते हैं जब वह जो उनके लिए रोशनी, लगाव और जब वे मौजूद हैं भ्रम, और न ही चाहता है नफरत नहीं करता है; जो की तरह बैठा है एक उदासीन, मोड अकेले सक्रिय हैं, यह जानकर कि फर्म बनी हुई है, जो प्रकृति के मोड के इन सामग्री प्रतिक्रियाओं से परे स्थित किया जा रहा है; जो एक जैसे खुशी और दर्द का संबंध है, और एक गँवार, एक पत्थर और एक समान आँख के

Chapter 14 Verse 26

Chapter Name -The Three Modes Of Material Nature

Sanskrit English
mam ca yo 'vyabhicarena
bhakti-yogena sevate
sa gunan samatityaitan
brahma-bhuyaya kalpate

Simple Interpretation

One who engages in full devotional service, who does not fall down in any circumstance, at once transcends the modes of material nature and thus comes to the level of Brahman.

Hindi Interpretation

किसी भी परिस्थिति में नीचे गिर नहीं करता है, जो पूर्ण भक्ति सेवा में संलग्न है, जो एक ही बार में सामग्री प्रकृति के मोड अतिक्रमण और इस प्रकार ब्रह्म के स्तर तक आता है।

Chapter 14 Verse 27

Chapter Name -The Yoga of the Supreme Person

Sanskrit English
brahmano hi pratisthaham
amrtasyavyayasya ca
sasvatasya ca dharmasya
sukhasyaikantikasya ca

Simple Interpretation

And I am the basis of the impersonal Brahman, which is the constitutional position of ultimate happiness, and

which is immortal, imperishable and eternal.

Hindi Interpretation

और मैं परम सुख की संवैधानिक स्थिति है जो अवैयक्तिक ब्रह्म के आधार हूँ, और, अमर अविनाशी और शाश्वत है।

Chapter 15 Verse 1

Chapter Name -The Yoga of the Supreme Person

Sanskrit English

sri-bhagavan uvaca
urdhva-mulam adhah-sakham
asvattham prahur avyayam
chandamsi yasya parnani
yas tam veda sa veda-vit

Simple Interpretation

The Blessed Lord said: There is a banyan tree which has its roots upward and its branches down and whose leaves are the Vedic hymns. One who knows this tree is the knower of the Vedas.

Hindi Interpretation

धन्य है प्रभु ने कहा: जिसका पत्ते वैदिक भजन कर रहे हैं एक बरगद के नीचे से ऊपर की ओर अपनी जड़ों और इसकी शाखाएं हैं जो पेड़ और नहीं है। इस पेड़ जो जानता वेदों का ज्ञाता है।

Chapter 15 Verse 2

Chapter Name -The Yoga of the Supreme Person

Sanskrit English

adhas cordhvam prasrtas tasya sakha
guna-pravrdha visaya-pravalah
adhas ca mulany anusantatani
karmanubandhini manusya-loke

Simple Interpretation

The branches of this tree extend downward and upward, nourished by the three modes of material nature. The twigs are the objects of the senses. This tree also has roots going down, and these are bound to the fruitive actions of human society.

Hindi Interpretation

इस पेड़ की शाखाओं के नीचे और ऊपर, सामग्री प्रकृति के तीन मोड द्वारा मनुष्य का विस्तार। तहनियाँ इंद्रियों की वस्तुओं रहे हैं। इस पेड़ भी नीचे जा रहा जड़ों की है, और ये मानव समाज के fruitive कार्रवाई करने के लिए बाध्य कर रहे हैं।

Chapter 15 Verse 41702

Chapter Name -The Yoga of the Supreme Person

Sanskrit English

na rupam asyeha tathopalabhyate
nanto na cadir na ca sampratistha
asvattham enam su-virudha-mulam
asanga-sastrena drdhena chittva

tatah padam tat parimargitavyam
yasmin gata na nivartanti bhuyah
tam eva cadyam purusam prapadye
yatah pravrttih prasrta purani

Simple Interpretation

The real form of this tree cannot be perceived in this world. No one can understand where it ends, where it begins, or where its foundation is. But with determination one must cut down this tree with the weapon of detachment. So doing, one must seek that place from which, having once gone, one never returns, and there surrender to that Supreme Personality of Godhead from whom everything has began and in whom everything is abiding since time immemorial.

Hindi Interpretation

इस पेड़ का असली रूप में इस दुनिया में नहीं माना जा सकता है। कोई भी यह शुरू होता है जहां यह समाप्त होता है, जहां समझते हैं, या जहां इसकी नींव है सकते हैं। लेकिन दृढ़ संकल्प के साथ एक टुकड़ी के हथियार के साथ इस पेड़ के नीचे में कटौती करनी चाहिए। ऐसा करने से, एक, जिसमें से उस जगह की तलाश करना चाहिए एक बार चली गई है, एक रिटर्न कभी नहीं, और सब कुछ शुरू किया गया है और

Chapter 15 Verse 5

Chapter Name -The Yoga of the Supreme Person

Sanskrit English

nirmana-moha jita-sanga-dosa
adhyatma-nitya viniivrtta-kamah
dvandvair vimuktah sukha-dukhka-samjnair
gacchanty amudhah padam avyayam tat

Simple Interpretation

One who is free from illusion, false prestige, and false association, who understands the eternal, who is done with material lust and is freed from the duality of happiness and distress, and who knows how to surrender unto the Supreme Person, attains to that eternal kingdom.

Hindi Interpretation

सामग्री वासना के साथ किया जाता है और खुशी और संकट के द्वंद्व से मुक्त है, और जो सुप्रीम व्यक्ति पर्यंत आत्मसमर्पण करने के लिए कैसे जानता है जो शाश्वत है जो समझता है भ्रम, झूठी प्रतिष्ठा, और झूठे एसोसिएशन, से मुक्त है, जो एक, कि करने के लिए उपलब्ध हो जाता है अनन्त किंगडम

Chapter 15 Verse 6

Chapter Name -The Yoga of the Supreme Person

Sanskrit English

na tad bhasayate suryo
na sasanko na pavakah
yad gatva na nivartante
tad dhama paramam mama

Simple Interpretation

That abode of Mine is not illumined by the sun or moon, nor by electricity. One who reaches it never returns to this material world.

Hindi Interpretation

मेरा कि निवास सूरज या चाँद से, और न ही बिजली से प्रकाशित नहीं किया गया है। यह कभी नहीं पहुंचता है, जो एक इस सामग्री दुनिया के लिए आए।

Chapter 15 Verse 7

Chapter Name -The Yoga of the Supreme Person

Sanskrit English
mamaivamso jiva-loke
jiva-bhutih sanatanah
manah-sasthanindriyani
prakrti-sthani karsati

Simple Interpretation

The living entities in this conditioned world are My eternal, fragmental parts. Due to conditioned life, they are struggling very hard with the six senses, which include the mind.

Hindi Interpretation

इस वातानुकूलित दुनिया में रहने वाले संस्थाओं मेरा अनन्त, आंशिक हिस्से हैं। कारण वातानुकूलित जीवन के लिए, वे बहुत मेहनत से मन में शामिल हैं जो छह होश, के साथ संघर्ष कर रहे हैं।

Chapter 15 Verse 8

Chapter Name -The Yoga of the Supreme Person

Sanskrit English
sariram yad avapnoti
yac capy utkramatisvarah
grhitvaitani samyati
vayur gandhan ivasayat

Simple Interpretation

The living entity in the material world carries his different conceptions of life from one body to another as the air carries aromas.

Hindi Interpretation

हवा aromas के वहन के रूप में सामग्री दुनिया में रह इकाई एक शरीर से दूसरे को अपने जीवन के अलग-अलग धारणाएं वहन करती है।

Chapter 15 Verse 9

Chapter Name -The Yoga of the Supreme Person

Sanskrit English

srotram caksuh sparsanam ca
rasanam ghranam eva ca
adhisthaya manas cayam
visayan upasevate

Simple Interpretation

The living entity, thus taking another gross body, obtains a certain type of ear, tongue, and nose and sense of touch, which are grouped about the mind. He thus enjoys a particular set of sense objects.

Hindi Interpretation

इस प्रकार एक और सकल शरीर लेने के रहने वाले इकाई, मन के बारे में वर्गीकृत किया है, जो कान, जीभ, और नाक और स्पर्श की भावना, के एक खास प्रकार प्राप्त। उन्होंने कहा कि इस प्रकार भावना वस्तुओं की एक विशेष सेट प्राप्त है।

Chapter 15 Verse 10

Chapter Name -The Yoga of the Supreme Person

Sanskrit English

utkramantam sthitam vapi
bhunjanam va gunanvitam
vimudha nanupasyanti
pasyanti jnana-caksusah

Simple Interpretation

The foolish cannot understand how a living entity can quit his body, nor can they understand what sort of body he enjoys under the spell of the modes of nature. But one whose eyes are trained in knowledge can see all this.

Hindi Interpretation

मूर्ख रहने वाले एक इकाई उसके शरीर छोड़ कर सकते हैं कि कैसे समझ में नहीं आ सकते हैं, और न ही वे वह प्रकृति के मोड के जादू के अंतर्गत प्राप्त है शरीर के किस तरह समझ सकते हैं। लेकिन जिनकी आंखों ज्ञान में प्रशिक्षित किया जाता है एक यह सब देख सकते हैं।

Chapter 15 Verse 11

Chapter Name -The Yoga of the Supreme Person

Sanskrit English

yatanto yoginas cainam
pasyanty atmany avasthitam
yatanto 'py akrtatmano
nainam pasyanty acetasa

Simple Interpretation

The endeavoring transcendentalist, who is situated in self-realization, can see all this clearly. But those who are not situated in self-realization cannot see what is taking place, though they may try to.

Hindi Interpretation

आत्म-साक्षात्कार में स्थित है जो प्रयास transcendentalist, स्पष्ट रूप से यह सब देख सकते हैं। वे करने के लिए कोशिश कर सकते हैं लेकिन हालांकि आत्म-साक्षात्कार में स्थित नहीं कर रहे हैं जो लोग, जगह ले जा रहा है क्या नहीं देख सकता।

Chapter 15 Verse 12

Chapter Name -The Yoga of the Supreme Person

Sanskrit English

yad aditya-gatam tejo
jagad bhasayate 'khilam
yac candramasi yac cagnau
tat tejo viddhi mamakam

Simple Interpretation

The splendor of the sun, which dissipates the darkness of this whole world, comes from Me. And the splendor of the moon and the splendor of fire are also from Me.

Hindi Interpretation

इस पूरी दुनिया के अंधेरे dissipates जो सूरज, की महिमा मेरे से आता है। और चंद्रमा की महिमा और आग की महिमा मुझ से भी कर रहे हैं।

Chapter 15 Verse 13

Chapter Name -The Yoga of the Supreme Person

Sanskrit English

gam avisya ca bhutani
dharayamy aham ojasa
pusnami causadhih sarvah
somo bhutva rasatmakah

Simple Interpretation

I enter into each planet, and by My energy they stay in orbit. I become the moon and thereby supply the juice of life to all vegetables.

Hindi Interpretation

मैं प्रत्येक ग्रह में प्रवेश, और अपनी ऊर्जा से वे कक्षा में रहते हैं। मैं चाँद बन गया है और जिससे सभी सब्जियों को जीवन के रस की आपूर्ति।

Chapter 15 Verse 14

Chapter Name -The Yoga of the Supreme Person

Sanskrit English
aham vaisvanaro bhutva
praninam deham asritah
pranapana-samayuktah
pacamy annam catur-vidham

Simple Interpretation
I am the fire of digestion in every living body, and I am the air of life, outgoing and incoming, by which I digest the four kinds of foodstuff.

Hindi Interpretation
मैं हर जीवित शरीर में पाचन की आग हूँ, और मुझे लगता है कि मैं खाद्य पदार्थों के चार प्रकार पचाने जिसके द्वारा निवर्तमान और आने वाले जीवन, की हवा हूँ।

Chapter 15 Verse 15
Chapter Name -The Yoga of the Supreme Person

Sanskrit English
sarvasya caham hrdis sannivisto
mattah smrtir jnanam apohanam ca
vedais ca sarvair aham eva vedyo
vedanta-krd veda-vid eva caham

Simple Interpretation
I am seated in everyone's heart, and from Me come remembrance, knowledge and forgetfulness. By all the Vedas I am to be known; indeed I am the compiler of Vedanta, and I am the knower of the Vedas.

Hindi Interpretation
मैं हर किसी के दिल में बैठा, और मुझ से स्मरण, ज्ञान और विस्मृति आ रहा हूँ। सभी वेदों से मेरा नाम से जाना हूँ; वास्तव में मैं वेदांत का संकलक हूँ, और मुझे लगता है कि वेदों का ज्ञाता हूँ।

Chapter 15 Verse 16
Chapter Name -The Yoga of the Supreme Person

Sanskrit English
dvav imau purusau loke
ksaras caksara eva ca
ksarah sarvani bhutani
kuta-stho 'ksara ucyate

Simple Interpretation
There are two classes of beings, the fallible and the infallible. In the material world every entity is fallible, and in the spiritual world every entity is called infallible.

Hindi Interpretation
प्राणी, अविश्वसनीय और अचूक के दो वर्गों रहे हैं। सामग्री दुनिया में हर इकाई अविश्वसनीय है, और आध्यात्मिक दुनिया में

हर इकाई अचूक कहा जाता है।

Chapter 15 Verse 17

Chapter Name -The Yoga of the Supreme Person

Sanskrit English
uttamah purusas tv anyah
paramatmety udahrtah
yo loka-trayam avisya
bibharty avyaya isvarah

Simple Interpretation

Besides these two, there is the greatest living personality, the Lord Himself, who has entered into these worlds and is maintaining them.

Hindi Interpretation

इन दोनों के अलावा, सबसे बड़ा रहने वाले व्यक्तित्व, ये दुनिया में प्रवेश किया है और उन्हें बनाए रखने की है जो खुद भगवान, वहाँ है।

Chapter 15 Verse 18

Chapter Name -The Yoga of the Supreme Person

Sanskrit English
yasmāt ksaram atito 'ham
aksarad api cottamah
ato 'smi loke vede ca
prathitah purusottamah

Simple Interpretation

Because I am transcendental, beyond both the fallible and the infallible, and because I am the greatest, I am celebrated both in the world and in the Vedas as that Supreme Person.

Hindi Interpretation

मैं अविश्वसनीय और अचूक दोनों से परे है, दिव्य हूँ, और मैं सबसे बड़ा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि दुनिया में और कहा कि सुप्रीम व्यक्ति के रूप में वेदों में दोनों मनाया हूँ।

Chapter 15 Verse 19

Chapter Name -The Yoga of the Supreme Person

Sanskrit English
yo mam evam asammudho
janati purusottamam
sa sarva-vid bhajati mam
sarva-bhavena bhārata

Simple Interpretation

Whoever knows Me as the Supreme Personality of Godhead, without doubting, is to be understood as the knower of everything, and He therefore engages himself in full devotional service, O son of Bharata.

Hindi Interpretation

जो कोई भी मुझे जानता है देवत्व की सुप्रीम व्यक्तित्व के रूप में, शक के बिना, सब कुछ के ज्ञाता के रूप में समझा जा रहा है, और इसलिए उन्होंने पूर्ण भक्ति सेवा, हे भरत पुत्र में खुद को संलग्न है।

Chapter 15 Verse 20

Chapter Name -The Divine And Demoniatic Natures

Sanskrit English

iti guhyatamam sastram
idam uktam mayanagha
etad buddhva buddhiman syat
krta-krtayas ca bharata

Simple Interpretation

This is the most confidential part of the Vedic scriptures, O sinless one, and it is disclosed now by Me. Whoever understands this will become wise, and his endeavors will know perfection.

Hindi Interpretation

इस वैदिक शास्त्रों, हे निष्पाप एक के सबसे गोपनीय हिस्सा है, और यह मेरे द्वारा अब खुलासा किया है। समझता है जो कोई भी इस बुद्धिमान बन जाएगा, और उनके प्रयासों पूर्णता पता चल जाएगा।

Chapter 16 Verse 41642

Chapter Name -The Divine And Demoniatic Natures

Sanskrit English

sri-bhagavan uvaca
abhayam sattva-samsuddhir
jnana-yoga-vyavasthitih
danam damas ca yajnas ca
svadhyayas tapa arjavam

ahimsa satyam akrodhas
tyagah santir apaisunam
daya bhutesv aloluptvam
mardavam hrir acapalam

tejah ksama dhrtih saucam
adroho nati-manita
bhavanti sampadam daivim
abhijatasya bharata

Simple Interpretation

The Blessed Lord said: Fearlessness, purification of one's existence, cultivation of spiritual knowledge, charity,

self-control, performance of sacrifice, study of the Vedas, austerity and simplicity; nonviolence, truthfulness, freedom from anger; renunciation, tranquility, aversion to faultfinding, compassion and freedom from covetousness; gentleness, modesty and steady determination; vigor, forgiveness, fortitude, cleanliness, freedom from envy and the passion for honor--these transcendental qualities, O son of Bharata, belong to godly men endowed with divine nature.

Hindi Interpretation

धन्य है प्रभु ने कहा: अभय, एक के अस्तित्व की शुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान, दान, आत्म नियंत्रण, बलिदान का प्रदर्शन, वेद, तपस्या और सादगी के अध्ययन की खेती; अहिंसा, सत्यवादिता, क्रोध से मुक्ति; त्याग, शांति, लोभ से छिद्रान्वेषी, करुणा और स्वतंत्रता के लिए घृणा; नम्रता, शील और स्थिर दृढ़ संकल्प; जोश, क्षमा, धैर्य, सफाई, ईर्ष्या से स्वतंत्रता और सम्मान के लिए जुनून - इन दिव्य गुणों

Chapter 16 Verse 4

Chapter Name -The Divine And Demoniatic Natures

Sanskrit English

dambho darpo 'bhimanas ca
krodhah parusyam eva ca
ajnanam cabhijatasya
partha sampadam asurim

Simple Interpretation

Arrogance, pride, anger, conceit, harshness and ignorance--these qualities belong to those of demoniac nature, O son of Prtha.

Hindi Interpretation

अहंकार, अभिमान, क्रोध, दंभ, कठोरता और अज्ञान - इन गुणों आसुरी स्वभाव, Prtha के हे पुत्र के उन लोगों के लिए हैं।

Chapter 16 Verse 5

Chapter Name -The Divine And Demoniatic Natures

Sanskrit English

daivi sampad vimoksaya
nibandhayasuri mata
ma sucah sampadam daivim
abhijato 'si pandava

Simple Interpretation

The transcendental qualities are conducive to liberation, whereas the demoniac qualities make for bondage. Do not worry, O son of Pandu, for you are born with the divine qualities.

Hindi Interpretation

आसुरी गुणों के बंधन के लिए करते हैं, जबकि दिव्य गुणों, मुक्ति के लिए अनुकूल हैं। आप दिव्य गुणों के साथ पैदा होते हैं के लिए, पांडु की, हे पुत्र चिंता मत करो।

Chapter 16 Verse 6

Chapter Name -The Divine And Demoniatic Natures

Sanskrit English

dvau bhuta-sargau loke 'smin
daiva asura eva ca
daivo vistarasah prokta
asuram partha me srnu

Simple Interpretation

O son of Prtha, in this world there are two kinds of created beings. One is called the divine and the other demoniac. I have already explained to you at length the divine qualities. Now hear from Me of the demoniac.

Hindi Interpretation

आसुरी गुणों के बंधन के लिए करते हैं, जबकि दिव्य गुणों, मुक्ति के लिए अनुकूल हैं। आप दिव्य गुणों के साथ पैदा होते हैं के लिए, पांडु की, हे पुत्र चिंता मत करो।...

Chapter 16 Verse 7

Chapter Name -The Divine And Demoniatic Natures

Sanskrit English

pravrttim ca nivrttim ca
jana na vidur asurah
na saucam napi cacaro
na satyam tesu vidyate

Simple Interpretation

Those who are demoniac do not know what is to be done and what is not to be done. Neither cleanliness nor proper behavior nor truth is found in them.

Hindi Interpretation

आसुरी लोग हैं, जो कुछ किया जाना है और क्या किया जा करने के लिए नहीं है क्या पता नहीं है। न तो सफाई है और न ही उचित व्यवहार और न ही सच्चाई उन में पाया जाता है।

Chapter 16 Verse 8

Chapter Name -The Divine And Demoniatic Natures

Sanskrit English

asatyam apratistham te
jagad ahur anisvaram
aparaspara-sambhutam
kim anyat kama-haitukam

Simple Interpretation

They say that this world is unreal, that there is no foundation and that there is no God in control. It is produced

of sex desire, and has no cause other than lust.

Hindi Interpretation

वे इस दुनिया में कोई बुनियाद नहीं है कि, असत्य का कहना है कि और नियंत्रण में कोई भगवान नहीं है। यह सेक्स की इच्छा का उत्पादन किया, और वासना के अलावा अन्य कोई कारण नहीं है।

Chapter 16 Verse 9

Chapter Name -The Divine And Demoniatic Natures

Sanskrit English

etam drstim avastabhya
nastatmano 'lpa-buddhayah
prabhavanty ugra-karmanah
ksayaya jagato 'hitah

Simple Interpretation

Following such conclusions, the demoniac, who are lost to themselves and who have no intelligence, engage in unbeneficial, horrible works meant to destroy the world.

Hindi Interpretation

इस तरह के निष्कर्ष के बाद, खुद को खो दिया है और जो कर रहे हैं, जो आसुरी, कोई खुफिया, दुनिया को नष्ट करने के लिए होती unbeneficial, भयानक कार्यों में संलग्न है।

Chapter 16 Verse 10

Chapter Name -The Divine And Demoniatic Natures

Sanskrit English

kamam asritya duspuram
dambha-mana-madanvitah
mohad grhitvasad-grahan
pravartante 'suci-vratah

Simple Interpretation

The demoniac, taking shelter of insatiable lust, pride and false prestige, and being thus illusioned, are always sworn to unclean work, attracted by the impermanent.

Hindi Interpretation

लालची वासना, गर्व और झूठी प्रतिष्ठा, और इस तरह illusioned किया जा रहा है की शरण लेने आसुरी, हमेशा अनस्थिर से आकर्षित अशुद्ध काम करते हैं, के लिए शपथ ग्रहण कर रहे हैं।

Chapter 16 Verse 41955

Chapter Name -The Divine And Demoniatic Natures

Sanskrit English

cintam aparimeyam ca
pralayantam upasritah
kamopabhoga-parama
etavad iti niscitah

asa-pasa-satair baddhah
kama-krodha-parayanah
ihante kama-bhogartham
anyayenartha-sancayan

Simple Interpretation

They believe that to gratify the senses unto the end of life is the prime necessity of human civilization. Thus there is no end to their anxiety. Being bound by hundreds and thousands of desires, by lust and anger, they secure money by illegal means for sense gratification.

Hindi Interpretation

वे जीवन के अंत में मानव सभ्यता के प्रधानमंत्री आवश्यकता है पर्यंत होश कृतार्थ कि विश्वास करते हैं। इस प्रकार उनकी चिंता का कोई अंत नहीं है। इच्छाओं की सैकड़ों और हजारों लोगों ने बाध्य किया जा रहा, वासना और क्रोध से, वे भावना संतुष्टि के लिए अवैध तरीकों से पैसे सुरक्षित।

Chapter 16 Verse 13-15

Chapter Name -The Divine And Demoniatic Natures

Sanskrit English

idam adya maya labdham
imam prapsye manoratham
idam astidam api me
bhavisyati punar dhanam

asau maya hatah satrur
hanisye caparan api
isvaro 'ham aham bhogi
siddho 'ham balavan sukhi

adhyo 'bhijanavan asmi
ko 'nyo 'sti sadrso maya
yaksye dasyami modisya
ity ajnana-vimohitah

Simple Interpretation

The demoniac person thinks: "So much wealth do I have today, and I will gain more according to my schemes. So much is mine now, and it will increase in the future, more and more. He is my enemy, and I have killed him; and my other enemy will also be killed. I am the lord of everything. I am the enjoyer. I am perfect, powerful and happy. I am the richest man, surrounded by aristocratic relatives. There is none so powerful and happy as I am. I shall perform sacrifices, I shall give some charity, and thus I shall rejoice." In this way, such persons are deluded by ignorance.

Hindi Interpretation

आसुरी व्यक्ति सोचता है: "इतना धन मैं आज क्या है", और मैं लाभ होगा और अधिक मेरे योजनाओं के अनुसार इतना तो है

कि अब मेरा है, और यह भविष्य में वृद्धि होगी, अधिक से अधिक वह मेरा दुश्मन है, और मुझे लगता है उसे मार डाला;। और मेरे अन्य दुश्मन भी खत्म हो जायेगा मैं सब कुछ का स्वामी हूँ मैं enjoyer हूँ मैं, सही शक्तिशाली और खुश हूँ मैं भव्य रिश्तेदारों से घिरा सबसे अमीर आदम

Chapter 16 Verse 16

Chapter Name -The Divine And Demoniatic Natures

Sanskrit English
aneka-citta-vibhranta
moha-jala-samavrtah
prasaktah kama-bhogesu
patanti narake 'sucou

Simple Interpretation

Thus perplexed by various anxieties and bound by a network of illusions, one becomes too strongly attached to sense enjoyment and falls down into hell.

Hindi Interpretation

इस प्रकार विभिन्न चिंताओं से उलझन और भ्रम का एक नेटवर्क से बंधे, एक भी मानना है कि आनंद की भावना से जुड़ी है और नरक में नीचे गिर जाता हो जाता है।

Chapter 16 Verse 17

Chapter Name -The Divine And Demoniatic Natures

Sanskrit English
atma-sambhavitah stabdha
dhana-mana-madanvitah
yajante nama-yajnaish te
dambhenavidhi-purvakam

Simple Interpretation

Self-complacent and always impudent, deluded by wealth and false prestige, they sometimes perform sacrifices in name only without following any rules or regulations.

Hindi Interpretation

स्व-आत्मतुष्ट और हमेशा दिलेर, धन और झूठी प्रतिष्ठा से मोहित, वे कभी कभी ही किसी भी नियम या नियमों का पालन किए बिना नाम पर बलिदान प्रदर्शन करते हैं।

Chapter 16 Verse 18

Chapter Name -The Divine And Demoniatic Natures

Sanskrit English
ahankaram balam darpam
kamam krodham ca samsritah

mam atma-para-dehesu
pradvisanto 'bhyasuyakah

Simple Interpretation

Bewildered by false ego, strength, pride, lust and anger, the demon becomes envious of the Supreme Personality of Godhead, who is situated in his own body and in the bodies of others, and blasphemes against the real religion.

Hindi Interpretation

झूठे अहंकार, शक्ति, गौरव, वासना और क्रोध से घबराए, दानव अपने ही शरीर में और दूसरों के शरीर में स्थित हैं, जो देवत्व की सुप्रीम व्यक्तित्व के जलते हो जाता है, और असली धर्म के खिलाफ निन्दा।

Chapter 16 Verse 19

Chapter Name -The Divine And Demoniatic Natures

Sanskrit English
tan aham dvisatah kruran
samsaresu naradhaman
ksipamy ajasram asubhan
asuriv eva yonisu

Simple Interpretation

Those who are envious and mischievous, who are the lowest among men, are cast by Me into the ocean of material existence, into various demoniac species of life.

Hindi Interpretation

, पुरुषों के बीच सबसे कम हैं, जो ईर्ष्या और शरारती लोग हैं, जो जीवन के विभिन्न आसुरी प्रजातियों में, भौतिक अस्तित्व के सागर में मेरे द्वारा डाली हैं।

Chapter 16 Verse 20

Chapter Name -The Divine And Demoniatic Natures

Sanskrit English
asurim yonim apanna
mudha janmani janmani
mam aprapyaiva kaunteya
tato yanty adhamam gatim

Simple Interpretation

Attaining repeated birth amongst the species of demoniac life, such persons can never approach Me. Gradually they sink down to the most abominable type of existence.

Hindi Interpretation

आसुरी जीवन की प्रजातियों के बीच दोहराया जन्म बनना, ऐसे व्यक्तियों मुझे दृष्टिकोण कभी नहीं कर सकते हैं। धीरे-धीरे वे अस्तित्व का सबसे घृणित टाइप करने के लिए नीचे सिंक।

Chapter 16 Verse 21

Chapter Name -The Divine And Demoniac Natures

Sanskrit English
tri-vidham narakasyedam
dvaram nasanam atmanah
kamah krodhas tatha lobhas
tasmad etat trayam tyajet

Simple Interpretation

There are three gates leading to this hell--lust, anger and greed. Every sane man should give these up, for they lead to the degradation of the soul.

Hindi Interpretation

वासना, क्रोध और लोभ - इस नरक में प्रमुख तीन फाटकों कर रहे हैं। वे आत्मा की गिरावट के लिए नेतृत्व के लिए हर समझदार आदमी है, इन छोड़ देना चाहिए।

Chapter 16 Verse 22

Chapter Name -The Divine And Demoniac Natures

Sanskrit English
etair vimuktah kaunteya
tamo-dvarais tribhir narah
acaraty atmanah sreyas
tato yati param gatim

Simple Interpretation

The man who has escaped these three gates of hell, O son of Kunti, performs acts conducive to self-realization and thus gradually attains the supreme destination.

Hindi Interpretation

नरक, कुंती के हे पुत्र के इन तीन फाटकों से बच गया है जो आदमी करता है, आत्म-साक्षात्कार के लिए अनुकूल कार्य करता है और इस प्रकार धीरे-धीरे सुप्रीम गंतव्य पा लेता है।

Chapter 16 Verse 23

Chapter Name -The Divine And Demoniac Natures

Sanskrit English
yah sastra-vidhim utsrjya
vartate kama-karatah
na sa siddhim avapnoti
na sukham na param gatim

Simple Interpretation

But he who discards scriptural injunctions and acts according to his own whims attains neither perfection, nor

happiness, nor the supreme destination.

Hindi Interpretation

लेकिन अपने ही सनक के अनुसार लिखित रोक और कृत्यों को छोड़ देता है, जो वह न तो पूर्णता, और न ही खुशी, और न ही सुप्रीम गंतव्य पा लेता है।

Chapter 16 Verse 24

Chapter Name -The Divisions of Faith

Sanskrit English

tasmac chastram pramanam te
karyakarya-vyavasthitau
jnatva sastra-vidhanoktam
karma kartum iharhasi

Simple Interpretation

One should understand what is duty and what is not duty by the regulations of the scriptures. Knowing such rules and regulations, one should act so that he may gradually be elevated.

Hindi Interpretation

एक कर्तव्य क्या है और शास्त्रों के नियमों से कर्तव्य नहीं है क्या समझना चाहिए। इस तरह के नियमों और विनियमों को जानने का, एक वह धीरे-धीरे ऊपर उठाया जा सकता है, ताकि कार्य करना चाहिए।

Chapter 17 Verse 1

Chapter Name -The Divisions of Faith

Sanskrit English

arjuna uvaca
ye sastra-vidhim utsrjya
yajante sraddhayanvitah
tesam nistha tu ka krsna
sattvam aho rajas tamah

Simple Interpretation

Arjuna said, O Krsna, what is the situation of one who does not follow the principles of scripture but who worships according to his own imagination? Is he in goodness, in passion or in ignorance?

Hindi Interpretation

अर्जुन, हे कृष्ण, अपनी कल्पना के अनुसार शास्त्र के सिद्धांतों का पालन करें लेकिन जो पूजा नहीं करता है, जो एक की स्थिति क्या है कहा? वह जुनून में या अज्ञानता में, अच्छाई में है?

Chapter 17 Verse 2

Chapter Name -The Divisions of Faith

Sanskrit English
sri-bhagavan uvaca
tri-vidha bhavati sraddha
dehinam sa svabhava-ja
sattviki rajasi caiva
tamasi ceti tam srnu

Simple Interpretation

The Supreme Lord said, according to the modes of nature acquired by the embodied soul, one's faith can be of three kinds--goodness, passion or ignorance. Now hear about these.

Hindi Interpretation

अच्छाई, जुनून या अज्ञानता - सुप्रीम प्रभु सन्निहित आत्मा द्वारा अधिग्रहीत प्रकृति के तरीके के अनुसार, एक की आस्था तीन प्रकार के हो सकते हैं, ने कहा। अब इन के बारे में सुना है।

Chapter 17 Verse 3

Chapter Name -The Divisions of Faith

Sanskrit English
sattvanurupa sarvasya
sraddha bhavati bhārata
sraddha-mayo 'yam puruso
yo yac-chraddhah sa eva sah

Simple Interpretation

According to one's existence under the various modes of nature, one evolves a particular kind of faith. The living being is said to be of a particular faith according to the modes he has acquired.

Hindi Interpretation

प्रकृति के विभिन्न माध्यमों के तहत एक के अस्तित्व के अनुसार, एक विश्वास की एक विशेष प्रकार विकसित। रहने जा रहा है कि वह हासिल कर ली है मोड के अनुसार एक विशेष आस्था का होना कहा जाता है।

Chapter 17 Verse 4

Chapter Name -The Divisions of Faith

Sanskrit English
yajante sattvika devan
yaksa-raksamsi rajasah
pretan bhuta-ganams canye
yajante tamasa janah

Simple Interpretation

Men in the mode of goodness worship the demigods; those in the mode of passion worship the demons; and those in the mode of ignorance worship ghosts and spirits.

Hindi Interpretation

अच्छाई के मोड में पुरुषों demigods पूजा; जुनून के मोड में उन राक्षसों की पूजा करते हैं; और अज्ञानता के मोड में उन भूतों

और आत्माओं की पूजा करते हैं।

Chapter 17 Verse 41765
Chapter Name -The Divisions of Faith

Sanskrit English
asastra-vihitam ghoram
tapyante ye tapo janah
dambhahankara-samyuktah
kama-raga-balanvitah

karsayantah sarira-stham
bhuta-gramam acetasah
mam caivantah sarira-stham
tan viddhy asura-niscayan

Simple Interpretation

Those who undergo severe austerities and penances not recommended in the scriptures, performing them out of pride, egoism, lust and attachment, who are impelled by passion and who torture their bodily organs as well as the Supersoul dwelling within are to be known as demons.

Hindi Interpretation

जुनून के द्वारा impelled और जो कर रहे हैं, जो अभिमान, अहंकार, वासना और लगाव की उन्हें बाहर प्रदर्शन, गंभीर तपस्या और नहीं शास्त्रों में सिफारिश की तपस्या से गुजरना जो लोग हैं, उनके शारीरिक अंगों के साथ ही Supersoul के भीतर रहने वाली राक्षसों के रूप में जाना जा रहे हैं यातना।

Chapter 17 Verse 7
Chapter Name -The Divisions of Faith

Sanskrit English
aharas tv api sarvasya
tri-vidho bhavati priyah
yajnas tapas tatha danam
tesam bhedam imam srnu

Simple Interpretation

Even food of which all partake is of three kinds, according to the three modes of material nature. The same is true of sacrifices, austerities and charity. Listen, and I shall tell you of the distinctions of these.

Hindi Interpretation

यहां तक कि भोजन जो सभी के हिस्सा लेना सामग्री प्रकृति के तीन मोड के अनुसार, तीन प्रकार की है। एक ही बलिदान, तपस्या और दान का सच है। सुनो, और मैं इनमें से भेद की आपको बता दूँ।

Chapter 17 Verse 41861

Chapter Name -The Divisions of Faith

Sanskrit English
ayuh-sattva-balarogya-
sukha-priiti-vivardhanah
rasyah snigdha sthira hradya
aharah sattvika-priyah

katv-amlalavanaty-usna-
tiksnaruksa-vidahinah
ahara rajasasyesta
dukhha-sokamaya-pradah

yata-yamam gata-rasam
puti paryusitam ca yat
ucchistam api camedhyam
bhojanam tamasa-priyam

Simple Interpretation

Foods in the mode of goodness increase the duration of life, purify one's existence and give strength, health, happiness and satisfaction. Such nourishing foods are sweet, juicy, fatty and palatable. Foods that are too bitter, too sour, salty, pungent, dry and hot, are liked by people in the modes of passion. Such foods cause pain, distress, and disease. Food cooked more than three hours before being eaten, which is tasteless, stale, putrid, decomposed and unclean, is food liked by people in the mode of ignorance.

Hindi Interpretation

अच्छाई के मोड में फूड्स, जीवन की अवधि बढ़ाने के एक के अस्तित्व को शुद्ध और शक्ति, स्वास्थ्य, खुशी और संतुष्टि दे। इस तरह के पौष्टिक खाद्य पदार्थ मीठा, रसदार, वसायुक्त और स्वादिष्ट हैं। शुष्क और गर्म हैं, भी, नमकीन, बहुत खट्टा, कड़वा तीखे किए गए भोजन, जुनून के तरीके में लोगों द्वारा पसंद किया जाता है। इस तरह के खाद्य पदार्थ दर्द, संकट, और बीमारी के कारण। खाद्य, बेस्वा

Chapter 17 Verse 11

Chapter Name -The Divisions of Faith

Sanskrit English
aphalakanksibhir yajno
vidhi-disto ya ijjate
yastavyam eveti manah
samadhaya sa sattvikah

Simple Interpretation

Of sacrifices, that sacrifice performed according to duty and to scriptural rules, and with no expectation of reward, is of the nature of goodness.

Hindi Interpretation

बलिदान की, कि बलिदान इ्यूटी करने के लिए और लिखित नियमों के अनुसार प्रदर्शन किया है, और इनाम की कोई उम्मीद के साथ, अच्छाई की प्रकृति का है।

Chapter 17 Verse 12

Chapter Name -The Divisions of Faith

Sanskrit English
abhisandhaya tu phalam
dambhartham api caiva yat
ijyate bhārata-sreṣṭha
tam yajnam viddhi rajasam

Simple Interpretation

But that sacrifice performed for some material end or benefit or performed ostentatiously, out of pride, is of the nature of passion, O chief of the Bharatas.

Hindi Interpretation

लेकिन कुछ सामग्री अंत या लाभ के लिए प्रदर्शन या आडंबरपूर्णतया performed कि बलिदान, गर्व से बाहर, जुनून, Bharatas हे मुख्यमंत्री की प्रकृति का है।

Chapter 17 Verse 13

Chapter Name -The Divisions of Faith

Sanskrit English
vidhi-hinam asrstannam
mantra-hinam adaksinam
sraddha-virahitam yajnam
tamasam paricaksate

Simple Interpretation

And that sacrifice performed in defiance of scriptural injunctions, in which no spiritual food is distributed, no hymns are chanted and no remunerations are made to the priests, and which is faithless--that sacrifice is of the nature of ignorance.

Hindi Interpretation

और कोई आध्यात्मिक भोजन वितरित किया जाता है, जिसमें लिखित रोक, की अवज्ञा में प्रदर्शन किया कि बलिदान, कोई भजन बोले रहे हैं और कोई remunerations पुजारियों के लिए किया जाता है, और विश्वासघाती है - जो कि बलिदान अज्ञान की प्रकृति का है।

Chapter 17 Verse 14

Chapter Name -The Divisions of Faith

Sanskrit English
deva-dvija-guru-prajna-
pujanam saucam arjavam
brahmacaryam ahimsa ca
sariram tapa ucyate

Simple Interpretation

The austerity of the body consists in this: worship of the Supreme Lord, the brahmanas, the spiritual master, and superiors like the father and mother. Cleanliness, simplicity, celibacy and nonviolence are also austerities of the body.

Hindi Interpretation

शरीर की तपस्या इस में शामिल है: सुप्रीम भगवान, ब्राह्मण, आध्यात्मिक गुरु की पूजा करते हैं, और पिता और माँ की तरह वरिष्ठों। साफ-सफाई, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा भी शरीर की तपस्या कर रहे हैं।

Chapter 17 Verse 15

Chapter Name -The Divisions of Faith

Sanskrit English

anudvega-karam vakyam
satyam priya-hitam ca yat
svadhyayabhyasanam caiva
van-mayam tapa ucyate

Simple Interpretation

Austerity of speech consists in speaking truthfully and beneficially and in avoiding speech that offends. One should also recite the Vedas regularly.

Hindi Interpretation

भाषण की तपस्या सच्चाई और लाभदायक बोलने में और नाराज है कि भाषण से बचने में होते हैं। एक भी नियमित रूप से वेद सुनाना चाहिए।

Chapter 17 Verse 16

Chapter Name -The Divisions of Faith

Sanskrit English

manah-prasadah saumyatvam
maunam atma-vinigraha
bhava-samsuddhir ity etat
tapo manasam ucyate

Simple Interpretation

And serenity, simplicity, gravity, self-control and purity of thought are the austerities of the mind.

Hindi Interpretation

और शांति, सादगी, गुरुत्वाकर्षण, आत्म नियंत्रण और सोचा की पवित्रता मन की तपस्या कर रहे हैं।

Chapter 17 Verse 17

Chapter Name -The Divisions of Faith

Sanskrit English

sraddhaya paraya taptam
tapas tat tri-vidham naraih
aphalakanksibhir yuktaih
sattvikam paricaksate

Simple Interpretation

This threefold austerity, practiced by men whose aim is not to benefit themselves materially but to please the Supreme, is of the nature of goodness.

Hindi Interpretation

"जिसका उद्देश्य पुरुषों द्वारा अभ्यास यह तिगुना तपस्या, हकीकत में खुद को लाभ पहुंचाने के लिए लेकिन सुप्रीम खुश करने के लिए नहीं है, अच्छाई की प्रकृति का है।

Chapter 17 Verse 18

Chapter Name -The Divisions of Faith

Sanskrit English
satkara-mana-pujartham
tapo dambhena caiva yat
kriyate tad iha proktam
rajasam calam adhruvam

Simple Interpretation

Those ostentatious penances and austerities which are performed in order to gain respect, honor and reverence are said to be in the mode of passion. They are neither stable nor permanent.

Hindi Interpretation

आदर, सम्मान और श्रद्धा हासिल करने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं जो उन दिखावटी तपस्या और तपस्या जुनून के मोड में होना कहा जाता है। वे स्थिर है और न ही स्थायी न तो कर रहे हैं।

Chapter 17 Verse 19

Chapter Name -The Divisions of Faith

Sanskrit English
mudha-grahenatmano yat
pidaya kriyate tapah
parasyotsadanartham va
tat tamasam udahrtam

Simple Interpretation

And those penances and austerities which are performed foolishly by means of obstinate self-torture, or to destroy or injure others, are said to be in the mode of ignorance.

Hindi Interpretation

और जिद्दी आत्म यातना के माध्यम से मूर्खता प्रदर्शन कर रहे हैं जो उन तपस्या और तपस्या, या नष्ट या दूसरों को चोट पहुंचाना, अज्ञानता के मोड में होना कहा जाता है।

Chapter 17 Verse 20

Chapter Name -The Divisions of Faith

Sanskrit English

datavyam iti yad danam
diyate 'nupakarine
dese kale ca patre ca
tad danam sattvikam smrtam

Simple Interpretation

That gift which is given out of duty, at the proper time and place, to a worthy person, and without expectation of return, is considered to be charity in the mode of goodness.

Hindi Interpretation

उचित समय और स्थान पर, एक योग्य व्यक्ति के लिए, और वापसी की उम्मीद के बिना, कर्तव्य के बाहर दिया जाता है जो कि उपहार, अच्छाई के मोड में दान माना जाता है।

Chapter 17 Verse 21

Chapter Name -The Divisions of Faith

Sanskrit English

yat tu pratyupakarartham
phalam uddisya va punah
diyate ca pariklistam
tad danam rajasam smrtam

Simple Interpretation

But charity performed with the expectation of some return, or with a desire for fruitive results, or in a grudging mood, is said to be charity in the mode of passion.

Hindi Interpretation

लेकिन दान कुछ वापसी की उम्मीद के साथ प्रदर्शन किया, या fruitive परिणाम के लिए एक इच्छा के साथ, या एक grudging मूड में, जुनून के मोड में दान करने के लिए कहा जाता है।

Chapter 17 Verse 22

Chapter Name -The Divisions of Faith

Sanskrit English

adesa-kale yad danam
apatrebhyas ca diyate

asat-krtam avajnatam
tat tamasam udahrtam

Simple Interpretation

And charity performed at an improper place and time and given to unworthy persons without respect and with contempt is charity in the mode of ignorance.

Hindi Interpretation

और दान एक अनुचित स्थान और समय पर प्रदर्शन किया और सम्मान के बिना और अवमानना अज्ञान के मोड में दान है साथ अयोग्य व्यक्तियों को दी।

Chapter 17 Verse 23

Chapter Name -The Divisions of Faith

Sanskrit English
om tat sad iti nirdeso
brahmanas tri-vidhah smrtah
brahmanas tena vedas ca
yajnas ca vihitha pura

Simple Interpretation

From the beginning of creation, the three syllables--om tat sat--have been used to indicate the Supreme Absolute Truth [Brahman]. They were uttered by brahmanas while chanting Vedic hymns and during sacrifices, for the satisfaction of the Supreme.

Hindi Interpretation

सृष्टि के आरम्भ से, तीन अक्षरों - ओम गूंथना बैठे - सुप्रीम निरपेक्ष सत्य [ब्रह्म] इंगित करने के लिए इस्तेमाल किया गया है। वे सुप्रीम की संतुष्टि के लिए, वैदिक भजन जप करते हुए ब्राह्मण द्वारा और बलिदान के दौरान बोला गया।

Chapter 17 Verse 24

Chapter Name -The Divisions of Faith

Sanskrit English
tasmad om ity udahrtya
yajna-dana-tapah-kriyah
pravartante vidhanoktah
satatam brahma-vadinam

Simple Interpretation

Thus the transcendentalists undertake sacrifices, charities, and penances, beginning always with om, to attain the Supreme.

Hindi Interpretation

इस प्रकार transcendentalists सुप्रीम प्राप्त करने के लिए, ओम साथ हमेशा शुरुआत बलिदान, दान, और तपस्या, का कार्य।

Chapter 17 Verse 25

Chapter Name -The Divisions of Faith

Sanskrit English

tad ity anabhisandhaya
phalam yajna-tapah-kriyah
dana-kriyas ca vividhah
kriyante moksa-kanksibhih

Simple Interpretation

One should perform sacrifice, penance and charity with the word tat. The purpose of such transcendental activities is to get free from the material entanglement.

Hindi Interpretation

एक शब्द गूथना के साथ त्याग, तपस्या और दान करना चाहिए। ऐसी दिव्य गतिविधियों का उद्देश्य सामग्री उलझाव से निःशुल्क प्राप्त करने के लिए है।

Chapter 17 Verse 26-27

Chapter Name -The Divisions of Faith

Sanskrit English

sad-bhave sadhu-bhave ca
sad ity etat prayujyate
prasaste karmani tatha
sac-chabdah partha yujyate

Simple Interpretation

The Absolute Truth is the objective of devotional sacrifice, and it is indicated by the word sat. These works of sacrifice, of penance and of charity, true to the absolute nature, are performed to please the Supreme Person, O son of Prtha.

Hindi Interpretation

निरपेक्ष सत्य भक्ति बलिदान का उद्देश्य है, और शब्द बैठे द्वारा यह संकेत दिया है। निरपेक्ष प्रकृति के सच्चे तपस्या की और दान के बलिदान की ये काम करता है, श्रीभगवान, Prtha के हे बेटा खुश करने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं।

Chapter 17 Verse 28

Chapter Name -Conclusion--The Perfection of Renunciation

Sanskrit English

asraddhaya hutam dattam
tapas taptam krtam ca yat
asad ity ucyate partha

na ca tat pretya no iha

Simple Interpretation

But sacrifices, austerities and charities performed without faith in the Supreme are nonpermanent, O son of Prtha, regardless of whatever rites are performed. They are called asat and are useless both in this life and the next.

Hindi Interpretation

लेकिन बलिदान, तपस्या और दान सुप्रीम में विश्वास के बिना प्रदर्शन की परवाह किए बिना प्रदर्शन कर रहे हैं जो कुछ भी संस्कार की, Prtha के हे पुत्र nonpermanent हैं। वे ASAT कहा जाता है और इस जीवन में और अगले दोनों बेकार कर रहे हैं।

Chapter 18 Verse 1

Chapter Name -Conclusion--The Perfection of Renunciation

Sanskrit English

arjuna uvaca

sannyasasya maha-baho

tattvam icchami veditum

tyagasya ca hrsikesa

prthak kesi-nisudana

Simple Interpretation

Arjuna said, O mighty-armed one, I wish to understand the purpose of renunciation [tyaga] and of the renounced order of life [sannyasa], O killer of the Kesi demon, Hrsikesa.

Hindi Interpretation

अर्जुन में और जीवन [sannyasa], Kesi दानव, Hrsikesa हे हत्यारे का त्याग आदेश का त्याग [tyaga] के उद्देश्य को समझने की इच्छा, हे शक्तिशाली हथियारों से लैस एक ने कहा,।

Chapter 18 Verse 2

Chapter Name -Conclusion--The Perfection of Renunciation

Sanskrit English

sri-bhagavan uvaca

kamyam karmanam nyasam

sannyasam kavayo viduh

sarva-karma-phala-tyagam

prahus tyagam vicaksanah

Simple Interpretation

The Supreme Lord said, To give up the results of all activities is called renunciation [tyaga] by the wise. And that state is called the renounced order of life [sannyasa] by great learned men.

Hindi Interpretation

सुप्रीम प्रभु समझदार द्वारा त्याग [tyaga] कहा जाता है सभी गतिविधियों के परिणामों को देने के लिए कहा। और कहा कि राज्य महान विद्वान पुरुषों द्वारा जीवन [sannyasa] का त्याग आदेश में कहा जाता है।

Chapter 18 Verse 3

Chapter Name -Conclusion--The Perfection of Renunciation

Sanskrit English

tyajyam dosa-vad ity eke
karma prahur manisinah
yajna-dana-tapah-karma
na tyajyam iti capare

Simple Interpretation

Some learned men declare that all kinds of fruitive activities should be given up, but there are yet other sages who maintain that acts of sacrifice, charity and penance should never be abandoned.

Hindi Interpretation

कुछ विद्वान पुरुषों fruitive गतिविधियों के सभी प्रकार छोड़ दिया जाना चाहिए कि घोषित है, लेकिन त्याग, दान और तपस्या के कृत्यों को त्याग दिया जा कभी नहीं करना चाहिए का कहना है कि जो अन्य संतों अभी तक कर रहे हैं।

Chapter 18 Verse 4

Chapter Name -Conclusion--The Perfection of Renunciation

Sanskrit English

niscayam srnu me tatra
tyage bharata-sattama
tyago hi purusa-vyaghra
tri-vidhah samprakirtitah

Simple Interpretation

O best of the Bharatas, hear from Me now about renunciation. O tiger among men, there are three kinds of renunciation declared in the scriptures.

Hindi Interpretation

Bharatas का सबसे अच्छा है, मुझ से अब संन्यास के बारे में सुना है। पुरुषों के बीच ओ बाघ, शास्त्रों में घोषित त्याग के तीन प्रकार के होते हैं।

Chapter 18 Verse 5

Chapter Name -Conclusion--The Perfection of Renunciation

Sanskrit English

yajna-dana-tapah-karma
na tyajyam karyam eva tat
yajno danam tapas caiva
pavanani manisinam

Simple Interpretation

Acts of sacrifice, charity and penance are not to be given up but should be performed. Indeed, sacrifice, charity and penance purify even the great souls.

Hindi Interpretation

त्याग, दान और तपस्या के अधिनियमों ऊपर दिए जाने के लिए नहीं कर रहे हैं, लेकिन प्रदर्शन किया जाना चाहिए। दरअसल, त्याग, दान और तपस्या भी महान आत्माओं को शुद्ध।

Chapter 18 Verse 6

Chapter Name -Conclusion--The Perfection of Renunciation

Sanskrit English

etany api tu karmani
sangam tyaktva phalani ca
kartavyaniti me partha
niscitam matam uttamam

Simple Interpretation

All these activities should be performed without any expectation of result. They should be performed as a matter of duty, O son of Prtha. That is My final opinion.

Hindi Interpretation

इन सभी गतिविधियों के परिणाम के किसी भी उम्मीद के बिना किया जाना चाहिए। वे कर्तव्य की बात है, Prtha के हे पुत्र के रूप में किया जाना चाहिए। यही कारण है कि मेरा अंतिम राय है।

Chapter 18 Verse 7

Chapter Name -Conclusion--The Perfection of Renunciation

Sanskrit English

niyatasya tu sannyasah
karmano nopapadyate
mohat tasya parityagas
tamasah parikirtitah

Simple Interpretation

Prescribed duties should never be renounced. If, by illusion, one gives up his prescribed duties, such renunciation is said to be in the mode of ignorance.

Hindi Interpretation

निर्धारित कर्तव्यों का त्याग नहीं किया जाना चाहिए। , भ्रम से, एक अपने निर्धारित कर्तव्यों को देता है, तो इस तरह के त्याग अज्ञान के मोड में होना कहा जाता है।

Chapter 18 Verse 8

Chapter Name -Conclusion--The Perfection of Renunciation

Sanskrit English
duhkham ity eva yat karma
kaya-klesa-bhayat tyajet
sa krtva rajasam tyagam
naiva tyaga-phalam labhet

Simple Interpretation

Anyone who gives up prescribed duties as troublesome, or out of fear, is said to be in the mode of passion. Such action never leads to the elevation of renunciation.

Hindi Interpretation

परेशानी के रूप में, या डर से बाहर निर्धारित कर्तव्यों को देता है जो किसी को भी, जुनून के मोड में होना कहा जाता है। इस तरह की कार्रवाई कभी नहीं त्याग की उंचाई की ओर जाता है।

Chapter 18 Verse 9

Chapter Name -Conclusion--The Perfection of Renunciation

Sanskrit English
karyam ity eva yat karma
niyatam kriyate 'rjuna
sangam tyaktva phalam caiva
sa tyagah sattviko matah

Simple Interpretation

But he who performs his prescribed duty only because it ought to be done, and renounces all attachment to the fruit--his renunciation is of the nature of goodness, O Arjuna.

Hindi Interpretation

लेकिन केवल यह किया जाना चाहिए, और फल के लिए सभी लगाव त्याग, क्योंकि उसके निर्धारित शुल्क से करता है जो वह - उसका त्याग अच्छाई की प्रकृति, हे अर्जुन की है।

Chapter 18 Verse 10

Chapter Name -Conclusion--The Perfection of Renunciation

Sanskrit English
na dvesty akusalam karma
kusale nanusajjate
tyagi sattva-samavisto
medhavi chinna-samsayah

Simple Interpretation

Those who are situated in the mode of goodness, who neither hate inauspicious work nor are attached to auspicious work, have no doubts about work.

Hindi Interpretation

अशुभ काम से नफरत है और न ही शुभ काम से जुड़े होते हैं जो न तो अच्छाई के मोड में स्थित हैं जो लोग काम के बारे में कोई

संदेह नहीं है।

Chapter 18 Verse 11

Chapter Name -Conclusion--The Perfection of Renunciation

Sanskrit English
na hi deha-bhrta sakyam
tyaktum karmany asesatah
yas tu karma-phala-tyagi
sa tyagity abhidhiyate

Simple Interpretation

It is indeed impossible for an embodied being to give up all activities. Therefore it is said that he who renounces the fruits of action is one who has truly renounced.

Hindi Interpretation

यह वास्तव में सभी गतिविधियों को देने के लिए किया जा रहा है सन्नहित एक के लिए असंभव है। इसलिए यह कार्रवाई का फल त्याग वह है जो सही मायने में त्याग दिया है, जो एक है कि कहा जाता है।

Chapter 18 Verse 12

Chapter Name -Conclusion--The Perfection of Renunciation

Sanskrit English
anistam istam misram ca
tri-vidham karmanah phalam
bhavaty atyaginam pretya
na tu sannyasinam kvacit

Simple Interpretation

For one who is not renounced, the threefold fruits of action--desirable, undesirable and mixed--accrue after death. But those who are in the renounced order of life have no such results to suffer or enjoy.

Hindi Interpretation

त्याग नहीं किया जाता है, जो एक के लिए, कार्रवाई का तिगुना फल - खतरनाक अवांछनीय और मिश्रित - मृत्यु के बाद देय होती हैं। लेकिन जीवन का त्याग क्रम में हैं जो लोग पीड़ित हैं या आनंद लेने के लिए ऐसी कोई परिणाम है।

Chapter 18 Verse 13-14

Chapter Name -Conclusion--The Perfection of Renunciation

Sanskrit English
pancaitani maha-baho
karanani nibodha me
sankhye krtante proktani
siddhaye sarva-karmanam

adhithanam tatha karta
karanam ca prthag-vidham
vividhas ca prthak cesta
daivam caivatra pancamam

Simple Interpretation

O mighty-armed Arjuna, learn from Me of the five factors which bring about the accomplishment of all action. These are declared in sankhya philosophy to be the place of action, the performer, the senses, the endeavor, and ultimately the Supersoul.

Hindi Interpretation

हे शक्तिशाली हथियारों से लैस अर्जुन, सभी कार्रवाई की उपलब्धि के बारे में लाने के जो पांच कारकों में से मुझ से सीखो। ये कार्रवाई की जगह है, कलाकार, होश, प्रयास, और अंततः Supersoul होने की सांख्य दर्शन में घोषित कर रहे हैं।

Chapter 18 Verse 15

Chapter Name -Conclusion--The Perfection of Renunciation

Sanskrit English
sarira-van-manobhir yat
karma prarabhate narah
nyayyam va viparitam va
pancaite tasya hetavah

Simple Interpretation

Whatever right or wrong action a man performs by body, mind or speech is caused by these five factors.

Hindi Interpretation

जो भी सही है या गलत कार्रवाई के लिए एक आदमी के शरीर, मन के द्वारा निष्पादित करता है या भाषण इन पांच कारकों के कारण होता है।

Chapter 18 Verse 16

Chapter Name -Conclusion--The Perfection of Renunciation

Sanskrit English
tatraivam sati kartaram
atmanam kevalam tu yah
pasyaty akarta-buddhitvan
na sa pasyati durmatih

Simple Interpretation

Therefore one who thinks himself the only doer, not considering the five factors, is certainly not very intelligent and cannot see things as they are.

Hindi Interpretation

इसलिए पांच कारकों पर विचार नहीं, खुद ही कर्ता जो सोचता है कि एक, निश्चित रूप से बहुत बुद्धिमान नहीं है और वे कर रहे हैं चीजों के रूप में नहीं देख सकता।

Chapter 18 Verse 17

Chapter Name -Conclusion--The Perfection of Renunciation

Sanskrit English
yasya nahankrto bhavo
buddhir yasya na lipyate
hatvapi sa imal lokan
na hanti na nibadhyate

Simple Interpretation

One who is not motivated by false ego, whose intelligence is not entangled, though he kills men in this world, is not the slayer. Nor is he bound by his actions.

Hindi Interpretation

वह इस दुनिया में पुरुषों को मारता है, हालांकि, जिसका खुफिया उलझ नहीं है झूठे अहंकार, से प्रेरित नहीं है जो एक, कतिलों नहीं है। ना ही वह अपने कार्यों से बाध्य है।

Chapter 18 Verse 18

Chapter Name -Conclusion--The Perfection of Renunciation

Sanskrit English
jnanam jneyam pariijnata
tri-vidha karma-codana
karanam karma karteti
tri-vidhah karma-sangrahaah

Simple Interpretation

Knowledge, the object of knowledge and the knower are the three factors which motivate action; the senses, the work and the doer comprise the threefold basis of action.

Hindi Interpretation

ज्ञान, ज्ञान की वस्तु और ज्ञाता कार्यवाही को प्रेरित है, जो तीन कारक हैं; होश, काम और कर्ता कार्यवाही की तिगुना आधार शामिल।

Chapter 18 Verse 19

Chapter Name -Conclusion--The Perfection of Renunciation

Sanskrit English
jnanam karma ca karta ca
tridhaiva guna-bhedatah
procyate guna-sankhyane
yathavac chrnu tany api

Simple Interpretation

In accordance with the three modes of material nature, there are three kinds of knowledge, action, and performers of action. Listen as I describe them.

Hindi Interpretation

सामग्री प्रकृति के तीन मोड के अनुसार, तीन ज्ञान, कार्रवाई के प्रकार, और कार्रवाई के कलाकारों रहे हैं। मैं उन्हें का वर्णन के रूप में सुनो।

Chapter 18 Verse 20

Chapter Name -Conclusion--The Perfection of Renunciation

Sanskrit English

sarva-bhutesu yenaikam
bhavam avyayam iksate
avibhaktam vibhaktesu
taj jnanam viddhi sattvikam

Simple Interpretation

That knowledge by which one undivided spiritual nature is seen in all existences, undivided in the divided, is knowledge in the mode of goodness.

Hindi Interpretation

विभाजित में अविभाजित एक अविभाजित आध्यात्मिक प्रकृति के सभी अस्तित्व में देखा जाता है, जिसके द्वारा यह है कि ज्ञान, अच्छाई के मोड में ज्ञान है।

Chapter 18 Verse 21

Chapter Name -Conclusion--The Perfection of Renunciation

Sanskrit English

prthaktvena tu yaj jnanam
nana-bhavan prthag-vidhan
vetti sarvesu bhutesu
taj jnanam viddhi rajasam

Simple Interpretation

That knowledge by which a different type of living entity is seen to be dwelling in different bodies is knowledge in the mode of passion.

Hindi Interpretation

रह इकाई के एक अलग प्रकार विभिन्न निकायों में निवास करते हुए देखा गया है जिसके द्वारा ज्ञान है कि जुनून के मोड में ज्ञान है।

Chapter 18 Verse 22

Chapter Name -Conclusion--The Perfection of Renunciation

Sanskrit English
yat tu krtsna-vad ekasmin
karye saktam ahaitukam
atattvartha-vad alpam ca
tat tamasam udahrtam

Simple Interpretation

And that knowledge by which one is attached to one kind of work as the all in all, without knowledge of the truth, and which is very meager, is said to be in the mode of darkness.

Hindi Interpretation

और एक सत्य के ज्ञान के बिना, सभी के सभी के रूप में काम करने की एक तरह से जुड़ा हुआ है जिसके द्वारा, और बहुत अल्प है जो कि ज्ञान, अंधेरे के मोड में होना कहा जाता है।

Chapter 18 Verse 23

Chapter Name -Conclusion--The Perfection of Renunciation

Sanskrit English
niyatam sanga-rahitam
araga-dvesatah krtam
aphala-prepsuna karma
yat tat sattvikam ucyate

Simple Interpretation

As for actions, that action in accordance with duty, which is performed without attachment, without love or hate, by one who has renounced fruitive results, is called action in the mode of goodness.

Hindi Interpretation

कार्यों के लिए के रूप में, fruitive परिणाम त्याग किया है, जो एक से, प्यार या नफरत, बिना लगाव के बिना किया जाता है, जो कर्तव्य, के अनुसार कार्रवाई की है कि अच्छाई के मोड में कार्रवाई भी कहा जाता है।

Chapter 18 Verse 24

Chapter Name -Conclusion--The Perfection of Renunciation

Sanskrit English
yat tu kamepsuna karma
sahankarena va punah
kriyate bahulayasam
tad rajasam udahrtam

Simple Interpretation

But action performed with great effort by one seeking to gratify his desires, and which is enacted from a sense of false ego, is called action in the mode of passion.

Hindi Interpretation

"लेकिन एक मांग से महान प्रयास के साथ प्रदर्शन कार्रवाई उसकी इच्छाओं को सन्तुष्ट करने के लिए, और जो झूठे अहंकार

की भावना से अधिनियमित किया जाता है, जुनून के मोड में कार्रवाई भी कहा जाता है।

Chapter 18 Verse 25

Chapter Name -Conclusion--The Perfection of Renunciation

Sanskrit English

anubandham ksayam himsam
anapeksya ca paurusam
mohad arabhyate karma
yat tat tamasam ucyate

Simple Interpretation

And that action performed in ignorance and delusion without consideration of future bondage or consequences, which inflicts injury and is impractical, is said to be action in the mode of ignorance.

Hindi Interpretation

और चोट inflicts और अव्यावहारिक है, जो भविष्य के बंधन या परिणाम, के विचार के बिना अज्ञानता और भ्रम में प्रदर्शन किया है कि कार्रवाई, अज्ञानता के मोड में कार्रवाई करने के लिए कहा जाता है।

Chapter 18 Verse 26

Chapter Name -Conclusion--The Perfection of Renunciation

Sanskrit English

mukta-sango 'naham-vadi
dhrty-utsaha-samanvitah
siddhy-asiddhyor nirvikarah
karta sattvika ucyate

Simple Interpretation

The worker who is free from all material attachments and false ego, who is enthusiastic and resolute and who is indifferent to success or failure, is a worker in the mode of goodness.

Hindi Interpretation

सभी सामग्री संलग्नक और उत्साही और दृढ़ और जो सफलता या विफलता के प्रति उदासीन है जो झूठे अहंकार से मुक्त है, जो कार्यकर्ता, अच्छाई की विधा में एक कार्यकर्ता है।

Chapter 18 Verse 27

Chapter Name -Conclusion--The Perfection of Renunciation

Sanskrit English

ragi karma-phala-prepsur
lubdho himsatmako 'sucih
harsa-sokanvitah karta
rajasah parikirtitah

Simple Interpretation

But that worker who is attached to the fruits of his labor and who passionately wants to enjoy them, who is greedy, envious and impure and moved by happiness and distress, is a worker in the mode of passion.

Hindi Interpretation

लेकिन, लालची ईर्ष्या और अशुद्ध और खुशी और संकट से ले जाया गया है, जो पूरी भावना उन्हें मजा करना चाहता है जो अपने श्रम और, के फल से जुड़ा हुआ है जो कि कार्यकर्ता, जुनून के मोड में एक कार्यकर्ता है।

Chapter 18 Verse 28

Chapter Name -Conclusion--The Perfection of Renunciation

Sanskrit English

ayuktah prakrtah stabdhah
satho naiskrtiko 'lasah
visadi dirgha-sutri ca
karta tamasa ucya

Simple Interpretation

And that worker who is always engaged in work against the injunction of the scripture, who is materialistic, obstinate, cheating and expert in insulting others, who is lazy, always morose and procrastinating, is a worker in the mode of ignorance.

Hindi Interpretation

और हमेशा हमेशा उदास और procrastinating, आलसी है जो अपमान दूसरों में भौतिकवादी, जिददी, धोखाधड़ी और विशेषज्ञ है जो शास्त्र, की निषेधाज्ञा के खिलाफ काम में लगी हुई है, जो कि कार्यकर्ता, अज्ञानता के मोड में एक कार्यकर्ता है।

Chapter 18 Verse 29

Chapter Name -Conclusion--The Perfection of Renunciation

Sanskrit English

buddher bhedam dhrtes caiva
gunatas tri-vidham srnu
procyamanam asesena
prthaktvena dhananjaya

Simple Interpretation

Now, O winner of wealth, please listen as I tell you in detail of the three kinds of understanding and determination according to the three modes of nature.

Hindi Interpretation

में प्रकृति के तीन मोड के अनुसार समझ और दृढ़ संकल्प के तीन प्रकार के विस्तार में आपको बता अब, जैसा कि धन के हे विजेता, कृपया सुनो।

Chapter 18 Verse 30

Chapter Name -Conclusion--The Perfection of Renunciation

Sanskrit English

pravrttim ca nivrttim ca
karyakarye bhayabhaye
bandham moksam ca ya vetti
buddhih sa partha sattviki

Simple Interpretation

O son of Prtha, that understanding by which one knows what ought to be done and what ought not to be done, what is to be feared and what is not to be feared, what is binding and what is liberating, that understanding is established in the mode of goodness.

Hindi Interpretation

Prtha के हे पुत्र, समझ है कि जिसके द्वारा एक क्या किया जाना चाहिए जानता है और क्या डर होना है क्या, किया नहीं होना चाहिए और क्या डर नहीं है, बाध्यकारी है और मुक्ति क्या है, कि समझ में स्थापित है क्या अच्छाई की विधा।

Chapter 18 Verse 31

Chapter Name -Conclusion--The Perfection of Renunciation

Sanskrit English

yaya dharmam adharmam ca
karyam cakaryam eva ca
ayathavat prajanati
buddhih sa partha rajasi

Simple Interpretation

And that understanding which cannot distinguish between the religious way of life and the irreligious, between action that should be done and action that should not be done, that imperfect understanding, O son of Prtha, is in the mode of passion.

Hindi Interpretation

और किया जाना चाहिए कि कार्रवाई और नहीं किया जाना चाहिए कि कार्रवाई के बीच, जीवन की धार्मिक रास्ता और अधार्मिक के बीच भेद नहीं कर सकते हैं जो कि समझ, कि अपूर्ण समझ, Prtha के हे पुत्र, जुनून के मोड में है।

Chapter 18 Verse 32

Chapter Name -Conclusion--The Perfection of Renunciation

Sanskrit English

adharmam dharmam iti ya
manyate tamasavrtta
sarvarthan viparitams ca
buddhih sa partha tamasi

Simple Interpretation

That understanding which considers irreligion to be religion and religion to be irreligion, under the spell of

illusion and darkness, and strives always in the wrong direction, O Partha, is in the mode of ignorance.

Hindi Interpretation

, भ्रम और अंधेरे के जादू के तहत, अधर्म होने के लिए धर्म और धर्म को अधर्म समझता है, और गलत दिशा, हे पार्थ में हमेशा प्रयास जो समझ है कि अज्ञानता के मोड़ में है।

Chapter 18 Verse 33

Chapter Name -Conclusion--The Perfection of Renunciation

Sanskrit English

dhrtya yaya dharayate
manah-pranendriya-kriyah
yogenavyabharinaya
dhrtih sa partha sattviki

Simple Interpretation

O son of Prtha, that determination which is unbreakable, which is sustained with steadfastness by yoga practice, and thus controls the mind, life, and the acts of the senses, is in the mode of goodness.

Hindi Interpretation

Prtha के हे पुत्र, योग के अभ्यास से दृढ़ता के साथ निरंतर, और इस प्रकार मन, जीवन, और इंद्रियों के कृत्यों को नियंत्रित करता है जो अटूट है जो कि दृढ़ संकल्प, अच्छाई के मोड़ में है।

Chapter 18 Verse 34

Chapter Name -Conclusion--The Perfection of Renunciation

Sanskrit English

yaya tu dharma-kamarthan
dhrtya dharayate 'rjuna
prasangena phalakanksi
dhrtih sa partha rajasi

Simple Interpretation

And that determination by which one holds fast to fruitive result in religion, economic development and sense gratification is of the nature of passion, O Arjuna.

Hindi Interpretation

और एक संतुष्टि धर्म, आर्थिक विकास में fruitive परिणाम के लिए उपवास रखती है और भावना है जिसके द्वारा दृढ़ संकल्प है कि जुनून की प्रकृति, हे अर्जुन की है।

Chapter 18 Verse 35

Chapter Name -Conclusion--The Perfection of Renunciation

Sanskrit English

yaya svapnam bhayam sokam
visadam madam eva ca
na vimuncati durmedha
dhrtih sa partha tamasi

Simple Interpretation

And that determination which cannot go beyond dreaming, fearfulness, lamentation, moroseness, and illusion--
such unintelligent determination is in the mode of darkness.

Hindi Interpretation

और सपने देखने, भयानकता, विलाप, रुखापन, और भ्रम से परे नहीं जा सकते हैं, जो कि दृढ़ संकल्प - जैसे मूर्ख दृढ़ संकल्प
अंधेरे के मोड़ में है।

Chapter 18 Verse 36-37

Chapter Name -Conclusion--The Perfection of Renunciation

Sanskrit English

sukham tv idanim tri-vidham
srnu me bharatarsabha
abhyasad ramate yatra
dukhantam ca nigacchati

yat tad agre visam iva
pariname 'mrtopamam
tat sukham sattvikam proktam
atma-buddhi-prasada-jam

Simple Interpretation

O best of the Bharatas, now please hear from Me about the three kinds of happiness which the conditioned soul enjoys, and by which he sometimes comes to the end of all distress. That which in the beginning may be just like poison but at the end is just like nectar and which awakens one to self-realization is said to be happiness in the mode of goodness.

Hindi Interpretation

हे Bharatas का सबसे अच्छा, अब वातानुकूलित आत्मा आनंद मिलता है, और जिसके द्वारा वह कभी कभी सब संकट का अंत करने के लिए आता है, जो खुशी के तीन प्रकार के बारे में मुझ से सुन करें। शुरुआत में सिर्फ जहर की तरह है, लेकिन अंत में हो सकता है जो कि सिर्फ अमृत की तरह है और जो आत्म-साक्षात्कार के लिए एक अच्छाई के मोड़ में खुशी होना कहा जाता है जागता है

Chapter 18 Verse 38

Chapter Name -Conclusion--The Perfection of Renunciation

Sanskrit English

visayendriya-samyogad
yat tad agre 'mrtopamam
pariname visam iva

tat sukham rajasam smrtam

Simple Interpretation

That happiness which is derived from contact of the senses with their objects and which appears like nectar at first but poison at the end is said to be of the nature of passion.

Hindi Interpretation

उनकी वस्तुओं और जिसके साथ इंद्रियों के संपर्क में आने से ली गई है, जो कि खुशी के अंत में पहली लेकिन जहर जुनून की प्रकृति के होने के लिए कहा जाता है पर अमृत की तरह प्रतीत होता है।

Chapter 18 Verse 39

Chapter Name -Conclusion--The Perfection of Renunciation

Sanskrit English

yad agre canubandhe ca
sukham mohanam atmanah
nidralasya-pramadottham
tat tamasam udahrtam

Simple Interpretation

And that happiness which is blind to self-realization, which is delusion from beginning to end and which arises from sleep, laziness and illusion is said to be of the nature of ignorance.

Hindi Interpretation

और शुरु से ही भ्रम समाप्त करने के लिए है, जो और नींद, आलस्य और भ्रम से उत्पन्न होती है, जो आत्म-साक्षात्कार करने के लिए अंधा होता है, जो कि खुशी अज्ञान की प्रकृति के होने के लिए कहा जाता है।

Chapter 18 Verse 40

Chapter Name -Conclusion--The Perfection of Renunciation

Sanskrit English

na tad asti prthivyam va
divi devesu va punah
sattvam prakrti-jair mukta
yad ebhish syat tribhir gunaih

Simple Interpretation

There is no being existing, either here or among the demigods in the higher planetary systems, which is freed from the three modes of material nature.

Hindi Interpretation

वहाँ कोई जा रहा है, मौजूदा या तो यहाँ या सामग्री प्रकृति के तीन मोड से मुक्त कर दिया गया है जो उच्च ग्रह प्रणालियों में demigods के बीच।

Chapter 18 Verse 41

Chapter Name -Conclusion--The Perfection of Renunciation

Sanskrit English

brahmana-ksatriya-visam
sudranam ca parantapa
karmani pravibhaktani
svabhava-prabhavair gunaih

Simple Interpretation

Brahmanas, ksatriyas, vaisyas and sudras are distinguished by their qualities of work, O chastiser of the enemy, in accordance with the modes of nature.

Hindi Interpretation

ब्राह्मण, ksatriyas, vaisyas और sudras प्रकृति के तरीके के अनुसार, काम, दुश्मन के हे chastiser के अपने गुणों द्वारा प्रतिष्ठित हैं।

Chapter 18 Verse 42

Chapter Name -Conclusion--The Perfection of Renunciation

Sanskrit English

samo damas tapah saucam
ksantir arjavam eva ca
jnanam vijnanam astikyam
brahma-karma svabhava-jam

Simple Interpretation

Peacefulness, self-control, austerity, purity, tolerance, honesty, wisdom, knowledge, and religiousness--these are the qualities by which the brahmanas work.

Hindi Interpretation

शांति, आत्म-नियंत्रण, तपस्या, पवित्रता, सहनशीलता, ईमानदारी, बुद्धि, ज्ञान, और धर्म - इन गुणों जिसके द्वारा ब्राह्मण काम कर रहे हैं।

Chapter 18 Verse 43

Chapter Name -Conclusion--The Perfection of Renunciation

Sanskrit English

sauryam tejo dhrtir dakshyam
yuddhe capy apalayanam
danam isvara-bhavas ca
ksatram karma svabhava-jam

Simple Interpretation

Heroism, power, determination, resourcefulness, courage in battle, generosity, and leadership are the qualities of work for the ksatriyas.

Hindi Interpretation

"वीरता, शक्ति, दृढ़ संकल्प, कुशलता, लड़ाई, उदारता, और नेतृत्व में साहस ksatriyas लिए काम करने का गुण हैं।

Chapter 18 Verse 44

Chapter Name -Conclusion--The Perfection of Renunciation

Sanskrit English

kr̥si-go-raksya-vanijyam
vaisya-karma svabhava-jam
paricaryatmakam karma
sudrasyapi svabhava-jam

Simple Interpretation

Farming, cow protection and business are the qualities of work for the vaisyas, and for the sudras there is labor and service to others.

Hindi Interpretation

"कृषि, गोरक्षा और व्यापार vaisyas लिए काम करने का गुण हैं, और sudras के लिए दूसरों के लिए श्रम और सेवा है।

Chapter 18 Verse 45

Chapter Name -Conclusion--The Perfection of Renunciation

Sanskrit English

sve sve karmany abhiratah
samsiddhim labhate narah
sva-karma-niratah siddhim
yatha vindati tac chrnu

Simple Interpretation

By following his qualities of work, every man can become perfect. Now please hear from Me how this can be done.

Hindi Interpretation

"काम के अपने गुणों का अनुसरण करके, हर आदमी। आदर्श बन सकता है यह किया जा सकता है कि कैसे अब मुझ से सुन करें।

Chapter 18 Verse 46

Chapter Name -Conclusion--The Perfection of Renunciation

Sanskrit English

yatah pravrttir bhutanam
yena sarvam idam tatam
sva-karmana tam abhyarcya
siddhim vindati manavah

Simple Interpretation

By worship of the Lord, who is the source of all beings and who is all-pervading, man can, in the performance of his own duty, attain perfection.

Hindi Interpretation

सभी प्राणियों का स्रोत है और कौन प्रभु की पूजा करके मनुष्य अपने अपने कर्तव्य के प्रदर्शन में पूर्णता प्राप्त कर सकते हैं, सभी सर्वव्यापी है।

Chapter 18 Verse 47

Chapter Name -Conclusion--The Perfection of Renunciation

Sanskrit English

sreyan sva-dharmo vigunah
para-dharmat svanusthitat
svabhava-niyatam karma
kurvan napnoti kilbisam

Simple Interpretation

It is better to engage in one's own occupation, even though one may perform it imperfectly, than to accept another's occupation and perform it perfectly. Prescribed duties, according to one's nature, are never affected by sinful reactions.

Hindi Interpretation

यह किसी अन्य के कब्जे स्वीकार करते हैं और यह पूरी तरह से प्रदर्शन करने के लिए एक से अधिक, अपूर्ण यह प्रदर्शन कर सकते हैं, भले ही एक के अपने कब्जे में संलग्न करने के लिए बेहतर है। निर्धारित शुल्क, एक की प्रकृति के अनुसार, पापी प्रतिक्रियाओं से प्रभावित नहीं कर रहे हैं।

Chapter 18 Verse 48

Chapter Name -Conclusion--The Perfection of Renunciation

Sanskrit English

saha-jam karma kaunteya
sa-dosam api na tyajet
sarvarambha hi dosena
dhumenagnir ivavrtah

Simple Interpretation

Every endeavor is covered by some sort of fault, just as fire is covered by smoke. Therefore one should not give up the work which is born of his nature, O son of Kunti, even if such work is full of fault.

Hindi Interpretation

हर प्रयास आग के धुएं से कवर किया जाता है, ठीक उसी तरह की गलती के लिए किसी प्रकार से आच्छादित है। इसलिए एक ऐसे काम गलती से भरा हुआ है, भले ही उसका स्वभाव, कुंती के हे पुत्र का जन्म होता है जो काम नहीं देना चाहिए।

Chapter 18 Verse 49

Chapter Name -Conclusion--The Perfection of Renunciation

Sanskrit English

asakta-buddhih sarvatra
jitatma vigata-sprah
naiskarmya-siddhim paramam
sannyasenadhigacchati

Simple Interpretation

One can obtain the results of renunciation simply by self-control and by becoming unattached to material things and disregarding material enjoyments. That is the highest perfectional stage of renunciation.

Hindi Interpretation

एक बस आत्म नियंत्रण से और भौतिक चीज़ों को स्वाधीन बनने और सामग्री आनंदों की अनदेखी से संन्यास के परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। यही कारण है कि संन्यास के उच्चतम perfectional चरण है।

Chapter 18 Verse 50

Chapter Name -Conclusion--The Perfection of Renunciation

Sanskrit English

siddhim prapto yatha brahma
tathapnoti nibodha me
samasevaiva kaunteya
nistha jnanasya ya para

Simple Interpretation

O son of Kunti, learn from Me in brief how one can attain to the supreme perfectional stage, Brahman, by acting in the way I shall now summarize.

Hindi Interpretation

कुंती के हे पुत्र, एक में अब संक्षेप में प्रस्तुत करेगा रास्ते में अभिनय करके, सुप्रीम perfectional मंच, ब्रह्म को प्राप्त कर सकते हैं कि कैसे संक्षिप्त में मुझ से सीखो।

Chapter 18 Verse 51-53

Chapter Name -Conclusion--The Perfection of Renunciation

Sanskrit English

buddhya visuddhaya yukto
dhrtyatmanam niyamya ca
sabdadin visayams tyaktva
raga-dvesau vyudasya ca

vivikta-sevi laghv-asi

yata-vak-kaya-manasah
dhyana-yoga-paro nityam
vairagyam samupasritah

ahankaram balam darpam
kamam krodham parigraham
vimucya nirmamah santo
brahma-bhuyaya kalpate

Simple Interpretation

Being purified by his intelligence and controlling the mind with determination, giving up the objects of sense gratification, being freed from attachment and hatred, one who lives in a secluded place, who eats little and who controls the body and the tongue, and is always in trance and is detached, who is without false ego, false strength, false pride, lust, anger, and who does not accept material things, such a person is certainly elevated to the position of self-realization.

Hindi Interpretation

भावना संतुष्टि की वस्तुओं को दे रही है, उसकी बुद्धि से शुद्ध और दृढ़ संकल्प के साथ मन को नियंत्रित किया जा रहा है, थोड़ा खाती है और जो शरीर और जीभ को नियंत्रित करता है, और हमेशा होता है, जो लगाव और घृणा, एक सुनसान जगह में रहता है, जो एक से मुक्त किया जा रहा मदहोशी में और अलग है, जो झूठे अहंकार, झूठी ताकत, झूठी शान, वासना, क्रोध के बिना है, और भौतिक चीजों को

Chapter 18 Verse 54

Chapter Name -Conclusion--The Perfection of Renunciation

Sanskrit English
brahma-bhutaḥ prasannaṭma
na soḥati na kanksati
samah sarvesu bhutesu
mad-bhaktim labhate param

Simple Interpretation

One who is thus transcendently situated at once realizes the Supreme Brahman. He never laments nor desires to have anything; he is equally disposed to every living entity. In that state he attains pure devotional service unto Me.

Hindi Interpretation

इस प्रकार transcendently एक ही बार में स्थित है, जो एक परम ब्रह्म का एहसास है। वह कभी अफसोस जताया है और न ही कुछ भी करने की इच्छा; वह समान रूप से रहने वाले हर इकाई को निपटाया है। उस राज्य में उस ने मुझ से शुद्ध भक्ति सेवा उपलब्ध हो जाता है।

Chapter 18 Verse 55

Chapter Name -Conclusion--The Perfection of Renunciation

Sanskrit English
bhaktya mam abhijanati
yavan yas casmi tattvataḥ
tato mam tattvato jnatva
visate tad-anantaram

Simple Interpretation

One can understand the Supreme Personality as He is only by devotional service. And when one is in full consciousness of the Supreme Lord by such devotion, he can enter into the kingdom of God.

Hindi Interpretation

उन्होंने कहा कि भक्ति सेवा से ही है के रूप में एक सुप्रीम व्यक्तित्व को समझ सकते हैं। एक ऐसी भक्ति से सुप्रीम प्रभु की पूरी चेतना में है और जब वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं।

Chapter 18 Verse 56

Chapter Name -Conclusion--The Perfection of Renunciation

Sanskrit English

sarva-karmany api sada
kurvano mad-vyapasrayah
mat-prasadad avapnoti
sasvatam padam avyayam

Simple Interpretation

Though engaged in all kinds of activities, My devotee, under My protection, reaches the eternal and imperishable abode by My grace.

Hindi Interpretation

गतिविधियों के सभी प्रकार में लगे हुए है, हालांकि मेरा भक्त, मेरी सुरक्षा के तहत, मेरी कृपा से अनन्त और अविनाशी निवास तक पहुँचता है।

Chapter 18 Verse 57

Chapter Name -Conclusion--The Perfection of Renunciation

Sanskrit English

cetasa sarva-karmani
mayi sannyasya mat-parah
buddhi-yogam upasritya
mac-cittah satatam bhava

Simple Interpretation

In all activities just depend upon Me and work always under My protection. In such devotional service, be fully conscious of Me.

Hindi Interpretation

सभी गतिविधियों में सिर्फ मेरे पर निर्भर करते हैं और मेरी सुरक्षा के तहत हमेशा काम करते हैं। ऐसी भक्ति सेवा में, मुझे के लिए पूरी तरह से होश में हो।

Chapter 18 Verse 58

Chapter Name -Conclusion--The Perfection of Renunciation

Sanskrit English
mac-cittah sarva-durgani
mat-prasadat tarisyasi
atha cet tvam ahankaran
na srosyasi vinanksyasi

Simple Interpretation

If you become conscious of Me, you will pass over all the obstacles of conditional life by My grace. If, however, you do not work in such consciousness but act through false ego, not hearing Me, you will be lost.

Hindi Interpretation

तुम मुझे के प्रति सचेत हो, तुम मेरी कृपा से सशर्त जीवन की सभी बाधाओं को पार करना होगा। हालांकि, यदि आप इस तरह की चेतना में काम नहीं करते, लेकिन मुझे सुनवाई नहीं, झूठे अहंकार के माध्यम से कार्य करते हैं, तो आप खो जाएंगे।

Chapter 18 Verse 59

Chapter Name -Conclusion--The Perfection of Renunciation

Sanskrit English
yad ahankaram asritya
na yotsya iti manyase
mithyaisa vyavasayas te
prakrtis tvam niyoksyati

Simple Interpretation

If you do not act according to My direction and do not fight, then you will be falsely directed. By your nature, you will have to be engaged in warfare.

Hindi Interpretation

तुम मेरी दिशा के अनुसार कार्य नहीं करते हैं और लड़ाई नहीं है, तो आप झूठा निर्देशित किया जाएगा। अपने स्वभाव से, आप युद्ध में लगे हुए किया जाना होगा।

Chapter 18 Verse 60

Chapter Name -Conclusion--The Perfection of Renunciation

Sanskrit English
svabhava-jena kaunteya
nibaddhah svena karmana
kartum necchasi yan mohat
karisyasy avaso 'pi tat

Simple Interpretation

Under illusion you are now declining to act according to My direction. But, compelled by your own nature, you will act all the same, O son of Kunti.

Hindi Interpretation

इस भ्रम में है कि तुम अब मेरी दिशा के अनुसार कार्य करने गिरावट आ रही है। लेकिन, अपने खुद के स्वभाव से मजबूर, आप कुंती के सभी एक ही, हे पुत्र कार्य करेगा।

Chapter 18 Verse 61

Chapter Name -Conclusion--The Perfection of Renunciation

Sanskrit English
isvarah sarva-bhutanam
hrd-dese 'rjuna tisthati
bhramayan sarva-bhutani
yantrarudhani mayaya

Simple Interpretation

The Supreme Lord is situated in everyone's heart, O Arjuna, and is directing the wanderings of all living entities, who are seated as on a machine, made of the material energy.

Hindi Interpretation

सुप्रीम भगवान हर किसी के दिल, हे अर्जुन में स्थित है, और सामग्री ऊर्जा से बना एक मशीन पर के रूप में बैठे हैं, जो सभी जीवित संस्थाओं, के wanderings निर्देशन कर रही है।

Chapter 18 Verse 62

Chapter Name -Conclusion--The Perfection of Renunciation

Sanskrit English
tam eva saranam gaccha
sarva-bhavena bhārata
tat-prasadat param santim
sthanam prapasyasi sasvatam

Simple Interpretation

O scion of Bharata, surrender unto Him utterly. By His grace you will attain transcendental peace and the supreme and eternal abode.

Hindi Interpretation

हे भरत वंशज, पूरी तरह से उसे पर्यंत आत्मसमर्पण। उनकी कृपा से आप दिव्य शांति और सर्वोच्च और अनन्त निवास प्राप्त होगा।

Chapter 18 Verse 63

Chapter Name -Conclusion--The Perfection of Renunciation

Sanskrit English
iti te jnanam akhyatam
guhyad guhyataram maya
vimrsyaitad asesena

yathecchasi tatha kuru

Simple Interpretation

Thus I have explained to you the most confidential of all knowledge. Deliberate on this fully, and then do what you wish to do.

Hindi Interpretation

इस प्रकार मैं आप सभी ज्ञान का सबसे गोपनीय समझा दिया है। इस पर विचार-विमर्श पूरी तरह से, और फिर आप करना चाहते हैं कि क्या करना है।

Chapter 18 Verse 64

Chapter Name -Conclusion--The Perfection of Renunciation

Sanskrit English

sarva-guhyatamam bhuyah
srnu me paramam vacah
isto 'si me drdham iti
tato vaksyami te hitam

Simple Interpretation

Because you are My very dear friend, I am speaking to you the most confidential part of knowledge. Hear this from Me, for it is for your benefit.

Hindi Interpretation

आप मेरे बहुत प्रिय मित्र हैं, इसलिए मैं तुम्हें करने के लिए ज्ञान का सबसे गोपनीय हिस्सा बोल रहा हूँ। यह अपने लाभ के लिए है, के लिए मेरी तरफ से यह सुना है।

Chapter 18 Verse 65

Chapter Name -Conclusion--The Perfection of Renunciation

Sanskrit English

man-mana bhava mad-bhakto
mad-yaji mam namaskuru
mam evaisyasi satyam te
pratijane priyo 'si me

Simple Interpretation

Always think of Me and become My devotee. Worship Me and offer your homage unto Me. Thus you will come to Me without fail. I promise you this because you are My very dear friend.

Hindi Interpretation

मुझे हमेशा से लगता है और मेरा भक्त बन जाते हैं। मुझे पूजा और मुझे पर्यंत अपनी श्रद्धांजलि प्रदान करते हैं। इस प्रकार आप असफल बिना मेरे पास आ जाएगा। मैं तुम्हें मेरे बहुत प्रिय मित्र हैं इस वजह से तुमसे वादा करता हूँ।

Chapter 18 Verse 66

Chapter Name -Conclusion--The Perfection of Renunciation

Sanskrit English

sarva-dharman parityajya
mam ekam saranam vraja
aham tvam sarva-papebhyo
moksaisyami ma sucah

Simple Interpretation

Abandon all varieties of religion and just surrender unto Me. I shall deliver you from all sinful reaction. Do not fear.

Hindi Interpretation

धर्म के सभी किस्मों छोड़ देना चाहिए और सिर्फ मुझे पर्यंत आत्मसमर्पण। मैं सब पापी प्रतिक्रिया से उद्धार करेगा। डर नहीं है।

Chapter 18 Verse 67

Chapter Name -Conclusion--The Perfection of Renunciation

Sanskrit English

idam te natapaskaya
nabhaktaya kadaana
na casurusave vacyam
na ca mam yo 'bhyasuyati

Simple Interpretation

This confidential knowledge may not be explained to those who are not austere, or devoted, or engaged in devotional service, nor to one who is envious of Me.

Hindi Interpretation

इस गोपनीय ज्ञान तपस्या नहीं कर रहे हैं जो उन लोगों को समझाया, या समर्पित, या भक्ति सेवा में लगे हुए हैं, और न ही एक करने के लिए कौन मुझे के जलते हैं नहीं किया जा सकता है।

Chapter 18 Verse 68

Chapter Name -Conclusion--The Perfection of Renunciation

Sanskrit English

ya idam paramam guhyam
mad-bhakteshv abhidhasyati
bhaktim mayi param krtva
mam evaisyaty asamsayah

Simple Interpretation

For one who explains the supreme secret to the devotees, devotional service is guaranteed, and at the end he will come back to Me.

Hindi Interpretation

भक्तों को सुप्रीम गुप्त बताते हैं जो एक के लिए, भक्ति सेवा गारंटी है, और अंत में वह मेरे पास वापस आ जाएगा।

Chapter 18 Verse 69

Chapter Name -Conclusion--The Perfection of Renunciation

Sanskrit English

na ca tasman manusyesu
kascin me priya-krttamah
bhavita na ca me tasmad
anyah priyataro bhuvi

Simple Interpretation

There is no servant in this world more dear to Me than he, nor will there ever be one more dear.

Hindi Interpretation

वह से मुझे ज्यादा प्रिय इस दुनिया में कोई नौकर नहीं है, और न ही कभी एक अधिक प्रिय हो जाएगा।

Chapter 18 Verse 70

Chapter Name -Conclusion--The Perfection of Renunciation

Sanskrit English

adhyesyate ca ya imam
dharmyam samvadam avayoh
jnana-yajnena tenaham
istah syam iti me matih

Simple Interpretation

And I declare that he who studies this sacred conversation worships Me by his intelligence.

Hindi Interpretation

और मैं इस पवित्र बातचीत का अध्ययन करता हूँ जो वह अपनी बुद्धि के द्वारा मुझे कि पूजा की घोषणा।

Chapter 18 Verse 71

Chapter Name -Conclusion--The Perfection of Renunciation

Sanskrit English

sraddhavan anasuyas ca
srnuyad api yo narah
so 'pi muktah subhal lokan
prapnuyat punya-karmanam

Simple Interpretation

And one who listens with faith and without envy becomes free from sinful reactions and attains to the planets where the pious dwell.

Hindi Interpretation

और विश्वास के साथ और ईर्ष्या के बिना सुनता है, जो एक पापी प्रतिक्रियाओं से मुक्त हो जाता है और जहां पवित्र ध्यान केन्द्रित करना ग्रहों के लिए उपलब्ध हो जाता है।

Chapter 18 Verse 72

Chapter Name -Conclusion--The Perfection of Renunciation

Sanskrit English

kaccid etac chrutam partha
tvayaikagrena cetasa
kaccid ajnana-sammohah
pranastas te dhananjaya

Simple Interpretation

O conqueror of wealth, Arjuna, have you heard this attentively with your mind? And are your illusions and ignorance now dispelled?

Hindi Interpretation

धन के हे विजेता, अर्जुन, आप अपने मन के साथ ध्यान से इस बारे में सुना है? और अपने भ्रम और अज्ञानता अब dispelled कर रहे हैं?

Chapter 18 Verse 73

Chapter Name -Conclusion--The Perfection of Renunciation

Sanskrit English

arjuna uvaca
nasto mohah smrtir labdha
tvat-prasadan mayacyuta
sthito 'smi gata-sandehah
karisye vacanam tava

Simple Interpretation

Arjuna said, My dear Krsna, O infallible one, my illusion is now gone. I have regained my memory by Your mercy, and I am now firm and free from doubt and am prepared to act according to Your instructions.

Hindi Interpretation

अर्जुन मेरे प्यारे कृष्ण, हे अचूक एक, मेरा भ्रम अब चला गया है, ने कहा। मैं आपकी दया से मेरी स्मृति आ गया है, और अब मैं फर्म और संदेह से मुक्त हूँ और आपके निर्देशों के अनुसार कार्य करने के लिए तैयार हूँ।

Chapter 18 Verse 74

Chapter Name -Conclusion--The Perfection of Renunciation

Sanskrit English

sanjaya uvaca

ity aham vasudevasya
parthasya ca mahatmanah
samvadam imam asrausam
adbhutam roma-harsanam

Simple Interpretation

Sanjaya said: Thus have I heard the conversation of two great souls, Krsna and Arjuna. And so wonderful is that message that my hair is standing on end.

Hindi Interpretation

संजय ने कहा: इस प्रकार मैं दो महान आत्माओं, कृष्ण और अर्जुन की बातचीत सुनी है। और तो अद्भुत मेरे बाल अंत पर खड़ा है कि उस संदेश है।

Chapter 18 Verse 75

Chapter Name -Conclusion--The Perfection of Renunciation

Sanskrit English
vyasa-prasadac chrutavan
etad guhyam aham param
yogam yogesvarat krsnat
saksat kathayatah svayam

Simple Interpretation

By the mercy of Vyasa, I have heard these most confidential talks directly from the master of all mysticism, Krsna, who was speaking personally to Arjuna.

Hindi Interpretation

व्यास की दया से, मैं अर्जुन को व्यक्तिगत रूप से बोल रहे थे, जो सभी रहस्यवाद, कृष्ण, के मालिक से सीधे इन सबसे गोपनीय वार्ता में सुना है।

Chapter 18 Verse 76

Chapter Name -Conclusion--The Perfection of Renunciation

Sanskrit English
rajan samsmrtya samsmrtya
samvadam imam adbhutam
kesavarjunayoh punyam
harsyami ca muhur muhuh

Simple Interpretation

O King, as I repeatedly recall this wondrous and holy dialogue between Krsna and Arjuna, I take pleasure, being thrilled at every moment.

Hindi Interpretation

मैं बार बार कृष्ण और अर्जुन के बीच इस चमत्कारिक और पवित्र संवाद याद के रूप में हे राजा, मैं हर पल में रोमांचित किया जा रहा है, आनंद लेते हैं।

Chapter 18 Verse 77

Chapter Name -Conclusion--The Perfection of Renunciation

Sanskrit English

tac ca samsmrtya samsmrtya
rupam aty-adbhutam hareh
vismayo me mahan rajan
hrsyaami ca punah punah

Simple Interpretation

O King, when I remember the wonderful form of Lord Krsna, I am struck with even greater wonder, and I rejoice again and again.

Hindi Interpretation

में भगवान कृष्ण की अद्भुत फार्म याद है जब हे राजा, मैं और भी अधिक आश्चर्य के साथ मारा हूँ, और मैं फिर से और फिर आनन्द।

Chapter 18 Verse 78

Chapter Name -Conclusion--The Perfection of Renunciation

Sanskrit English

yatra yogesvarah krsno
yatra partho dhanur-dharah
tatra srir vijayo bhutir
dhruva nitir matir mama

Simple Interpretation

Wherever there is Krsna, the master of all mystics, and wherever there is Arjuna, the supreme archer, there will also certainly be opulence, victory, extraordinary power, and morality. That is my opinion.

Hindi Interpretation

जहाँ भी श्री कृष्ण, सभी मनीषियों के मास्टर है, और अर्जुन, सुप्रीम आर्चर वहाँ है, जहाँ भी निश्चित रूप से संपन्नता, विजय, असाधारण शक्ति है, और नैतिकता की जाएगी। यही कारण है कि मेरी राय है।